



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21—मार्च 27, 2009 (फाल्गुन 30, 1930)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21—MARCH 27, 2009 (PHALGUNA 30, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2009

सं. 10-प्रेज/2009, दिनांक 26 जनवरी 2009--राष्ट्रपति उनके अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'परम विशिष्ट सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. आईसी-19391 लेफ्टिनेंट जनरल बलदेव सिंह पवार, अविसेमे, तोपखाना रेजिमेंट (सेवानिवृत्त)
2. आईसी-19422 लेफ्टिनेंट जनरल रामा रंजन गोस्वामी, इंजीनियर्स कोर (सेवानिवृत्त)
3. आईसी-23011 लेफ्टिनेंट जनरल ईसाक जोहन कोशी, अविसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
4. आईसी-23276 लेफ्टिनेंट जनरल नॉबेल थम्बुराज, सेमे, इंजीनियर्स कोर
5. आईसी-23291 लेफ्टिनेंट जनरल जयन्ता कुमार मोहान्ती, उयुसेमे, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री
6. आईसी-23302 लेफ्टिनेंट जनरल तेज कुमार सपरू, युसेमे, इन्फैंट्री
7. आईसी-23928 लेफ्टिनेंट जनरल राजेन्द्र सिंह, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री
8. आईसी-24173 लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार सिंह, अविसेमे, युसेमे, इन्फैंट्री
9. आईसी-24178 लेफ्टिनेंट जनरल प्रबोध चन्द्र भारद्वाज, अविसेमे, वीर चक्र, शौर्य चक्र, विसेमे, इन्फैंट्री

10. आईसी-24208 लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह शेखों, अविसेमे, युसेमे, इन्फैंट्री
11. आईसी-24255 लेफ्टिनेंट जनरल अमर नाथ औल, उयुसेमे, अविसेमे, इन्फैंट्री
12. आईसी-24604 लेफ्टिनेंट जनरल दिगम्बर सिंह बरतवाल, इन्फैंट्री
13. आईसी-24611 लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री
14. आईसी-24810 लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार गुप्ता, सेना सेवा कोर
15. आईसी-28805 लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह डोगरा, अविसेमे *, विसेमे, सेना वायु रक्षा (सेवानिवृत्त)
16. आईसी-32703 लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा पिल्लै शंकरनारायणा पिल्लै वेणुगोपाल, अविसेमे, इलेक्ट्रॉनिक एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग (सेवानिवृत्त)
17. एमआर-02475 लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्रा सिंह, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर
18. एमआर-02669 लेफ्टिनेंट जनरल जयकृष्णन जयराम, अविसेमे, सेना चिकित्सा कोर
19. वी-00321 लेफ्टिनेंट जनरल नारायण मोहान्ती, अविसेमे, विसेमे, रिमाउंट एवं वेटेरीनरी कोर (सेवानिवृत्त)
20. वाइस एडमिरल रमन प्रेम सुथन, अविसेमे, विसेमे, (01137-एच)
21. वाइस एडमिरल सुनील कृष्णाजी दामले, अविसेमे, नौमे, विसेमे, (01168-बी)
22. वाइस एडमिरल बृज कृष्ण कौल, अविसेमे, (50272-बी) (सेवानिवृत्त)
23. वाइस एडमिरल रुसतम फरामरोज कोन्टेक्टर, अविसेमे, नौमे, (01224-एफ) (सेवानिवृत्त)
24. एयर मार्शल कंवर दलिनंदरजीत सिंह, अविसेमे, एडीसी (12403) उड़ान (पायलट)
25. एयर मार्शल सदाशिवन राधाकृष्णन, अविसेमे (12408) उड़ान (पायलट)
26. एयर मार्शल विनोद कुमार वर्मा, अविसेमे, वामे, विसेमे (11638) उड़ान (पायलट) (सेवानिवृत्त)
27. एयर मार्शल शिव कुमार भान, अविसेमे, वामे (12510) उड़ान (पायलट)
28. एयर मार्शल गौतम नथ्यर, विसेमे (13024) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
29. एयर मार्शल सुरेश चन्द मुकूल, अविसेमे, वामे, विसेमे (12930) उड़ान (पायलट)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 11-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति युद्ध के दौरान उनके उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्याको को उत्तम युद्ध सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-27258 मेजर जनरल राजिन्द्र सिंह, सेमे, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय, प्रतिविद्रोही बल (किलो)
2. आईसी-27979 मेजर जनरल जतिन्द्र सिंह बाजवा, सेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 28 इन्फैंट्री डिवीजन

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 12-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति असाधारण कोर्ट की विशिष्ट सेवा के लिए आईसी-24584 लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह जसवाल, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 4 कोर को 'अति विशिष्ट सेवा मेडल-बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव,

संख्या 13-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति उनके अति असाधारण कोर्ट की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'अति विशिष्ट सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-19401 लेफ्टिनेंट जनरल यतिन्द्र सिंह पनवर, विसेमे, सिगनल्स कोर/एमसीटीई, मऊ
2. आईसी-23665 लेफ्टिनेंट जनरल अरुण कुमार नन्दा, इंजीनियर्स कोर/मुख्यालय डीजीबीआर
3. आईसी-23801 लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार लाम्बा, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
4. आईसी-24652 लेफ्टिनेंट जनरल राज कुमार करवाल, सेमे*, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 16 कोर
5. आईसी-24656 लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना, विसेमे, कवचित कोर/मुख्यालय 21 कोर
6. आईसी-25064 लेफ्टिनेंट जनरल श्रीधरन श्याम कुमार, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 11 कोर
7. आईसी-25189 लेफ्टिनेंट जनरल गौतम बैनर्जी, युसेमे, इंजीनियर्स कोर/मुख्यालय मध्य कमान
8. आईसी-24283 लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार लुम्बा, कवचित कोर/सेना युद्ध कॉलेज, मऊ
9. आईसी-25434 लेफ्टिनेंट जनरल शंकर रंजन घोष, सेमे, इन्फैंट्री
10. आईसी-25562 लेफ्टिनेंट जनरल पार्थ महापात्र, सिगनल्स कोर
11. आईसी-32844 लेफ्टिनेंट जनरल राम प्रताप, विसेमे, सेना वायु रक्षा/सेना वायु रक्षा कॉलेज
12. आईसी-24749 मेजर जनरल प्रवीण चन्द्र खरबन्दा, सेमे, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय एसएफसी
13. आईसी-25847 मेजर जनरल सुरेन्द्र प्रताप राय, इन्फैंट्री
14. आईसी-27265 मेजर जनरल बालाकृष्णन वेणुगोपाल नायर, तोपखाना रेजिमेंट 90
15. आईसी-27321 मेजर जनरल कंवल जीत सिंह ओबराय, सेमे, इन्फैंट्री/मुख्या. दिल्ली एरिया
16. आईसी-27606 मेजर जनरल अजय कुमार सिंह, सेमे, विसेमे, कवचित कोर
17. आईसी-27608 मेजर जनरल राम कंवर हूडा, इन्फैंट्री/मुख्यालय एमजी एंड जी एरिया

18. आईसी-27778 मेजर जनरल जगबीर सिंह कुण्डु, तोपखाना रेजिमेंट
19. आईसी-27782 मेजर जनरल पानेमंगलूर गोपालकृष्ण कामथ, युसेमे, सेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 11 इन्फैंट्री डिवीजन
20. आईसी-27793 मेजर जनरल जतिन्द्र सिंह, सेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 2 पर्वतीय डिवीजन
21. आईसी-27990 मेजर जनरल मुनिश सिबल, इन्फैंट्री/मुख्यालय 7 इन्फैंट्री डिवीजन
22. आईसी-30053 मेजर जनरल राजीव कुमार कालरा, सेना वायु रक्षा
23. आईसी-30109 मेजर जनरल विनोद कुमार तिवारी, तोपखाना रेजिमेंट
24. आईसी-30353 मेजर जनरल सैयद अता हस्नैन, सेमे, विसेमे**, इन्फैंट्री/मुख्यालय 19 इन्फैंट्री डिवीजन
25. आईसी-30503 मेजर जनरल जय प्रकाश नेहरा, इन्फैंट्री/मुख्यालय आईजीएआर (उत्तर)
26. आईसी-30612 मेजर जनरल शंकरपिल्ला सरचन्द्रन नायर, सेना शिक्षा कोर
27. आईसी-30708 मेजर जनरल अशोक कुमार चौधरी, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय डीजीएआर (दक्षिण)
28. आईसी-31016 मेजर जनरल सुब्रामनयम सुन्दर, सेना वायु रक्षा
29. एमआर-03434 मेजर जनरल हीरा लाल ककरिया, विसेमे*, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, मुख्यालय दक्षिण कमान
30. एमआर-03436 मेजर जनरल चरनजीत सिंह, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर/मुख्यालय पश्चिम कमान
31. आईसी-27994 मेजर जनरल पलविन्द्र सिंह भल्ला, कवचित कोर/मुख्यालय 20 पर्वतीय डिवीजन
32. सर्जन वाइस एडमिरल वसंत श्रीपदराव दीक्षित, विसेमे (75150-डब्ल्यू)
33. वाइस एडमिरल कन्नन भागवथेश्वरन, विसेमे, (50431-आर)
34. रियर एडमिरल बोला राधाकृष्ण राव, नौमे, विसेमे, (01249-एन)
35. रियर एडमिरल ए आर राधाकृष्णन, (01515-टी)
36. रियर एडमिरल एम पी मुरलीधरन, नौमे, (01587-एफ)
37. रियर एडमिरल के सी शेखर, विसेमे, (40445-के) (सेवानिवृत्त)
38. रियर एडमिरल मोहिंदर कुमार बधवार, विसेमे, (40474-के)
39. एयर वाइस मार्शल जसबीर सिंह पनेसर, वामे (13370), उड़ान (पायलट)
40. एयर वाइस मार्शल सपन कुमार कर्माकर, वामे (13379), उड़ान (पायलट)
41. एयर वाइस मार्शल श्याम बिहारी बाजपेयी (13531) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
42. एयर वाइस मार्शल बलदेव सिंह, विसेमे (13683) लेखा
43. एयर वाइस मार्शल बेलीगुण्ड कृष्णामूर्ति मुरली, विसेमे (13728) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
44. एयर वाइस मार्शल अरुण राहा, वामे (13910) उड़ान (पायलट)

45. एयर वाइस मार्शल मुथुमानिकम मातेस्वरन, वामे (14104) उड़ान (पायलट)
46. एयर वाइस मार्शल परमजीत सिंह गिल वामे (14097) उड़ान (पायलट)
47. एयर कप्तान गुडिपुडि राजेंद्र प्रसाद, विसेमे (13236) प्रशासन
48. एयर कप्तान विनोद कुमार नारंग (14326) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
49. एयर कप्तान राव बीरादावालु केशव (14450) चिकित्सा
50. एयर कप्तान सुनील श्रीपाद सोमन, वामे, (14681) उड़ान (पायलट)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 14-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति युद्ध के दौरान उनके उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'युद्ध सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-35471 ब्रिगेडियर बिपिन रावत, सेमे, विसेमे, 11 गोरखा राइफल/मुख्यालय 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
2. आईसी-35494 ब्रिगेडियर सुब्रता साहा, विसेमे*, असम रेजिमेंट/मुख्यालय 268 इन्फैंट्री ब्रिगेड
3. आईसी-35626 ब्रिगेडियर उमेश कुमार गुरुंग, सिख रेजिमेंट/मुख्यालय 81 पर्वतीय ब्रिगेड
4. आईसी-37211 ब्रिगेडियर देविन्द्र सिंह डडवाल, सेमे, सिख रेजिमेंट/मुख्यालय 73 पर्वतीय ब्रिगेड
5. आईसी-47053 कर्नल मोहन सिंह शेखावत, सेमे, कुमाऊं रेजिमेंट/50 राष्ट्रीय राइफल

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 15-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति उनके उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'विशिष्ट सेवा मेडल-बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-24631 मेजर जनरल उमंग कपूर, विसेमे, इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग/मुख्यालय डीआरडीओ
2. आईसी-38024 ब्रिगेडियर लाइफारकपम निषिकांता सिंह, विसेमे, इंटेलीजेंस कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 16-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति उनके उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'विशिष्ट सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-25833 लेफ्टिनेंट जनरल गोविन्द मोहन नायर, सेमे, इन्फैंट्री
2. आईसी-25511 मेजर जनरल बृजेश कुमार, इंजीनियर्स कोर
3. आईसी-25824 मेजर जनरल ध्रुव चंद कटोच, सेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 10 कोर
4. आईसी-27289 मेजर जनरल अजीत हरी गडरे, सेना विमानन कोर
5. आईसी-27616 मेजर जनरल कोंगरा सुरेन्द्र नाथ, मैकानाइज्ड इन्फैंट्री
6. आईसी-27767 मेजर जनरल प्रदीप भल्ला, सेना आयुध कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
7. आईसी-27967 मेजर जनरल सुरिन्द्र पाल सिंह, तोपखाना रेजिमेंट
8. आईसी-30052 मेजर जनरल ब्रिजेन्द्र सिंह दौलता, इन्फैंट्री/मुख्यालय 16 इन्फैंट्री डिवीजन
9. आईसी-30056 मेजर जनरल तपन कुमार दास, सिगनल्स कोर
10. आईसी-30278 मेजर जनरल धर्म वीर कालरा, सिगनल्स कोर
11. आईसी-30683 मेजर जनरल रामेश्वर यादव, इन्फैंट्री/मुख्यालय 22 इन्फैंट्री डिवीजन
12. आईसी-34912 मेजर जनरल विनोद कुमार शर्मा, सेना सेवा कोर
13. एमआर-03029 मेजर जनरल महावीर सिंह, सेना चिकित्सा कोर
14. आईसी-31052 मेजर जनरल शक्ति गुरुंग, ग्रैनेडियर्स/मुख्यालय आईडीएस
15. आईसी-27247 ब्रिगेडियर विक्रम गोस्वामी, गढ़वाल राइफल/मुख्यालय आईडीएस
16. आईसी-30374 ब्रिगेडियर नागेन्द्र सिंह, राजपूताना राइफल
17. आईसी-31155 ब्रिगेडियर दिपक गोविन्द भट्ट, तोपखाना रेजिमेंट
18. आईसी-31324 ब्रिगेडियर कोथेनाथ सुरेन्द्रनाथ, सेमे, क्वचित कोर/मुख्यालय उत्तरी कमान
19. आईसी-33984 ब्रिगेडियर जसवन्त सिंह यादव, जज एडवोकेट जनरल विभाग
20. आईसी-34048 ब्रिगेडियर जी वी सत्यनारायना, 5 गोरखा राइफल (फ्रंटियर फोर्स)/मुख्यालय 15 कोर
21. आईसी-34256 ब्रिगेडियर नेत्र प्रकाश शर्मा, सिगनल्स (सेवानिवृत्त)
22. आईसी-34890 ब्रिगेडियर श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन, मद्रास रेजिमेंट/मुख्यालय 63 पर्वतीय ब्रिगेड
23. आईसी-35153 ब्रिगेडियर देवेन्द्र कुमार पुरोहित, सेमे, महार रेजिमेंट/मुख्यालय 15 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
24. आईसी-35249 ब्रिगेडियर गुरजीत सिंह चीमा, क्वचित कोर/मुख्यालय 340 (स्वतंत्र) मेकेनाइज्ड ब्रिगेड
25. आईसी-35261 ब्रिगेडियर प्रभाकरण नायर कनाथिल नारायणन, सेमे, बिहार रेजिमेंट/मुख्यालय 36 सेक्टर

26. आईसी-35479 ब्रिगेडियर बलवन्त सिंह नेगी, युसेमे, असम रेजिमेंट/मुख्यालय 92 इन्फैंट्री ब्रिगेड
27. आईसी-35486 ब्रिगेडियर सुभाष चन्द्र रांगी, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय 121 (स्वतंत्र) इन्फैंट्री ब्रिगेड ग्रुप
28. आईसी-35602 ब्रिगेडियर अशोक भीम शिवाने, कवचित कोर, मुख्यालय 4 (स्वतंत्र) कवचित कोर
29. आईसी-35731 ब्रिगेडियर अस्थाना शशी भुषण, सेमे, असम रेजिमेंट/मुख्यालय 21 सेक्टर असम राइफल
30. आईसी-35800 ब्रिगेडियर पूरन चन्द जागिया, इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग/506 आर्मी बेस वर्कशॉप
31. आईसी-37096 ब्रिगेडियर अरुण गुप्ता, पंजाब रेजिमेंट/मुख्यालय 107 पर्वतीय ब्रिगेड
32. आईसी-37204 ब्रिगेडियर बिनोय पुत्रेन, महार रेजिमेंट/मुख्यालय 181 पर्वतीय ब्रिगेड
33. आईसी-37223 ब्रिगेडियर अविनाश चन्द्र, डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय 86 इन्फैंट्री ब्रिगेड
34. आईसी-38013 ब्रिगेडियर विनोद कुमार पिल्ले, गाड्स/मुख्यालय 112 पर्वतीय ब्रिगेड
35. आईसी-39826 ब्रिगेडियर त्रिलोचन सिंह सिदाना, इंजीनियर्स कोर/सीई चेत्रई जोन
36. एमआर-03722 ब्रिगेडियर परमजीत सिंह धोत, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, मुख्यालय मध्य कमान
37. एसएल-02649 ब्रिगेडियर अशोक राउड, सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर/सेना शारीरिक प्रशिक्षण एवं डिपो संस्थान
38. एसएल-02790 ब्रिगेडियर वेणुगोपाल, एम एन, सामान्य सेवा
39. आईसी-31532 ब्रिगेडियर गोविन्द सिंह सिसोदिया, सिख रेजिमेंट/मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
40. आईसी-37682 कर्नल हरप्रीत सिंह बेदी, तोपखाना रेजिमेंट
41. आईसी-37892 कर्नल अश्विनी कुमार, सेना विमानन कोर/666 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ)
42. आईसी-38660 कर्नल गोपाल सिंह, पैराच्यूट रेजिमेंट/3 दिल्ली बालिका बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर
43. आईसी-39572 कर्नल सजीव जेटली, राजपूत रेजिमेंट
44. आईसी-40133 कर्नल संजय क्रिस्टोफर मेस्टन, महार रेजिमेंट
45. आईसी-40314 कर्नल चन्डी प्रसाद मोहान्ती, राजपूत रेजिमेंट
46. आईसी-40760 कर्नल वदलामनी शानमुखल श्रीनिवास, गढ़वाल राइफल
47. आईसी-41091 कर्नल शशांक शेखर मिश्रा, कुमाऊं रेजिमेंट
48. आईसी-41102 कर्नल जारकेन गेमलिन, सेमे, 8 गोरखा राइफल
49. आईसी-41470 कर्नल विरेन्द्र सिंह, मद्रास रेजिमेंट
50. आईसी-42004 कर्नल राणा प्रताप कलिता, कुमाऊं रेजिमेंट
51. आईसी-43394 कर्नल संदीप मिश्रा, इंजीनियर्स कोर/मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे
52. आईसी-43687 कर्नल विवेक शर्मा, जाट रेजिमेंट/5 राष्ट्रीय राइफल
53. आईसी-44506 कर्नल रणदीप सिंह डडवाल, जम्मू-कश्मीर राइफल/31 असम राइफल

54. आईसी-45200 कर्नल राजिन्द्र कुमार, जज एडवोकेट जनरल विभाग
55. आईसी-45579 कर्नल अनिल अर्नेस्ट जेम्स, महार रेजिमेंट/1 राष्ट्रीय राइफल
56. आईसी-46148 कर्नल मनोज कुमार, तोपखाना रेजिमेंट/3351 प्रक्षेपास्त्र रेजिमेंट
57. आईसी-47112 कर्नल जितेन्द्र सिंह शेखावत, शौर्य चक्र, 21 जाट रेजिमेंट
58. आईसी-47133 कर्नल अविनाश सिंह बेरार, गाड्स/मुख्यालय एमजी एंड जी एरिया
59. आईसी-47150 कर्नल पंकज सिंह, 3/11 गोरेखा राइफल
60. आईसी-47247 कर्नल पीयूष पाण्डे, 16 सिख रेजिमेंट
61. आईसी-47576 कर्नल मुकेश चढ्ढा, सेना सेवा कोर
62. आईसी-47599 कर्नल रमिन्दर सिंह गुराया, 17 मद्रास रेजिमेंट
63. आईसी-47701 कर्नल विकास सैनी, सेमे, पैराच्यूट रेजिमेंट/24 असम राइफल
64. आईसी-48045 कर्नल पवन दीप सिंह चढ्ढा, 270 इंजीनियर रेजिमेंट
65. आईसी-49025 कर्नल राजेश कुमार, सेमे, राजपूत रेजिमेंट/58 राष्ट्रीय राइफल
66. एमआर-03988 कर्नल हरजिन्द्र सिंह भट्टेई, सेना चिकित्सा कोर/ सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल)
67. एमआर-04049 कर्नल पवन कपूर, सेना चिकित्सा कोर/डीजीएफएमएस
68. एमआर-04173 कर्नल कोयम्बतूर सिवसुब्रमणियन नारायणन, सेना चिकित्सा कोर/ बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
69. एमआर-04328 कर्नल बिलिगेरी नारायणा भट्ट महावीरा प्रसाद, सेमे, सेना चिकित्सा कोर/ सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल)
70. एमआर-04893 कर्नल विनय जेटली, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल)
71. एमआर-05352 कर्नल द्रपेर रिचर्ड त्रेवोर, सेना चिकित्सा कोर/ सेना अस्पताल, वेलिंगटन
72. एमआर-05435 कर्नल राज कुमार शर्मा, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल)
73. आईसी-35942 कर्नल बलराज सिंह राठी, डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
74. आईसी-50116 लेफ्टिनेंट कर्नल नील कमल, सेमे, सेना सेवा कोर
75. आईसी-54684 लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सिंह, 63 इंजीनियर रेजिमेंट
76. 9927425 हवलदार अंगचुक दोरजी, 5 लद्दाख स्काउट्स
77. रियर एडमिरल अशोक वि. सुभेदार, (40735-बी)
78. कमोडोर अर्जुन सिंह भत्याल, नौमे (01520-बी)
79. कमोडोर रविन्दर पाल सिंह रवी, (01621-एच)
80. कमोडोर आनन्दमय घोषाल, (01691-टी)
81. कमोडोर जयवन्त कुमार कोरडे, (01912-डब्ल्यू)
82. कमोडोर राजीव गिरोत्रा, (01911-टी)
83. कमोडोर के ज्योतिश कुमार, (02548-आर)
84. कमोडोर अशोक कुमार खेतान, (40818-टी)
85. कमोडोर होमीपाल सिंह, (40998-ए)

86. कमोडोर अतुल कुमार जैन, (02459-एन)
87. कैप्टन अमूलप्रीत सिंह सेठी, (50811-बी)
88. कैप्टन उमेश कुमार थापा, (01570-टी)
89. कमांडर नुगोहल्ली राजु गिरिष, (41391-डब्ल्यू)
90. सर्जन कमांडर सुभाष रंजन, (75498-के)
91. गिरधारी लाल यादव, एमएससीपीओ I, (165347-आर)
92. गज राज सिंह, एमसीपीओ II सीडी I, (161145-आर)
93. एयर कमोडोर अरूण कुमार सिंह (14616) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
94. एयर कमोडोर नगेन्द्र मोहन वैष्णवी (14822) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
95. एयर कमोडोर पकिरीस्वामी कनकराज, (15066) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
96. एयर कमोडोर सुधीन्द्रा वेंकटराव मुतालिक (16275) शिक्षा
97. एयर कमोडोर नसीम अख्तर, शौर्य चक्र (14279) उड़ान (पायलट)
98. एयर कमोडोर राकेश मरवाहा (15865) उड़ान (पायलट)
99. एयर कमोडोर नीरज यादव, वामे (16399) उड़ान (पायलट)
100. ग्रुप कैप्टन प्रभाकर राघव, (15334) प्रशासन
101. ग्रुप कैप्टन जोसेफ पॉल, (15370) लेखा
102. ग्रुप कैप्टन प्रदीप खरबन्दा (15674) चिकित्सा
103. ग्रुप कैप्टन अविनाश नारायणराव कुलकर्णी (16155), वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
104. ग्रुप कैप्टन गणेश चन्द (16214) उड़ान (पायलट)
105. ग्रुप कैप्टन अहिन कुमार पात्र, (16263) प्रशासन/फाइटर कंट्रोलर
106. ग्रुप कैप्टन ओडुनघाट ईश्वरदास मोहन मेनन, (16422) प्रशासन
107. ग्रुप कैप्टन शशांक कुलकर्णी (16929) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
108. ग्रुप कैप्टन सुरेश सिंह (16941) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
109. ग्रुप कैप्टन के पी उन्नी कृष्णन नायर (17023) उड़ान (नेवीगेटर)
110. ग्रुप कैप्टन मन्नपल्ली बालादित्य (17230) परिभारिकी
111. ग्रुप कैप्टन मोहन राव, वामे (17343) उड़ान (पायलट)
112. ग्रुप कैप्टन विक्रम सिंह, (17699) उड़ान (पायलट)
113. ग्रुप कैप्टन सत्तारू भानोजी राव (18243) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
114. विंग कमांडर सि वि आर आर सुधीर (18531) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
115. विंग कमांडर मनोज कुमार (19063) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
116. विंग कमांडर मान सिंह अवाना (19153) उड़ान (पायलट)
117. विंग कमांडर संदीप रावत, (19490) परिभारिकी
118. विंग कमांडर जगजीत सिंह भल्ला (20186) प्रशासन/विधि
119. विंग कमांडर अजय देवीदास पुरन्दरे (21526) उड़ान (पायलट)
120. कर्नल डी एम पूर्वामठ (आईसी-48507) इंजीनियर्स

121. 671484 वारंट अफसर अरविन्द कुमार शर्मा, जनरल ड्यूटी क्लर्क
 122. जीओ-2405 राघवेन्द्र कुमार गर्ग, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) सीमा सड़क संगठन

बरूण मित्रा
 संयुक्त सचिव

संख्या 17-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति आईसी-62699 मेजर विपिन कुमार सिंह, सेना मेडल, ग्रेनेडियर्स/55 राष्ट्रीय राइफल को उनके असाधारण साहसिक कार्यों के लिए 'सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं।

बरूण मित्रा
 संयुक्त सचिव

संख्या 18-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति उनके असाधारण साहसिक कार्यों के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'सेना मेडल/आर्मी मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-49071 कर्नल सिधार्थ तिवारी, कुमाऊं रेजिमेंट/13 राष्ट्रीय राइफल
2. आईसी-50355 कर्नल शांता कुमारन पी ए, असम रेजिमेंट/42 राष्ट्रीय राइफल
3. आईसी-50386 कर्नल संजीव कुमार दत्ता, 4 कुमाऊं रेजिमेंट
4. आईसी-46819 लेफ्टिनेंट कर्नल गुरविन्दर सिंह, 2 बिहार रेजिमेंट
5. आईसी-49594 लेफ्टिनेंट कर्नल पट्टवर्धन सागर विनयकुमार, जाट रेजिमेंट/45 राष्ट्रीय राइफल
6. आई सी 52748 लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल महादेव काकड़े, कुमाऊं रेजिमेंट/26 राष्ट्रीय राइफल
7. आईसी-54483 मेजर सुधांशु दिक्षित, क्वचित्त रेजिमेंट/21 असम राइफल
8. आईसी-54494 मेजर पद्मानाभन के, सेना विमानन/666 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ) (मरणोपरांत)
9. आईसी-56676 मेजर देविन्द्र चौधरी, सेना सेवा कोर/29 राष्ट्रीय राइफल
10. आईसी-57385 मेजर हितेश कुमार धनखड़, 10 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
11. आईसी-58294 मेजर सुनील गणपथि, सेना विमानन/666 सेना विमानन स्क्वाड्रन (आर एंड ओ) (मरणोपरांत)
12. आईसी-58904 मेजर सुधीर खण्डका, 7/11 गोरखा राइफल
13. आईसी-59042 मेजर बिरांची नारायण नायक, मद्रास रेजिमेंट/32 असम राइफल
14. आईसी-59417 मेजर अमित कुमार, डोगरा रेजिमेंट/20 राष्ट्रीय राइफल
15. आईसी-59931 मेजर सुरेश नारायणन, राजपूत रेजिमेंट/4 असम राइफल
16. आईसी-61480 मेजर कार्तिकेय कुकरेती, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
17. आईसी-61800 मेजर गौरव सिंह, शौर्य चक्र, 4 कुमाऊं रेजिमेंट
18. आईसी-62268 मेजर आर सेन्थिल वेलन, जाट रेजिमेंट/45 राष्ट्रीय राइफल
19. आईसी-63047 मेजर लोकनाथम जी वी, तोपखाना रेजिमेंट/21 असम राइफल

20. आईसी-65141 मेजर जगदीप भोगल, 10 बटालियन पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
21. आईसी-65695 मेजर भानु प्रताप सिंह, राजपूताना राइफल/43 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
22. आईसी-66833 मेजर पंकज कुमार, 14 बिहार रेजिमेंट
23. एसएस-38946 मेजर अमित पाल सिंह, गाड्स/5 राष्ट्रीय राइफल
24. एसएस-40011 मेजर राम दयाल व्यास, तोपखाना रेजिमेंट/32 असम राइफल
25. एसएस-40343 मेजर बंडारू अनुप, तोपखाना रेजिमेंट/316 फील्ड रेजिमेंट
26. आईसी-55877 मेजर संजय कंडवाल, कुमाऊं रेजिमेंट/51 विशेष कार्रवाई दल
27. आईसी-60971 मेजर मनीष मेहरोत्रा, पंजाब रेजिमेंट/51 विशेष कार्रवाई दल
28. आईसी-64429 कैप्टन जयन्त पटनायक, 4 कुमाऊं रेजिमेंट
29. आईसी-67347 कैप्टन प्रभमोत एस मनिक, सिगनल कोर/26 राष्ट्रीय राइफल
30. आईसी-67778 कैप्टन मनोश सोबती, इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग/22 राजपूत रेजिमेंट
31. आईसी-67796 कैप्टन आवेग गोयल, इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग/21 जाट रेजिमेंट
32. आईसी-68364 कैप्टन अभिषेक बहल, 16 जाट रेजिमेंट
33. एसएस-40284 कैप्टन अशोक भण्डारी, 2 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
34. एसएस-40974 कैप्टन कुंवर सौरभ सिंह बिष्ट, 3 कुमाऊं रेजिमेंट
35. आईसी-68318 लेफ्टिनेंट नलाशिवम रवि कुमार, इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग/4 सिख लाइट इन्फैंट्री
36. आईसी-68558 लेफ्टिनेंट पुष्प राज पाण्डेय, सेना आयुध कोर/4 सिख लाइट इन्फैंट्री
37. आईसी-69120 लेफ्टिनेंट ईश्वर सिंह रावत, 16 जाट रेजिमेंट
38. जेसी-489783 सूबेदार रणबीर सिंह, 16 जाट रेजिमेंट (मरणोपरांत)
39. जेसी-548841 सूबेदार खोगेन्द्रा सिंघा, 1 असम रेजिमेंट
40. जेसी-412991 नायब सूबेदार सालुंखे अरुण नाण्णा, 2 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
41. जेसी-479857 नायब सूबेदार शिव चरण सिंह गुर्जर, राजपूत रेजिमेंट/58 राष्ट्रीय राइफल
42. जेसी-490078 नायब सूबेदार जयबाग सिंह, 16 जाट रेजिमेंट
43. जेसी-490212 नायब सूबेदार कृष्ण कुमार, 16 जाट रेजिमेंट (मरणोपरांत)
44. 3184629 हवलदार राम चन्द्र, जाट रेजिमेंट/34 राष्ट्रीय राइफल
45. 3991914 हवलदार पवन कुमार, डोगरा रेजिमेंट/31 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
46. 4471952 हवलदार अवतार सिंह, 4 सिख लाइट इन्फैंट्री
47. 9089333 हवलदार सुखरिब सिंह, 8 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
48. 13620696 हवलदार भंवर सिंह, 10 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल) (मरणोपरांत)
49. 15118881 हवलदार साहब सिंह, तोपखाना/65 फील्ड रेजिमेंट (मरणोपरांत)
50. जी/0110415 हवलदार दीवान सिंह, 1 असम राइफल
51. जी/2401091 हवलदार आनन्द सिंह, 24 असम राइफल
52. जी/3200470 हवलदार इल्यास अली, 32 असम राइफल
53. 2597376 हवलदार के मुरुगन, मद्रास रेजिमेंट/51 विशेष कार्रवाई दल

54. 2888341 हवलदार आजाद सिंह, राजपूताना राइफल/52 विशेष कार्रवाई दल
55. 4184494 लांस हवलदार बचे लाल यादव, 4 कुमाऊं रेजिमेंट
56. 4362770 लांस हवलदार डब्ल्यु अरुण सिंह, 1 असम रेजिमेंट
57. 13695775 लांस हवलदार राकेश कुमार, ब्रिगेड ऑफ द गाइड्स/21 राष्ट्रीय राइफल
58. 4077749 नायक लक्ष्मण सिंह नेगी, 21 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
59. 4273249 नायक लारा उरांव, 14 बिहार रेजिमेंट
60. 5753555 नायक खीम बहादुर थापा, 2/8 गोरखा राइफल/33 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
61. 13620539 नायक विनोद सिंह, 10 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
62. 13622759 नायक वेणु गोपाल एस, 4 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
63. 13756515 नायक लेख राज, 6 जम्मू-कश्मीर राइफल
64. 15318160 नायक रणधीर सिंह, 10 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
65. 4075919 नायक सते सिंह, पैराच्यूट रेजिमेंट/51 विशेष कार्रवाई दल
66. 2890344 लांस नायक शिव प्रताप सिंह शक्तावत, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
67. 4192496 लांस नायक शंकर जय किशन, 3 कुमाऊं रेजिमेंट
68. 4277858 लांस नायक कुश कुमार, 5 बिहार रेजिमेंट
69. 4568891 लांस नायक हीरा भाई साम्बाजी, महार रेजिमेंट/30 राष्ट्रीय राइफल
70. 9099028 लांस नायक जावेद अहमद वानी, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/44 राष्ट्रीय राइफल
71. 9099866 लांस नायक मोहन लाल, 10 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
72. 12944285 लांस नायक सतीश कुमार, 159 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) (एच&एच) डोंगरा
73. 2492913 सिपाही जुझार सिंह, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल
74. 3007050 सिपाही पृथ्वी सिंह राठौर, राजपूत रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल
75. 3196621 सिपाही सुल्तान सिंह, जाट रेजिमेंट/45 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
76. 4197624 सिपाही अनिल सिंह रायकुनी, कुमाऊं रेजिमेंट/13 राष्ट्रीय राइफल
77. 5350564 राइफलमैन प्रकाश थापा, 5/4 गोरखा राइफल
78. 13764855 राइफलमैन केशर सिंह, जम्मू-कश्मीर राइफल/31 राष्ट्रीय राइफल
79. 13768447 राइफलमैन विजय कुमार, जम्मू-कश्मीर राइफल/3 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
80. जी/0111172 राइफलमैन नागाराजन सम्पथ, 1 असम राइफल
81. जी/124606 राइफलमैन टी सिताचु फिथु, 43 असम राइफल
82. जी/3201174 राइफलमैन अर्जुन कुजुर, 32 असम राइफल
83. जी/3201208 राइफलमैन गगन सिंह, 32 असम राइफल
84. जी/3201233 राइफलमैन अजय कुमार, 32 असम राइफल
85. एफ/2400725 राइफलमैन मोहम्मद हदीश, 24 असम राइफल (मरणोपरांत)

86. 15166579 गनर नवीन कुमार, तोपखाना रेजिमेंट/45 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
87. 15202589 गनर छाबि राम सिंह, तोपखाना रेजिमेंट/18 राष्ट्रीय राइफल
88. 4280263 पैराट्रूपर जय करम टिग्गा, 9 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
89. 13624138 पैराट्रूपर दिपांकर सरकार, 4 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
90. 13624525 पैराट्रूपर जयवीर कुमार, 21 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 19- प्रेज/2009 - राष्ट्रपति कमांडर सत्यन्रत दाम, नौमे (03313-बी) को असाधारण साहसिक कार्यों के लिए "नौसेना मेडल/नेवी मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती है ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 20-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति उनके असाधारण साहसिक कार्यों के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को "नौसेना मेडल/नेवी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती है :-

1. कमांडर राजेश विष्णु, (03964-एच)
2. लेफ्टिनेंट कमांडर सौमित्र अनंत देवधर (05034-आर)
3. सुजीत कुमार, एलएस सीडी II, (129375-के)
4. मनजीत सिवाच, सी I, सीडी II, (139063-बी)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 21- प्रेज/2009 - राष्ट्रपति विंग कमांडर अमिताभ शर्मा, वामे (21015) उड़ान (पायलट) को असाधारण साहसिक कार्य के लिए "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती है ।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 22- प्रेज/2009 - राष्ट्रपति उनके असाधारण साहसिक कार्यों के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती है :-

1. विंग कमांडर प्रशान्त मोहन (20160) उड़ान (पायलट)
2. विंग कमांडर दीपक कुमार वत्स (22545) उड़ान (पायलट)
3. 658793 वारंट अफसर प्रेम सिंह राजपूत, फ्लाइट गनर
4. 729086 जूनियर वारंट अफसर जावेद हुसैन सिद्दीकी, फ्लाइट इंजीनियर

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 23-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए 'सेना मेडल/आर्मी मेडल-बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-48621 कर्नल संजय प्रताप सिंह विश्वासराव, सेमे, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
2. जेसी-612725 नायब सूबेदार मिंग मार गुरुंग, सेमे, 5/4 गोरखा राइफल

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 24-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए 'सेना मेडल/आर्मी मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-27004 मेजर जनरल कुलविन्द्र सिंह सेठी, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 101 एरिया
2. आईसी-30408 मेजर जनरल विजय कुमार नरूला, तोपखाना रेजिमेंट
3. आईसी-30482 मेजर जनरल विनोद भाटिया, इन्फैंट्री/मुख्यालय 25 इन्फैंट्री डिवीजन
4. आईसी-33235 मेजर जनरल दिपेन्द्र सिंह, विसेमे, क्वचित कोर/मुख्यालय 31 क्वचित डिवीजन
5. आईसी-33450 मेजर जनरल दर्शन लाल चौधरी, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 26 इन्फैंट्री डिवीजन
6. एमआर-03814 मेजर जनरल शिव कुमार शर्मा, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
7. एनआर-14840 मेजर जनरल थिकाण्डी पदमिनी, सेना नर्सिंग सर्विस
8. आईसी-25136 मेजर जनरल अभय कुमार गुप्ता, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
9. आईसी-33914 मेजर जनरल विजय कुमार पिल्लै, राजपूत रेजिमेंट
10. आईसी-27980 ब्रिगेडियर रवि पाण्डालाई, राजपूत रेजिमेंट
11. आईसी-31663 ब्रिगेडियर राकेश नन्दन, सेना वायु रक्षा
12. आईसी-34436 ब्रिगेडियर खुशीद मानेक बलसारा, नागा रेजिमेंट
13. आईसी-34758 ब्रिगेडियर अरविन्द कुमार राठी, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 68 पर्वतीय ब्रिगेड
14. आईसी-35137 ब्रिगेडियर पट्टीआरीमल मोहम्मदअली हैरीज, विसेमे, मेकेनाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय 91 इन्फैंट्री ब्रिगेड
15. आईसी-35173 ब्रिगेडियर रायमोंड जासेफ नोरोंहा, राजपूत रेजिमेंट/मुख्यालय 26 सेक्टर असम राइफल
16. आईसी-35566 ब्रिगेडियर एम जे मैथ्यू, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 2 पर्वतीय तोपखाना ब्रिगेड

17. आईसी-37369 ब्रिगेडियर अशोक कुमार गांगोली, विसेमे, जम्मू-कश्मीर राइफल/मुख्यालय 4 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
18. आईसी-38731 कर्नल सुरेन्द्र सिंह लाम्बा, सेना आयुध कोर
19. आईसी-40757 कर्नल विकल साहनी, 4 गोरखा राइफल/मुख्यालय आईडीएस
20. आईसी-41544 कर्नल दिपक तलवार, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय मध्य कमान
21. आईसी-43410 कर्नल दिपक दे, मद्रास रेजिमेंट/18 असम राइफल
22. आईसी-47031 कर्नल अरुण प्रताप सिंह राजौरा, 6 जम्मू-कश्मीर राइफल
23. आईसी-47036 कर्नल दिपक गर्ग, बिहार रेजिमेंट/4 राष्ट्रीय राइफल
24. आईसी-47354 कर्नल गुरबक्श सिंह सन्धु, सेना आयुध कोर
25. आईसी-47624 कर्नल मृगेन्द्र कुमार, राजपूत रेजिमेंट/10 राष्ट्रीय राइफल
26. आईसी-47895 कर्नल देबाशीस दास, 10 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
27. आईसी-48100 कर्नल यशवीर सिंह रांगी, 8 सिख रेजिमेंट
28. आईसी-48241 कर्नल राजेश कुमार शर्मा, शौर्य चक्र, पंजाब रेजिमेंट/22 राष्ट्रीय राइफल
29. आईसी-48532 कर्नल राजेन्द्र राय, ग्रेनेडियर्स/39 राष्ट्रीय राइफल
30. आईसी-48713 कर्नल हरपाल सिंह, राजपूत रेजिमेंट/44 राष्ट्रीय राइफल
31. आईसी-48986 कर्नल मुकेश गुरुंग, गोरखा राइफल/11 राष्ट्रीय राइफल
32. आईसी-49095 कर्नल अमर नाथ कुकरेती, ग्रेनेडियर्स/55 राष्ट्रीय राइफल
33. आईसी-49430 कर्नल दिनेश कुमार सिंह, 11 गाइड्स
34. आईसी-49991 कर्नल जितेन्द्र सिंह बांगड़, कुमाऊं रेजिमेंट/26 राष्ट्रीय राइफल
35. एमआर-03775 कर्नल यश पाण्डे, सेना चिकित्सा कोर/मुख्यालय 21 कोर
36. एमआर-04238 कर्नल अनिल खेत्रपाल, सेना चिकित्सा कोर/एएफटीसी दिल्ली छावनी
37. 3186856 हवलदार कर्मवीर, 17 जाट रेजिमेंट
38. 9425173 हवलदार पुखरामवाम नरजीत सिंह, इन्फैंट्री/सेना खेलकूद संस्थान, पुणे
39. जीओ-2903 एमओ अनिल कुमार वोहरा, ग्रेफ/मुख्यालय (पी) जरांज, अफगानिस्तान

बरूण मित्रा

संयुक्त सचिव

संख्या 25-ग्रेज/2009 - राष्ट्रपति उनके असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'नौसेना मेडल/नेवी मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. कमोडोर लिंगम वेन्कट सरत बाबु (02270-एच)
2. कमोडोर शेखर मित्तल, (50717-आर)
3. कैप्टन संजय जसजीत सिंह (03081-ए)
4. कैप्टन वेनम श्रीनीवास (03227-एच)
5. कमांडर यशोधन प्रताप मराठे (03057-वाई)
6. कमांडर जी एस सुंदरेसन (41257-आर)
7. सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर रवीश कुमार, (75689-डब्ल्यू)
8. भंवर सिंह चारण, विसेमे, एम सी पी ओ I सी डी I, (149387-टी)

बरूण मित्रा

संयुक्त सचिव

संख्या 26-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति उनके असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को "वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :-

1. ग्रुप कैप्टन शिशिर यशवंत कोशे (16400) उड़ान (पायलट)
2. ग्रुप कैप्टन संजीव कपूर (18089) उड़ान (पायलट)
3. विंग कमांडर आलोक शर्मा (18811) उड़ान (पायलट)
4. विंग कमांडर रोहित महाजन (19187) उड़ान (पायलट)
5. विंग कमांडर समीर मेहरा (19524) उड़ान (पायलट)
6. विंग कमांडर संजय धनखड़ (19865) उड़ान (पायलट)
7. विंग कमांडर वेनिगल्ला श्रीनिवास चौदरी (19869) उड़ान (पायलट)
8. विंग कमांडर पवन कुमार (20111) उड़ान (पायलट)
9. विंग कमांडर निर्मलेन्दु नाथ सिन्हा (20157) उड़ान (पायलट)
10. विंग कमांडर पुष्पेन्द्र सिंह नारा (20478) उड़ान (पायलट)
11. विंग कमांडर जसवीर सिंह मान (20491) उड़ान (पायलट)
12. विंग कमांडर विक्रम पाठक (20971) उड़ान (पायलट)
13. स्क्वाड्रन लीडर नितिन खन्ना (25617) उड़ान (पायलट)
14. स्क्वाड्रन लीडर समरथ धनखड़ (26513) उड़ान (पायलट)

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 27- प्रेज/2009 - राष्ट्रपति रक्षा मंत्री द्वारा "सेनाध्यक्ष" की ओर से प्राप्त "मैशन-इन-डिस्पोजिच" हेतु निम्नलिखित अफसरों/कार्मिकों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए सहर्ष आदेश देती है :-

ऑपरेशन रक्षक

1. आईसी-51706 लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद एस, सेमे, मराठ लाइट इन्फैंट्री, 56 राष्ट्रीय राइफल
2. आईसी-52131 लेफ्टिनेंट कर्नल हरप्रोत सिंह भिंडर, 4/9 गोरखा राइफल, 32 राष्ट्रीय राइफल
3. आईसी-56470 मेजर इमोन समन्ता, गढ़वाल राइफल, 14 राष्ट्रीय राइफल
4. आईसी-56611 मेजर दिनेश सिंह, डोगरा रेजिमेंट, 20 राष्ट्रीय राइफल
5. आईसी-63403 मेजर भीमैय्या पी एस, 10 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
6. आईसी-63472 मेजर रवी कांत, 16 बिहार रेजिमेंट
7. आईसी-63575 कैप्टन आनन्दा बोस, जाट रेजिमेंट, 45 राष्ट्रीय राइफल
8. एसएस-40548 कैप्टन विक्रान्त पराशेर, 10 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
9. जेसी-412669 सूबेदार मघा राम खिलेरी, 7 पैराच्यूट रेजिमेंट
10. जेसी-489169 सूबेदार हनुमान राम जाट, 11 जाट रेजिमेंट

11. जेसी-519972 सूबेदार शक्ति चन्द चन्देल, डोगरा रेजिमेंट, 62 राष्ट्रीय राइफल
12. जेसी-520278 सूबेदार संतोष पाल, डोगरा रेजिमेंट, 20 राष्ट्रीय राइफल
13. जेसी-559352 सूबेदार अमर सिंह, 14 बिहार रेजिमेंट
14. 1474974 हवलदार करमजीत सिंह, इंजीनियर्स कोर, 12 राष्ट्रीय राइफल
15. 4363631 हवलदार टी कमलालवेन, 9 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
16. 4363768 हवलदार हाओसिआनथान्ग जोउ, असम रेजिमेंट, 42 राष्ट्रीय राइफल
17. 5348061 लांस हवलदार साम बहादुर गुरुंग, 5/4 गोरखा राइफल
18. 2686820 नायक सुखविर सिंह, ग्रेनेडियर्स, 29 राष्ट्रीय राइफल
19. 2689648 नायक चतर सिंह, ग्रेनेडियर्स, 55 राष्ट्रीय राइफल
20. 3993898 नायक जगराज सिंह, डोगरा रेजिमेंट, 20 राष्ट्रीय राइफल
21. 14808113 नायक बलराज सिंह, 528 सेना सेवा कोर बटालियन
22. 12974132 लांस नायक अब्दुल राशिद खान, प्रादेशिक सेना, 5 राष्ट्रीय राइफल
23. 2494223 सिपाही अंग्रेज सिंह, पंजाब रेजिमेंट, 22 राष्ट्रीय राइफल
24. 4003294 सिपाही राकेश सिंह, डोगरा रेजिमेंट, 20 राष्ट्रीय राइफल
25. 4005445 सिपाही धर्म पाल, डोगरा रेजिमेंट, 20 राष्ट्रीय राइफल
26. 4369413 सिपाही पी बोस्को मारम, असम रेजिमेंट, 59 राष्ट्रीय राइफल
27. 4372077 सिपाही के लालबेक सांगा, असम रेजिमेंट, 59 राष्ट्रीय राइफल
28. 13767977 राइफलमैन हंस राज, जम्मू-कश्मीर राइफल, 28 राष्ट्रीय राइफल

ऑपरेशन मेघदूत

29. आईसी-61565 मेजर गुरबीर सिंह कौहलौ, 9 जाट रेजिमेंट

ऑपरेशन राइनो

30. आईसी-54165 मेजर नवनीत बक्शी, सेमे, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री बटालियन
31. आईसी-61617 मेजर रंजीत श्रीवास्तव, 2 बिहार रेजिमेंट
32. आईसी-63580 कैप्टन मुदस्सर इकबाल, 2 बिहार रेजिमेंट
33. आईसी-64121 कैप्टन अनिल कुमार मिश्रा, 11 गाड्स
34. एसएस-42398 कैप्टन चेतन शर्मा, ईएमई, 3 कुमाऊं रेजिमेंट
35. एसएस-42181 लेफ्टिनेंट अभिजीत यादव, सेना आयुध कोर, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री बटालियन

36. एसएस-42435 लेफ्टिनेंट अरुण सिंह चौहान, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
37. जेसी-267129 सूबेदार अम्बेश्वर ज्ञान, तोपखाना रेजिमेंट, 268 फील्ड रेजिमेंट
38. जेसी-498934 सूबेदार सुखदेव सिंह, 8 सिख रेजिमेंट
39. 3182594 हवलदार संवार मल, 21 जाट रेजिमेंट
40. जी/3900083 हवलदार राजेन्द्र सिंह, 43 असम राइफल
41. 4188659 नायक धर्म बीर सिंह, 19 कुमाऊं रेजिमेंट
42. 14428880 नायक प्रभबीर सिंह, तोपखाना रेजिमेंट, 268 फील्ड रेजिमेंट
43. 4192192 लांस नायक नवीन सिंह, 19 कुमाऊं रेजिमेंट
44. 4198485 सिपाही अमित सिंह, 19 कुमाऊं रेजिमेंट
45. जी/3101457 राइफलमैन चिरंजिवी भूजेल, 43 असम राइफल.

ऑपरेशन हिफाजत

46. एसएस-41839 लेफ्टिनेंट तेज प्रताप सिंह, 8 सिख रेजिमेंट
47. जी/2102720 हवलदार पदम सिंह रावत, 21 असम राइफल
48. जी/0111182 राइफलमैन कुमारेसन सम्पथ, 1 असम राइफल
49. जी/5001388 राइफलमैन दीवान सिंह, 32 असम राइफल

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 28-प्रेज़/2009-राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :-

1. एसएस-40547 कैप्टन पारस लिम्बू, असम रेजिमेंट/59 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 08 अप्रैल, 2008)

एक दीर्घकालिक नायाब तथा अचूक आसूचना योजना के आधार पर कैप्टन पारस लिम्बू ने 08 अप्रैल 2008 को जम्मू-कश्मीर के रेयसी जिले में दुर्दांत आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया। इस अफसर ने पीर पंजाल की पहाड़ियों के ऊपरी क्षेत्रों के प्रतिकूल एवं ऊबड़-खाबड़ भू-प्रदेश, जिसमें पहाड़ पर चढ़ने के जोखिमों के कारण जान को भारी खतरा था, में लक्षित क्षेत्र पर पहुंचने के लिए अत्यधिक कठिन चढ़ाई की। कैप्टन पारस लिम्बू अपने बहु-आयामी एवं दृढ़ नेतृत्व के साथ 50 मीटर के लक्ष्य की ओर स्वयं आगे बढ़े। पेट के बल आगे बढ़ते हुए अपनी जान की परवाह न करके आश्चर्यजनक ढंग से गोलीबारी करकर उन्होंने तुरंत दो आतंकवादियों को मार गिराया। बाकी दो आतंकवादियों ने भारी मात्रा में ए.के. और यूबीजीएल गोलीबारी से जवाबी कार्रवाई की। भारी गोलीबारी के बावजूद इस अफसर ने कारगर गोलीबारी की और अन्य दो आतंकवादियों को घायल कर दिया जो बाद में स्टॉप सैनिकों द्वारा मार दिए गए।

कैप्टन पारस लिम्बू ने आतंकवादियों के खिलाफ आपरेशन का नेतृत्व करते समय अपनी जान की परवाह न करते हुए असाधारण बहादुरी और नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

2. आईसी-63488 कैप्टन झाला अजीत कुमार अरषी भाई, दूसरी बटालियन, पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 09 अप्रैल, 2008)

आतंकवादियों के उपस्थित होने के बारे में स्वयं जुटाई गई खुफिया सूचना के आधार पर कैप्टन झाला अजीत कुमार अरषी भाई ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सामान्य क्षेत्र में घात लगाकर हमला करने के लिए एक छोटी टुकड़ी भेजी।

09 अप्रैल 2008 को 1830 बजे कैप्टन झाला को कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी और उन्होंने 75 मीटर की दूरी पर तीन आतंकवादियों का पता लगाया। मौके का तुरंत जायजा लेते हुए उन्होंने बगल से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस प्रयास में कैप्टन झाला और उनके दोस्तों को आतंकवादियों ने देख लिया और स्वचालित हथियार से भारी मात्रा में गोलीबारी करने लगे। खतरे की परवाह न करते हुए यह अधिकारी टूट पड़ा और दो अग्रणी आतंकवादियों को नजदीक से गोली मार दी। तथापि, तीसरे आतंकवादी ने आड़ लेकर हथगोले फेंके। अपने साथी के प्रति जानलेवा खतरे को भांपते हुए यह साहसी अधिकारी गोलीबारी के बीच ही पेट के बल रेंगकर आगे बढ़े और तीसरे आतंकवादी पर टूट पड़े और गुथमगुत्था की लड़ाई में उसे मार गिराया।

कैप्टन झाला अजीत कुमार अरषी भाई ने उच्च कोटि की बहादुरी एवं शौर्य के साथ सामरिक निपुणता, दृढ़ता और उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए अकेले ही तीन आतंकवादियों को मार गिराया जिसमें एक आतंकवादी एक दुर्दांत आतंकवादी संगठन के उत्तरी कश्मीर क्षेत्र का डिविजनल कमांडर था।

3. श्री नित्या नंद बोरा, लोको पायलट-इन-चार्ज ऑफ पायलट स्पेशल, रेलवे मंत्रालय (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 15 मई, 2008)

15 मई 2008 को श्री नित्या नंद बोरा, लोको पायलट इन चार्ज ऑफ पायलट स्पेशल, एक स्थानीय संगठन द्वारा आहुत बंद के कारण लम्बित रेल सेवाओं को बहाल करने की दृष्टि से रेल मार्ग पर गश्त करने के लिए तैनात 38 रेल कार्मिकों को लेकर जा रहे थे।

उस दिन की पहली गाड़ी होने के कारण, श्री बोरा की गाड़ी चलाते समय कोई असामान्य घटना न घट जाए इसके लिए गाड़ी के मार्ग पर ध्यान रखने की जिम्मेवारी थी। जब गाड़ी एक सुरंग से बाहर निकल रही थी उस समय उग्रवादियों द्वारा गाड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी गई। श्री बोरा को गोलियों के दो घाव लगे एक छाती में तथा दूसरा कंधे के पीछे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने गाड़ी को तुरंत रोकता तथा इसे वापस सुरंग में ले गए जिससे कि उग्रवादी और अधिक गोलीबारी न कर सके। रेल गाड़ी पर 140 चक्र गोलीबारी हुई। श्री बोरा बाद में घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

श्री नित्या नंद बोरा ने अनुकरणीय कर्तव्यपरायणता, उच्च कोटि के साहस का प्रदर्शन किया तथा बहुत बड़े हादसे को टाल दिया और सर्वोच्च बलिदान दिया।

4. जेसी-412922 सूबेदार इन्द्र बहादुर पुन, चौथी बटालियन, पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 19 जून, 2008)

19 जून 2008 को सूबेदार इन्द्र बहादुर पुन को अपने दस्ते के साथ नांगी टेकड़ी बटालियन क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठियों की आवाजाही को रोकने के लिए एम्बुश में तैनात किया गया था।

लगभग 1140 बजे, सूबेदार इन्द्र बहादुर ने नियंत्रण रेखा को पार करते हुए चार व्यक्तियों को देखा। ज्योंही घुसपैठिए मारक क्षेत्र में पहुंचे उन्होंने उनको ललकारा। घुसपैठियों ने तुरंत उन पर गोलीबारियों की बौछार कर दी। सूबेदार इन्द्र बहादुर अपनी जगह पर डटे रहे तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए तीन घुसपैठियों को मार गिराया। लगभग 1245 बजे पाकिस्तानी चौकी से छह से सात व्यक्ति उनकी मदद करने/घायलों को सुरक्षित बचाने के लिए दौड़ते हुए दिखाई दिए। नियंत्रण रेखा को पार न करने की चेतावनी की अनसुनी करने पर सूबेदार इन्द्र बहादुर ने नियंत्रण रेखा के पार से हो रही सघन गोलीबारी के बीच अन्य दो व्यक्तियों को मार गिराया। बाद में घुसपैठियों के शवों को बरामद करने के बार-बार के प्रयासों को सूबेदार इन्द्र बहादुर ने विफल कर दिया।

सूबेदार इन्द्र बहादुर पुन ने घुसपैठियों का सामना करते हुए कर्तव्य से बढ़कर उत्कृष्ट वीरता, दृढ़निश्चय एवं साहस का प्रदर्शन किया।

5. 2791244 हवलदार राले संतोश तानाजी, मराठ लाइट इन्फैंट्री/56 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 23 अगस्त, 2008)

हवलदार राले संतोश तानाजी जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सामान्य क्षेत्र में तैनात 56 राष्ट्रीय राइफल की घातक प्लाटून के सेक्शन कमांडर थे।

23 अगस्त 2008 को, हवलदार राले संतोश तानाजी ने कुछ भागते हुए आतंकवादियों को देखा। उन्होंने अपने सेक्शन का पुनर्गठन किया और आतंकवादियों पर कारगर गोलीबारी शुरू की। आतंकवादी जोखिमपूर्ण ऊबड़-खाबड़ पथरों के पीछे छुप गए और भारी गोलीबारी की। वे अपने सेक्शन की गोलीबारी की आड़ में एक अप्रत्याशित दिशा में छुपे हुए आतंकवादियों के निकट पहुंच गए और दो आतंकवादियों को अत्यंत निकट से गोली मार दी और एक अन्य को घायल कर दिया। अगले तीनों दिन खोज चलती रही, व्यक्तिगत सुरक्षा को अत्यंत जोखिम में डालकर वह अन्य घायल आतंकवादी के पास खतरनाक ढंग से पहुंच गए जिसने अपने आप को चोर फंदा में छिपा रखा था तथा उस आतंकवादी को गोली मार दी।

हवलदार राले संतोश तानाजी ने आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अदम्य साहस, असाधारण कोटि की कर्तव्यनिष्ठा एवं निस्वार्थता का प्रदर्शन किया।

6. आईसी-52871 लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ सिंह शेखावत, शौर्य चक्र, सेमे, विसेमे,
21 बटालियन पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 08 सितंबर, 2008)

मणिपुर में तैनाती के कुछ ही दिनों के अंदर, 21 पैरा (विशेष बल) के टीम लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ सिंह शेखावत ने मणिपुर के बिशनपुर जिले में अब तक आतंकवादियों की शरण स्थली रहे एक आतंकवादी कैम्प के बारे में पता लगाने के लिए एक नायाब आसूचना नेटवर्क की स्थापना की। 45 दिनों की सतत निगरानी, योजना एवं प्रशिक्षण के बाद, उन्होंने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक ऑपरेशन प्रारंभ किया और राष्ट्रीय समाचार की सुर्खियों में आ गए।

08/09 सितंबर 2008 की रात को, अपनी निगरानी टुकड़ी के मार्गदर्शन में टीम लीडर ने घास-फूस से ढके पानी में नावों/गोताखोरों को सफलतापूर्वक मार्गनिर्देशन दिया और खामोशी से अपने दल को लक्षित द्वीप के निकट तैनात किया। सुबह होते ही खामोशी के साथ वे सफलतापूर्वक अपने आक्रमण दल के साथ तैरकर द्वीप में पहुंच गए। तथापि, स्तब्धता टूट गई और आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। शत्रु की गोलीबारी से निडर होकर और चुस्ती-फुर्ती खोए बिना अधिकारी अपनी सेना के साथ जवाबी गोलीबारी के साथ आगे बढ़े और रणनीतिक ढंग से निकट पहुंच गए। उनकी सटीक गोलीबारी से दो आतंकवादी तुरंत मारे गए। बाकी आतंकवादियों ने, जो अभी भी अपने झोंपड़ियों में थे, आड़ के पीछे से गोलीबारी की। साथ-साथ कुछ आतंकवादियों ने बगल से भारी कैलिबर हथियारों से गोलीबारी कर दी। इससे उनके लोग खुले में घिर गए। इस खतरनाक स्थिति को देखकर अफसर अपने साथियों के साथ चलती हुई गोलियों की परवाह किए बिना और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान किए बिना दौड़कर आतंकवादियों की गोलीबारी के सामने खुले में आ गए। इस प्रक्रिया में उन्होंने एक और आतंकवादी को मार गिराया और उनके ध्यान को मोड़कर अपने कार्मिकों को हताहत होने से रोक दिया। इस कार्य ने बाकी आक्रमण दल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अन्य आतंकवादियों को भी निष्क्रिय कर दिया।

लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ सिंह शेखावत ने आतंकवादियों से लड़ते हुए निकट भिड़ंत की स्थितियों में दृढ़संकल्प नेतृत्व गुण, अनुकरणनीय मिशन समर्पण भाव, अदम्य साहस एवं सूझ-बूझ का प्रदर्शन किया।

7. 4364533 नायक तापे याजो, 1 असम रेजिमेंट (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 21 सितंबर, 2008)

नायक तापे याजो, 21 से 26 सितंबर 2008 तक संचालित ऑपरेशन कलास के दौरान कलास वन की घनी झाड़ियों से ढके अंतःप्रवेश का सफाया करने के लिए प्रारंभ किए गए तलाशी दल के अग्रणी स्काउट थे।

तलाशी के दौरान, नायक तापे ने घने झाड़-झंखाड़ में एक चट्टान के पीछे छिपे हुए एक आतंकवादी को देखा। वह रेंग करके आतंकवादी के निकट पहुंच गए और उसको रोक दिया। नायक तापे ने गोलीबारी कर रहे इस आतंकवादी को निकट से गोलीबारी करके मार डाला। इस कार्रवाई के कारण एक दूसरी चट्टान के पीछे छिपे हुए एक दूसरे आतंकवादी ने तीव्र गोलीबारी एवं हथगोलों से आक्रमण शुरू किया। तीव्र गोलीबारी एवं छरों की चोटों के बावजूद, नायक तापे घने झाड़-झंखाड़ से रेंग कर आतंकवादी के निकट पहुंच गए और एक हथगोले से उसको मार डाला। इससे वह एक तीसरे आतंकवादी की गोलीबारी के सामने आ गए। अत्यधिक रक्तस्राव एवं अपने क्षतिग्रस्त हथियार से, नायक तापे ने अपने डाह के साथ आतंकवादी पर प्रहार किया और आतंकवादी की तीव्र गोलीबारी से गिर गया।

नायक तापे ने आतंकवादियों को मार गिराने में उत्कृष्ट बहादुरी एवं अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्चतम परम्पराओं के अनुरूप अपने जीवन का बलिदान दिया।

8. आईसी-53634 लेफ्टि. कर्नल ओसिरिस दास, कुमाऊं रेजिमेंट/13 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 23 सितंबर, 2008)

22 सितंबर 2008 को लेफ्टि. कर्नल ओसिरिस दास को झेलम नदी के किनारे स्थित घात टुकड़ियों के बारे में सूचना मिली। 2300 बजे, आतंकवादियों के रास्ते के बारे में संदेह होने पर अफसर ने तुरंत नदी के पुल में अतिरिक्त घात टुकड़ियों को तैनात किया और अपने साथी के साथ प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए।

23 सितंबर 2008 को 0300 बजे अफसर ने चार संदिग्ध व्यक्तियों को पास आते हुए देखा। सिविल लोग हताहत न हो इससे बचने एवं स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अफसर ने पूरे आश्चर्य के साथ दल को पार करने दिया और पुल के दूसरी ओर स्थित दल को सचेत किया। ललकारे जाने पर स्रोत सुरक्षा के लिए आगे बढ़े, जबकि दो आतंकवादी पीछे की ओर भागे। व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, साहस एवं दृढ़ता दर्शाते हुए, कोई प्राकृतिक आड़ न मिलने पर आतंकवादियों को भाग जाने से रोकने के लिए अफसर बाहर निकलकर आए। फंसने पर आश्चर्यचकित होकर, आतंकवादियों ने निकट से गोलीबारी करके अफसर को घायल कर दिया। उनके साथी ने तुरंत आतंकवादियों को घेर लिया और अफसर को बचा लिया। असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए, घावों की परवाह किए बिना और सामरिक कौशल का परिचय देते हुए अफसर पांच मीटर और निकट आए तथा अचूक गोलीबारी करके आतंकवादियों को मार गिराया।

लेफ्टि. कर्नल ओसिरिस दास ने दो आतंकवादियों को मार गिराने में असाधारण बहादुरी, उत्कृष्ट पेशेवर कौशल एवं विश्लेषणात्मक उपागम का प्रदर्शन किया।

9. श्री शशांक चन्द्रसेन शिन्दे, पुलिस इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र पुलिस (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 26 नवंबर, 2008)

26 नवंबर 2008 को पूरी तरह से हथियारों से लेस दस आतंकवादियों ने मुम्बई के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर एक साथ आक्रमण प्रारंभ किया। श्री शशांक चन्द्रसेन शिन्दे, पुलिस इंस्पेक्टर जो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर रात्रि ड्यूटी पर तैनात थे, वहां से लगभग 20 मीटर की दूरी पर स्थित मुख्य हॉल से गोलीबारी तथा धमाकों की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत अन्य पुलिस कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

उन्होंने एटीएम केंद्र के पास मुख्य हाल में गोलीबारी कर रहे एक आतंकवादी को देखा। उन्होंने एक दीवार के पीछे आड़ ली तथा अपने 9.मि.मी. पिस्तौल की रेंज में आतंकवादी के आने की प्रतीक्षा की। बिल्कुल निकट से आक्रमण करने के उद्देश्य से वे एटीएम केंद्र की ओर आगे बढ़े। ऐसा करते समय आतंकवादियों से उनकी भिड़ंत हो गई तथा श्री शिन्दे को चार गोलियां लगीं और वे गिर गए।

श्री शशांक चन्द्रसेन शिन्दे ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अनुकरणीय साहस तथा कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया तथा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

10. श्री अरुण राघोनाथ चिट्टे, कांस्टेबल, अपराध शाखा अपकर्षण सेल, मुम्बई (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 26 नवंबर, 2008)

26 नवंबर 2008 को अपराध शाखा के अपकर्षण सेल, मुम्बई के साथ तैनात पुलिस कांस्टेबल श्री अरुण राघोनाथ चिट्टे मेट्रो जंक्शन पर थे जब उन्हें संदेश मिला कि आतंकवादी श्री करकरे, संयुक्त कमिश्नर के दल पर घात करके एक पुलिस वाहन में उनकी तरफ आ रहे थे। श्री चिट्टे ने उधर इकट्ठे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तुरंत आगाह किया। आतंकवादियों ने वहां पहुंचते ही लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। यह देखकर श्री चिट्टे ने आगे बढ़कर आतंकवादी की राइफल छीनने की कोशिश की मगर उन पर गोलीबारी कर दी गई।

श्री अरुण राघोनाथ चिट्टे ने प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य एवं अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया।

11. श्री अम्बादास रामचन्द्र पवार, कांस्टेबल, सुरक्षा शाखा, पी-1, महाराष्ट्र पुलिस (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 26 नवंबर, 2008)

26 नवंबर 2008 को श्री अम्बादास रामचन्द्र पवार, पुलिस कांस्टेबल, सुरक्षा शाखा, पी-1, मुम्बई में तैनात थे। वे अपनी रात्रि ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंचते ही इधर-उधर भागते हुए यात्रियों को देखा और गोलीबारी की आवाज सुनी। सिविल वर्दी में और बिना हथियार के होने पर भी, उन्होंने स्थिति को भांपा और अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सावधान किया। जब आतंकवादियों ने श्री पवार को यात्रियों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मार्गदर्शन करते हुए देखा तो उनमें से एक ने उन पर गोलीबारी करके घातक रूप से घायल कर दिया। अविचलित रहते हुए घावों के कारण वीरगति को प्राप्त होने तक उन्होंने अपना कार्य जारी रखा।

श्री अम्बादास रामचन्द्र पवार ने कई लोगों का जीवन बचाते समय प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस एवं कर्तव्यनिष्ठता का प्रदर्शन किया और अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

12. श्री मुकेश भीकाजी जाधव, होम गार्ड, महाराष्ट्र (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 26 नवंबर, 2008)

26 नवंबर 2008 को श्री मुकेश भीकाजी जाधव, होम गार्ड सदस्य, आतंकवादी हमले के समय छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने स्थिति को भांपा तथा जीवन के प्रति खतरे की परवाह किए बिना सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए यात्रियों को सचेत करने लगे। जब आतंकवादियों ने श्री जाधव को यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मार्गदर्शन करते देखा तो उनमें से एक ने उन पर गोली चलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपने गंभीर घावों से घबराए बिना उन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया तथा रेंगकर रेलवे पुलिस स्टेशन पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी दी।

श्री मुकेश भीकाजी जाधव ने अनुकरणीय साहस तथा कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया तथा बहुत से लोगों का जीवन बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान किया।

13. 15318999 सैपर वी सतीश, इंजीनियर्स कोर/51 विशेष कार्रवाई दल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 28 नवंबर, 2008)

28 नवंबर 2008 को सैपर वी सतीश उस दल में शामिल थे जो नरीमन हाउस, मुम्बई के बाहर अंतरारोधन ऑपरेशन कर रहा था जहां पर आतंकवादियों ने विदेशी राष्ट्रियों सहित बहुत से लोगों को मार दिया था।

जब उनकी टीम चौथी मंजिल पर आतंकवादियों की तलाश कर रही थी तब टीम पर एक कमरे में छिपे आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी हो गई। चूंकि कमरे के अंदर आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करके स्वेच्छा से सामने आकर आतंकवादियों को ललकारा तथा ऐसा करते समय उन पर आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी की गई जिससे उनकी वास्तविक स्थिति का पता लग गया।

जब उनके टीम कमांडर ने दीवार में से प्रवेश की योजना बनाई तब फिर से वे स्वेच्छा से दीवार पर इम्प्रोवाइज्ड चार्ज लगाने के लिए गोलीबारी के बीच सीढ़ियों से नीचे गए। विस्फोट के तुरंत बाद, सैपर सतीश विस्फोट से बने रास्ते से कमरे के अंदर कूद गए जिससे आतंकवादी की गोलीबारी के सामने आ गए। गोलीबारी के बीच गोलियां बरसाते हुए उन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया तथा आतंकवादी पर टूट पड़े और उसे बिल्कुल नजदीक से मार गिराया।

सैपर वी सतीश ने आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन में नेतृत्व प्रदान करते समय असाधारण वीरता, उत्कृष्ट युद्धक हुनर तथा अदम्य युद्ध भावना का प्रदर्शन किया।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 29-ग्रेज/2009- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "शौर्य चक्र-बार" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :-

1. जीएस-108767 डब्ल्यू ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी-II जालिम सिंह, शौर्य चक्र
सीमा सड़क संगठन (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 16 अप्रैल, 2008)

16 अप्रैल 2008, को उत्तरी सिक्किम के थेईंग रोड पर एक भारी भूस्खलन हुआ। उसी समय टैंकों की सैन्य टुकड़ियों की निर्बाध आवाजाही के लिए सड़क को खुला रखने के लिए सेना की सक्रियात्मक जरूरत थी। थेईंग गांव के पास सड़क क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ है जिसमें अनियमित अंतरालों सहित लुढ़कते खड़ी चट्टानें तथा पत्थर हैं जिसकी वजह से सड़क स्थल को खोलना बहुत खतरनाक हो गया।

एक परियक्व, साहसी तथा समग्र रूप से पेशेवर सैनिक, ओईएम-II जालिम सिंह रात्रि होने से पहले सेना तथा सिविल यातायात के लिए तुरंत सड़क खोलने के महत्व को समझ गया। 16 अप्रैल 08 को 1400 बजे जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लुढ़कते पत्थर गिरना बंद हो गए तो व्यक्तिगत जीवन की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उन्होंने स्वेच्छा से कर्तव्यपरायणता के आह्वान को स्वीकार किया तथा अपने डोजर से भूस्खलन को साफ करने में जुट गए। 1600 बजे वे एक गिरते पत्थर से गंभीर रूप से घायल हो गए जिसकी वजह से वे बाद में उसी दिन 1730 बजे वीरगति को प्राप्त हो गए।

ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी-II जालिम सिंह, ने बेहद प्रतिकूल परिस्थिति में साहस तथा वीरता का प्रदर्शन किया तथा ड्यूटियों का निष्पादन करते समय सर्वोच्च बलिदान दिया।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव,

संख्या 30-प्रेज/2009- राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :-

1. जी/5008845 राइफलमैन थोदम सुनिल सिंह, 32 असम राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 30 नवंबर, 2007)

30 नवंबर, 2007 को मेजर राजिन्दर कुमार शर्मा को मणिपुर के सामान्य क्षेत्र में सशस्त्र आतंकवादियों के हरकत करने की एक विशिष्ट सूचना मिली। उन्होंने सशस्त्र आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए पूर्वी इम्फाल पुलिस के कमाण्डो के साथ तुरंत संयुक्त ऑपरेशन शुरू किए। टीम सदिग्ध स्थल पर पहुंची तथा घरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। सैनिकों को अपनी तरफ आते देख छिपे आतंकवादियों ने घर के पीछे आड़ ले ली तथा यह सोच कर कि वे सुनियोजित महाजाल से बच निकलने में असमर्थ हैं, भयभीत होकर तलाशी पार्टी पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए राइफलमैन थोदम सुनिल सिंह व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादियों को प्रभावी ढंग से उलझाने के लिए गोलीबारी की स्थिति की ओर आगे बढ़े। जब आतंकवादियों ने इनके साथ उलझे रहना जारी रखा तो इस युवा सैनिक कर्तव्यपरायणता से बढ़कर पहलशक्ति तथा साहस का प्रदर्शन करते हुए डटे रहे तथा अच्छी तरह से आड़ लिए आतंकवादियों पर टूट पड़े तथा बिल्कुल नजदीक से दोनों को गोली मार दी।

राइफलमैन थोदम सुनिल सिंह ने शत्रु के साथ लड़ाई में अदम्य साहस, वीरता तथा अत्यंत कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया जिसके परिणामस्वरूप दो दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया गया।

2. श्री प्रीतम लाल, कंडक्टर, दिल्ली परिवहन निगम (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 04 फरवरी, 2008)

04 फरवरी, 2008 को दिल्ली परिवहन निगम की बस के कंडक्टर, श्री प्रीतम लाल ड्राइवर श्री सोमवीर सिंह के साथ दिल्ली-मेरठ बस में ड्यूटी पर तैनात थे। जब बस गंग-नहर, मुरादनगर के निकट से गुजर रही थी उस समय एक सशस्त्र व्यक्ति अपनी सीट से उठा और ड्राइवर के पास जाकर

बस रोकने के लिए कहने लगा। जब ड्राइवर ने विरोध किया तो उसने पिस्तौल निकालकर उनके सिर पर तान दी।

श्री प्रीतम लाल, जो कि अगली सीट पर बैठे थे, तुरंत खड़े हुए तथा बंदूक ताने हुए व्यक्ति के साथ भिड़ गए। इस हाथापाई के दौरान शरारती तत्व द्वारा चलाई गई गोली ड्राइवर को लगे बिना सामने की खिड़की की दाईं तरफ से बाहर निकल गई। तथापि, शरारती तत्व द्वारा चलाई गई दूसरी गोली श्री प्रीतम लाल के माथे में लगी तथा वह नीचे फर्श पर गिर गए। बस में यात्रा कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल ने शरारती तत्व को पकड़ने की कोशिश की परंतु उस पर भी लुटेरे के साथी ने गोली चला दी। लुटेरों ने एक यात्री का धन का थैला छीन लिया तथा बस के पीछे आ रही एक कार में भाग गए। श्री प्रीतम लाल को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

श्री प्रीतम लाल ने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना शरारतियों से टक्कर लेने में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया तथा इस कार्रवाई के दौरान अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

3. 4579259 सिपाही रविन्द्र शर्मा, 12 महार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 फरवरी, 2008)

22 फरवरी, 2008 को आसूचनाओं के आधार पर आतंकवादियों का सफाया करने के लिए अत्यधिक ठंड तथा बर्फानी तूफान में बर्फ से पटी हुई नियंत्रण रेखा बाड़ के आगे घात टुकड़ियां लगाई गई। 0305 बजे घात टुकड़ियों ने गोलीबारी शुरू की। जब सिपाही रविन्द्र शर्मा ने अपने साथी को एकदम से एक तरफ धकेल दिया तथा आतंकवादी से टक्कर लेकर उसे मार गिराया। फिर उन्होंने खड़े भूस्खलन वाले नाले की तरफ भाग रहे दूसरे आतंकवादी का पीछा किया। ऐसा करते समय उन्होंने आतंकवादी की तरफ से फेंके गए हथगोले तथा एके-47 से दागी गई गोलियों से बचने में शानदार युद्ध कला का इस्तेमाल किया। उन्होंने अत्यंत साहस तथा सूझ-बूझ का प्रदर्शन किया तथा नजदीक से दूसरे आतंकवादी को मार गिराया।

सिपाही रविन्द्र शर्मा ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अनुकरणीय साहस तथा कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया।

4. आईसी-60439 मेजर चिराग सिंह बड़क, मेकनाइज्ड इन्फैंट्री/24 असम राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 23 फरवरी, 2008)

सात माह से थोड़े से अधिक समय के छोटे से कार्यकाल में मेजर चिराग सिंह बड़क के अडिग दृढ़निश्चय, तुरंत योजना बनाने तथा संकल्पकृत कार्य निष्पादन तथा अपने व्यक्तियों का आगे रहकर नेतृत्व करने के परिणामस्वरूप नौ दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया करने, बीस आतंकवादियों

की गिरफ्तारी, चौदह हथियारों की बरामदगी तथा बड़ी मात्रा में युद्ध जैसे सामान प्राप्त करने में सहायक रहे।

मेजर बड़क को आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर घात टुकड़ी लगाने के लिए कहा गया था। लम्बे इंतजार के बाद 23 फरवरी, 2008 को 0430 बजे सामान्य क्षेत्र सीमा बुर्जी में मेजर सी एस बड़क ने हस्त धारित थर्मल इमेजिंग दृश्य यंत्र से म्यांमार से भारत में अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर रहे आतंकवादियों की गतिविधि का पता लगाया। असाधारण निर्णय तथा पहल शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वे अपने व्यक्तियों के साथ घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए शीघ्र गए। ज्योंही दस्ता आगे बढ़ रहा था आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी तथा बच निकलने की फिराक में म्यांमार की तरफ भागना शुरू कर दिया।

शत्रु की निर्बाध तथा अचूक गोलीबारी से निर्भीक रहते हुए उन्होंने निकट की लड़ाई में आतंकवादियों से टक्कर ली। अत्यधिक बहादुरी तथा अनुकरणीय साहस की कार्रवाई करते हुए उन्होंने बिल्कुल नजदीक से एक ही हाथ से तीन आतंकवादियों को मार गिराया। कुल छह आतंकवादी मारे गए तथा इस ऑपरेशन में हथियार तथा गोलाबारूद की बड़ी मात्रा बरामद की गई।

मेजर चिराग सिंह बड़क ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में अदम्य साहस तथा व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

5. आईसी-60843 मेजर श्रीनिवासन विक्रम चैरियन, गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 02 अप्रैल, 2008)

02 अप्रैल, 2008 को मेजर श्रीनिवासन विक्रम चैरियन ने बांदीपुर के एरिन बाउल में दो विदेशी आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में आसूचना प्राप्त की। उन्होंने उनकी गतिविधियों की मानीटरी करने के लिए लम्बी रेंज की टोह तथा निगरानी प्रणाली को तुरंत चालू किया तथा आतंकवादियों को फांसने के लिए विभिन्न दिशाओं से चार छोटी टीमों को भेजा। चार घंटे तक लगातार चलने तथा रणनीतिक कार्यप्रणाली अपनाने के पश्चात उन्होंने जम्मू-कश्मीर के दरदपुरा गांव के एक घर में प्रवेश करते आतंकवादियों को देखा। हैरतअंगेज इरादे के साथ खामोशी रखते हुए इस अफसर ने लक्षित घर को घेर लिया। आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलीबारी की तथा हथगोले फेंके। इस अफसर ने अपनी पार्टी को तैनात किया तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादियों के निकट गए। मेजर चैरियन ने घर से आतंकवादियों को निकालने के लिए तलाशी पार्टी के आगे रहकर नेतृत्व किया। तीव्र प्रतिकार्रवाई तथा अडिग साहस का प्रदर्शन करते हुए इस अफसर ने भारी तथा कारगर गोलीबारी करके निकट से दो आतंकवादियों को मार गिराया। इस प्रकार शुरू हुई गोलीबारी की लड़ाई में उनका साथी बुरी तरह घायल हो गया। अफसर पेट के बल रेंगकर घायल सैनिक के पास गए तथा उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर उसके जीवन को बचाया।

मेजर श्रीनिवासन विक्रम चैरियन ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में असाधारण साहस तथा वीरता, सैनिकोचित रणकौशल का प्रदर्शन किया ।

6. आईसी-55535 मेजर राजेश सिंह, सेमे, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 19 अप्रैल, 2008)

कंपनी कमांडर मेजर राजेश सिंह ने कंपनी को आतंकवादरोधी कारगर प्रशिक्षण दिया तथा आसूचना-सह-निगरानी ग्रिड की स्थापना की जिसमें 20 वर्ग कि.मी. का दायित्व क्षेत्र शामिल था । उनके मुखबिर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर मेजर राजेश ने 8000 फुट की ऊंचाई पर अमरी बहक सामान्य क्षेत्र में तलाशी तथा विनाश ऑपरेशन की योजना बनाई । उन्होंने कड़ी युद्ध कवायदों को तैनात करके लक्षित क्षेत्र में आवाजाही की सुरक्षा सुनिश्चित की ।

आतंकवादी पदचिन्हों की स्काउट द्वारा पहचान करने पर मेजर राजेश ने गुप्त रूप से प्लाटून को तैनात किया जिससे बच निकलने का रास्ता बंद हो गया । प्रथम आतंकवादी का पता लगने पर उन्होंने अपने साथी के साथ आतंकवादी का पीछा किया तथा आतंकवादी को मार गिराया । पुनः तलाशी शुरू करने पर मेजर राजेश का राइफलमैन वकील के साथ भिड़ रहे एक अन्य आतंकवादी से आमना-सामना हो गया । उन्होंने राइफलमैन वकील को जमीन की तरफ धकेल दिया तथा आतंकवादी को मार दिया । मेजर राजेश के साथी राइफलमैन रिजवान ने मेजर राजेश पर निशाना लगा रहे अन्य आतंकवादी को देखा । राइफलमैन रिजवान ने मेजर राजेश को बचाव की कार्रवाई करने की चेतावनी दी और मेजर राजेश की कवर गोलीबारी का सही इस्तेमाल करके आतंकवादी को मार गिराया । भिड़ंत में कंपनी ने हताहत होने का नुकसान उठाए बिना चार आतंकवादियों को मार गिराया ।

मेजर राजेश सिंह ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में बहादुरी, असाधारण नेतृत्व तथा संगठनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया ।

7. 13753884 लांस हवलदार अजीज मोहम्मद, 20 जम्मू-कश्मीर राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 11 मई, 2008)

11 मई, 2008 को 0700 बजे काली मंडी, साम्बा (जम्मू-कश्मीर) में आतंकवादियों द्वारा सिविलियनों के बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर 20 जम्मू-कश्मीर राइफल उनको निष्क्रिय करने के लिए तुरंत हरकत में आई। लांस हवलदार अजीज मोहम्मद तैनात टुकड़ी में शामिल थे।

बटालियन ने गहरा घेरा डाला। बंधकों को बचाने के प्रयास में लांस हवलदार अजीज मोहम्मद ने आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच अग्रणी भूमिका निभाई तथा पांच महिलाओं, तीन बच्चों तथा एक पुरुष को सुरक्षित बचाया। जब आतंकवादियों ने बच निकलने का प्रयास किया तब

एक आतंकवादी से आमना-सामना हो गया। लांस हवलदार अजिज मोहम्मद ने उसे मौके पर ही मार दिया तथा स्वयं भी बुरी तरह से घायल हो गया। इसी बीच दूसरा आतंकवादी उस पर झपटा। व्यक्तिगत सुरक्षा तथा घावों की बिल्कुल भी परवाह किए बिना उन्होंने गोली चलाई तथा दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। तथापि, वे घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए तथा बहादुरी से लड़ते हुए बलिदान दिया।

लांस हवलदार अजिज मोहम्मद ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में विकट परिस्थितियों के बावजूद अडिगता तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन किया तथा सर्वोच्च बलिदान दिया।

8. आईसी-61732 मेजर रमन यादव, मेकेनाइज्ड इन्फैंट्री/42 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 17 मई, 2008)

17 मई, 2008 को 0650 बजे उत्तरी सेक्टर में लुराओ जागीर सामान्य क्षेत्र के एक गांव में सीआरपीएफ से सम्पर्क टूट जाने के बाद छह दुर्दांत आतंकवादी बच निकले तथा अखरोट के बाग में छुप गए। 0800 बजे आतंकवादियों के साथ भयंकर भिड़ंत हो गई। मेजर रमन यादव ने जोरदार आक्रमण करते हुए उद्यान में प्रवेश किया। कुशल युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए यह अफसर पेट के बल रेंगकर पचास मीटर तक गए तथा आगे बढ़कर भारी मात्रा में हथगोलों का सामना करते हुए एक विदेशी दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया। अपनी टुकड़ी पर भीषण गोलीबारी करते अन्य आतंकवादी को देखकर यह अफसर स्वचालित हथियारों की भारी गोलीबारी का सामना करते हुए आगे बढ़े तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करके बहुत नजदीक से अन्य आतंकवादी को मार गिराया। इसके अलावा, इस अफसर ने निर्बाध क्वारिंग फायर उपलब्ध कराकर तथा आतंकवादी को बगल से घेर कर कैप्टन विनय कुमार शर्मा द्वारा एक और आतंकवादी का काम तमाम करने में सहायता की।

मेजर रमन यादव ने ऑपरेशन की सफलता हेतु अटल तथा निस्वार्थ कर्तव्यपरायणता, फौलादी आक्रमण तथा असाधारण मानसिक सचलता का प्रदर्शन किया।

9. जीएस-174436पी ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट ग्रेड-II सुरिन्द्र पाल, सीमा सड़क संगठन (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 मई, 2008)

26 मई, 2008 को ड्राइवर ट्रांसपोर्ट मेकेनिकल सुरिन्द्र पाल ने 529 स्टोर सप्लाइ तथा ट्रांसपोर्ट कंपनी से राशन एकत्रित किया तथा 64 आरसीसी के लिए रवाना हुआ। इसी वाहन में कुछ सीमा सड़क संगठन के कार्मिक भी यात्रा कर रहे थे। ये यूनिते मेघालय में अवस्थित हैं जो विभिन्न आतंकवादी तथा विद्रोही संगठनों से प्रभावित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-62 पर किलोमीटर 31.00 के निकट 1440 बजे आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही एक लाल रंग की टाटा सूमो प्रतीक्षारत थी। वे सीमा सड़क संगठन के वाहन को रोकने तथा काबू करने में सफल हो गए। काबू करने की प्रक्रिया में उग्रवादियों ने गोलीबारी कर दी तथा एक गोली ड्राइवर एमटी सुरिन्द्र पाल की छाती में लगी। इससे गंभीर घाव हो गए। घायल होने के बावजूद ड्राइवर एमटी सुरिन्द्र पाल ने सूझ-बूझ का प्रदर्शन किया तथा गेयर को न्यूट्रल में डाल दिया और ब्रेक लगाकर वाहन को रोक दिया। इसके तुरंत बाद वह वाहन के स्टीयरिंग पर गिर गए तथा घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

ड्राइवर सुरिन्द्र पाल ने असाधारण वीरता तथा सूझ-बूझ का परिचय दिया जिससे न केवल साथियों का जीवन बचा बल्कि सरकारी भण्डार तथा वाहन भी बच गए जो अन्यथा घाटी में गिर गए होते।

ड्राइवर एमटी सुरिन्द्र पाल ने अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते समय सर्वोच्च बलिदान दिया।

10. ग्रुप कैप्टन सुर्यकांत चिंतामण चाफेकर (17013), उड़ान (पायलट)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 31 मई, 2008)

31 मई, 2008 को ग्रुप कैप्टन सुर्यकांत चिंतामण चाफेकर को एएन-32 विमान को लेकर दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर प्रथम परीक्षण लैंडिंग करने हेतु तैनात किया गया था।

डीबीओ एएलजी मुख्य समुद्री तल से 16200 फुट की ऊंचाई पर हिमालय की घाटी में स्थित है तथा यह विश्व में सर्वाधिक ऊंची हवाई पट्टी है। एएल-32 विमान के शामिल होने के समय से ही भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना के विभिन्न विशेषज्ञ दल से एएन-32 विमान को डीबीओ पर उतारने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए कहा गया था। एकमत से इन सभी दलों का अभिमत था कि विभिन्न कारणों से एएन-32 विमान को डीबीओ पर उतारना व्यवहार्य नहीं है। ग्रुप कैप्टन एस सी चाफेकर, पट्टी की समूह निगरानी करने के बाद, भारतीय वायुसेना की प्रदर्शन-मंजूषा प्रस्तुत करने, विमान के चालक दल में विश्वास पैदा करने तथा सबसे अधिक अक्सार्ड चीन क्षेत्र में भू-सेनाओं में मनोबल वर्धक के रूप में एएन-32 विमान को हवाई पट्टी पर उतारने की पहल करने का प्रस्ताव किया। वे खराब मौसम, प्रतिकूल भू-प्रवेश तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा की समीपता जैसी अनेक कठिनाइयों के बावजूद विनिर्माता द्वारा परिकल्पित उड़ान मण्डल से परे विमान का संचालन करने का दुसाध्य कार्य शुरू करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गए। नगण्य त्रुटियों से युक्त मिशन को अत्यधिक व्यवसायिक तथा प्रशंसनीय ढंग से निष्पादित किया जो अटल साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उन्होंने यह असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य शुरू करने के लिए स्ववाङ्मन चालक दल को प्रेरित करने में अदम्य इरादे तथा एकल मनस्क प्रयोजन का प्रदर्शन किया।

ग्रुप कैप्टन सुर्यकांत चिंतामण चाफेकर ने एएन-32 विमान द्वारा कभी शुरू किए गए में से एक सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मिशनों में असाधारण साहस का प्रदर्शन किया जिससे आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की सक्रियतात्मक क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी।

11. आई सी-65357 मेजर विजयंत चौहान, से मे, सेना सेवा कोर/57 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 02 जून, 2008)

02 जून को जम्मू एवं कश्मीर के एक गांव में दो विदेशी दुर्दांत आतंकवादियों के होने के बारे में पुख्ता आसूचना के आधार पर मेजर विजयंत चौहान ने संदेहास्पद घर के चारों ओर तुरंत घेरा डाल दिया। घर की तलाशी के दौरान दीवार में छिपने की जगह का पता चला। जब दूसरे साथी ने छिपे होने की जगह के रास्ते से फलकों को हटाया, तो उन्होंने देखा की एक आतंकवादी खोजी पार्टी के ऊपर हथगोला फेंकने को तैयार था। आतंकवादी के हथगोला फेंकने से पहले ही अफसर ने उसे गोली मार दी और इस प्रकार अपनी टुकड़ी को हताहत होने से बचा लिया। दूसरा आतंकवादी खोजी पार्टी के ऊपर गोलीबारी करने लगा। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अफसर ने आतंकवादी को नजदीक से घेर लिया और उसे भी मार डाला।

कर्तव्यपरायणता से भी बढ़कर असाधारण साहस का परिचय देते हुए अफसर ने वीरतापूर्वक कार्य करके दो विदेशी दुर्दांत आतंकवादियों को मारकर साहसिक कार्य का व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस आपरेशन में अफसर ने ठोस खुफिया आसूचना प्राप्त करने और मिशन को पेशेवर तरीके से निष्पादित करने की युक्ति का प्रदर्शन किया।

मेजर विजयंत चौहान ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

12. देव कुमार, सिपाही, जनरल ड्यूटी, सी टी/जी डी, इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 05 जून, 2008)

5 जून, 2008 को भी देव कुमार युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में सड़क निर्माण कार्य के अंतर्गत परियोजना जारंज गुडगुडी में कार्यरत बी आर ओ के कार्मिकों के काफिले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रक्षा के रूप में तैनात थे।

जब बी आर ओ का काफिला मुख्य सड़क के पास पहुंचने वाला था ताकि काफिले के सुरक्षित ढंग से निकलने के लिए यातायात को नियंत्रित किया जा सके तब श्री देव कुमार अपने एस्कार्ट रक्षक वाहन से बाहर आए। अचानक, उन्होंने देखा कि एक कोरोला कार तेजी से काफिले की ओर आ रही है। उन्होंने गाड़ी के रुकने का इशारा किया किंतु यह नहीं रुकी। उन्होंने गाड़ी पर तीन चक्र गोली दाग

दी। गाड़ी का चालक (आत्मघाती बमबर) श्री देव कुमार की अप्रत्याशित कार्रवाई से दंग रह गया और घबराकर उसने विस्फोटक भरी गाड़ी को मुख्य काफिले के पास पहुंचने के पहले ही डिटोनेट कर दिया। इस प्रकार श्री देव कुमार 23 कार्मिकों वाले इस काफिले को बचा पाने में सफल रहे। तथापि, उन्हें विस्फोटक से गंभीर चोट लग गई और मौके पर ही अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

श्री देव कुमार ने अनेक बी आर ओ/आी टी बी पी कार्मिकों की जान बचाने में अनुकरणीय समर्पण एवं असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।

13. एस सी-00137 मेजर राजिंदर कुमार शर्मा, ग्रेनेडियर्स/32 असम राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 07 जून, 2008)

मेजर राजिंदर कुमार शर्मा अपने साहसपूर्ण कार्यों के लिए अपनी ही टुकड़ी और समूचे मणिपुर में मिसाल बन चुके हैं। वे बिना भय के अगले मोर्चे से कार्रवाई करते हैं और भारतीय सेना की उच्च परंपराओं के अनुरूप भीषण गोलीबारी में साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने व्यापक आसूचना नेटवर्क निर्मित किया है। 7 जून, 2008 के उन्हें पुख्ता खुफिया सूचना मिली की हथियारों से लैस आतंकवादी अपकर्षण के इरादे से एक गाड़ी में आ रहे हैं। अफसर अपनी टीम के साथ खाना हो गया और बड़ी बुद्धिमानी से घात लगा दिया।

7 जून, 2008 को 7 बजकर 30 मिनट पर, मेजर आर के शर्मा ने एक सिल्वर रंग की गाड़ी देखी। वे तुरंत सड़क पर आ गए और गाड़ी को रुकने का संकेत दिया। लेकिन गाड़ी में सवार आतंकवादियों ने उन्हें कुचल देने की कोशिश की। वे गाड़ी के सामने आ गए और गोलीबारी करने लगे और उन्हें भागने से रोक दिया।

आतंकवादि स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करते हुए नीचे उतरे। लेकिन इस सुनिश्चित मौत से वे बच गए। उन्होंने उन पर गोलीबारी की और एक आतंकवादी जो कार्बाइन से गोलीबारी कर रहा था, को बंदूक से मार गिराया। बाकी आतंकवादी अपने ए.के.47 और पिस्तौल से गोलीबारी करते हुए घने जंगल की ओर भाग निकले।

मेजर आर के शर्मा ने अपनी उप-टुकड़ी को तुरंत पुनः तैनात होने का आदेश दिया और उस इलाके को घेर लिया। भागने के प्रयास में आतंकवादी टुकड़ी के ऊपर पूरी ताकत के साथ गोलीबारी करने लगे और हथगोला फेंगने लगे ताकि साहसिक योद्धाओं को डिगया जा सके।

मेजर आर के शर्मा ने हवलदार विनय और सब-इंस्पेक्टर अचैबा के साथ एक उप-टुकड़ी बनाई और इलाके की छानबीन करने के लिए घने जंगल की ओर प्रवेश किया किंतु आतंकवादियों द्वारा की गई सटीक गोलीबारी में तुरंत आगे बढ़ने से रोक दिए गए।

कर्तव्यपरायणता से बढ़कर साहस का प्रदर्शन करते हुए मेजर आर के शर्मा ने अपनी उप-टुकड़ी को आड़ प्रदान करने का निर्देश दिया। वह वेहिचक उठ खड़े हुए, सामने मौत का मुकाबला करते हुए अकेले ही आतंकवादियों के ऊपर गोलीबारी करने लगे और बड़े नजदीक से दो और आतंकवादियों को गोलीबारी की बौछार से मार गिराया।

मेजर राजिंदर कुमार शर्मा ने तीन दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया करने में कारगर आसूचना नेटवर्क साधकर अदम्य साहस एवं अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

14. आई सी-59235 मेजर अमित सलाथिया, 11 बिग्रेड ऑफ दी गार्ड

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 10 जून, 2008)

मेजर अमित सलाथिया ने ऊपरी असम क्षेत्र में हिंदी भाषी लोगों तथा पुलिस कार्मिकों की बर्बर हत्या, तोड़-फोड़ तथा अपकर्षण आदि घटनाओं में लिप्त दुर्दांत आतंकवादियों के चारों ओर लगातार सुव्यवस्थित खुफिया नेटवर्क बनाए रखा।

10 जून, 2008 को भरोसेमंद सूत्रों से ज्ञात हुआ कि डिब्रूगढ़ (असम) जिले के एक गांव में 3-4 हथियारबंद साथियों के साथ एक दुर्दांत आतंकवादी मौजूद है। मुखबिर ने पहचान के डर से साथ चलने से मना कर दिया। अफसर ने इस क्षेत्र की बखूबी जानकारी के आधार पर एक कारगर आपरेशन की योजना बनाई और चाय बागान गाड़ियों में छिपे लक्ष्य क्षेत्र के पास पहुंच गया। ज्योंहि हमलावर टुकड़ी संदेहास्पद घर के पास पहुंची आतंकवादियों ने बड़े करीब से उस पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। बिना विचलित हुए, अदम्य साहस एवं हिम्मत प्रदर्शित करते हुए अफसर ने जवाबी गोलीबारी की और गोलियों की बौछार के बीच आतंकवादियों को घेर लिया और अकेले ही भयानक मुठभेड़ में दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया।

1750 बजे सूबेदार सवार की पार्टी ने उत्तर की ओर से आतंकवादियों को उलझाए रखा। घिरे होने के कारण आतंकवादियों ने संपर्क तोड़ने की कोशिश की। मेजर अमित और साथी हवलदार सुरेन्द्र नाथ पांडेय अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना गोलीबारी के बीच दूसरी पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए आगे बढ़ गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकवादी भागने लगा। अफसर ने अपने साथी के साथ निष्ठा एवं साहस का प्रदर्शन करते हुए उसका 300 मीटर तक पीछा किया। इस प्रकार वह अंधेरे में आतंकवादी की बंदूक से गोली चलने पर होने वाली चमक को निशाना बनाकर उसे उलझाए रखा। उन्होंने इस स्वयंभू कारपोरल को घेर लिया और मार गिराया। इस आपरेशन में तीन शीर्ष आतंकवादी नेतृत्वकर्त्ताओं का सफाया हो गया और तीन ए के 47/56 राइफलें और भारी मात्रा में हथियार एवं गोलीबारूद प्राप्त हुए।

मेजर अमित सलाथिया ने अदम्य साहस कर्तव्यपरायणता से भी बढ़कर निर्भीक वीरता का प्रदर्शन किया और ऊपरी असम क्षेत्र में आतंकवादी नेतृत्व का सफाया कर दिया।

15. जी ओ 3423 वाई सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल), संतोष कुमार सिंह, सीमा सड़क संगठन (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख 13 जून, 2008)

सहायक कार्यकारी इंजीनियर सिविल संतोष कुमार सिंह जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक स्नातक थे, 118 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंतर्गत 170 फार्मेशन कटिंग प्लाटून के प्रभारी अधिकारी थे। वे किस्तवार थाल दर्रे से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ए जाने वाले सड़क के निर्माण के लिए जिम्मेवार दल के सदस्य थे। यह कश्मीर घाटी को देश के बाकी भागों से जोड़ने के लिए वैकल्पिक केंद्र है क्योंकि इस समय केवल एक ही केंद्र एन एच आई ए कश्मीर घाटी को जोड़ती है। सड़क के निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण से रक्षा तैयारी तो दूरस्त होगी ही साथ ही राज्य का आर्थिक विकास भी होगा।

सीमा पार से भारी घुसपैठ के खतरों के बावजूद सीमा सड़क विकास संगठन के निर्भीक एवं साहसी कार्मिक इस दुर्गम क्षेत्र में काम करते हैं और इस समय निहत्थे ही बिना किसी सुरक्षा के सड़क के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। 13 जून, 2008 को सहायक कार्यकारी इंजीनियर सिविल संतोष कुमार सिंह लेफ्टिनेट कर्नल अजय वर्मा आफिसर कमांडिंग 118 आर सी सी से किस्तवार सिन्धाल-अनंतनाग सड़क पर सिन्धाल टाप के साथ कार्य के निरीक्षण तथा संसाधनों की तैनाती कराने के लिए साथ-साथ गए।

सड़क का निरीक्षण कार्य पूरा होने पर लौटते समय 59 किलोमीटर पर उन पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया और उग्रवादी उन पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे और उन्हें गंभीर चोट लग गई। बाद में अफसर अपने घावों के कारण से वीरगति को प्राप्त हो गए।

सहायक कार्यकारी इंजीनियर सिविल संतोष कुमार सिंह ने उच्च कोटि के साहस, कर्तव्य परायणता एवं घुसपैठ प्रभावी क्षेत्र में ड्यूटी देने में अपनी तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

16. जीएस-168545एल ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट ग्रेड-II जयकृत सिंह रावत, सीमा सड़क संगठन (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 13 जून, 2008)

ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट ग्रेड-II जयकृत सिंह रावत 118 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी सेक्टर में चालक मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट के रूप में नियुक्त थे। यह सड़क निर्माण कंपनी किस्तवाड़ सिन्धाल दर्रे से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोहरीकरण विशिष्टता वाले सड़क निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उत्तरदायी है। कश्मीर घाटी को वैकल्पिक धुरी के साथ जोड़ने के कारण इस सड़क का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस समय केवल एक ही धुरी राजमार्ग 1ए है जो कश्मीर घाटी को देश के बाकी भागों से जोड़ता है। इस सड़क के समयबद्ध निर्माण से रक्षा तैयारी और राज्य के आर्थिक विकास में सुविधा होगी।

13 जनवरी 2008 को ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट ग्रेड-II जयकृत सिंह रावत लैफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा, कर्मांडिंग अफसर, 118 आरसीसी सिन्थान टाफ से सड़क किस्तवाड़ सिंथल अनन्तनाग के साथ सड़क कार्य एवं माल मुहैया कराने संबंधी निरीक्षण कार्य पर थे। सड़क निरीक्षण कार्य पूरा होने के बाद, जब वे वापस आ रहे थे उनकी गाड़ी पर 59 कि.मी. पर उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया और अंधाधुंध गोलीबारी करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट ग्रेड-II जयकृत सिंह रावत अपनी चोट के कारण वीरगति को प्राप्त हो गए।

ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट ग्रेड-II जयकृत सिंह रावत एक कर्मठ एवं कुशल चालक थे जो बिना किसी भय के भारी घुसपैठ प्रभावी पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में कठिन समय में भी गाड़ी चलाते थे।

ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट ग्रेड-II जयकृत सिंह रावत ने अत्यधिक आतंकवादी प्रभावित दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में उल्लेखनीय कर्तव्यभाव, दृढ़ निश्चय एवं साहस का प्रदर्शन किया और सर्वोच्च बलिदान दिया।

17. आईसी-67186 कैप्टन अनिल धीमान, तोपखाना रेजिमेंट/268 फील्ड रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 15 जून, 2008)

15 जून, 2008 को कैप्टन अनिल धीमान को यह सूचना प्राप्त हुई कि असम के शिव सागर जिले के एक गांव में आतंकवादी मौजूद हैं। मोर्चा संभालते हुए वे व्यक्तिपूर्ण ऑपरेशन में निपुणता का परिचय देते हुए, नाले को एक ही बार में पार करते हुए लक्षित स्थान की ओर गए और घने जंगल क्षेत्र में पेट के बल चल कर आतंकवादियों को आश्चर्यचकित कर दिया और उनके निकलने का रास्ता रोक दिया।

बड़े नजदीक से घेरा डालते समय उनकी टुकड़ी भारी गोलीबारी की चपेट में आ गई। बिना डरे यह अफसर लक्षित घर के निकट गए और भागने के रास्तों को बंद करने के लिए स्टाप सैनिकों को पुनः तैनात किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए अफसर घर के प्रवेश तक पेट के बल रेंग कर गया हालांकि दो आतंकवादी दौड़कर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। उन्हें भागते देखकर, अफसर ने गोलीबारी की और मौके पर एक आतंकवादी को मार गिराया जबकि दूसरा आतंकवादी एके-46 राइफल से गोलीबारी करते हुए बाग की ओर भाग निकला। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अफसर ने आतंकवादी पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे मार डाला।

इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप चार दुर्दांत आतंकवादियों का सफाया हुआ और भारी मात्रा में हथियार व गोलाबारूद बरामद हुआ। कैप्टन अनिल धीमान ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए प्रेरणादायी नेतृत्व, अटूट दृढ़ निश्चय और पुख्ता आसूचना एकत्र करने के कौशल का प्रदर्शन किया।

18. जेसी-520181 सूबेदार धियान सिंह, डोगरा रेजिमेंट/20 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 29 जून, 2008)

29 जून, 2008 को 1715 बजे, एक घुसपैठी आतंकवादी दल के आने का पता चलने पर सूबेदार धियान सिंह तीन जवानों के साथ आतंकवादियों के भागने के रास्ते को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना प्राप्त करने के लिए दौड़े। 30 जून को दिन में 0100 बजे बिल्कुल प्रतिकूल मौसम होने तथा घना कोहरा होने के बावजूद भी वह भाग रहे छह आतंकवादियों के दल को चुनौती देने के लिए आगे बढ़े। आतंकवादियों ने भारी स्वचालित हथियारों से जवाबी कार्रवाई की। अपनी जान का भारी खतरा होने के बावजूद भी उन्होंने उन्हें पकड़ने के लिए घेरे को तोड़ दिया और दोनों तरफ की भारी गोलीबारी के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया। इस दौरान उन्हें गोली से गहरी चोट लग गई और एक तीखे ढाल से लुढ़क गए। भारी मात्रा में खून बहने और गंभीर चोट के बावजूद बड़े पास से उन्होंने आतंकवादियों को घने अंधेरे में एक घंटे से अधिक समय तक उलझाए रखा और पेट के बल आगे बढ़ते हुए चोट के कारण वीरगति प्राप्त होने से पहले दूसरे आतंकवादी को मार गिराया। उनके हिम्मत भरे कारनामे एवं निस्वार्थ सेवा से आतंकवादी घबरा गए और उनके भागने के रास्तों को रोका गया। इसके परिणामस्वरूप 12 आतंकवादियों के समूह वाले इस समूचे दल का सफाया हो सका।

सूबेदार धियान सिंह ने उल्लेखनीय वीरता और असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

19. जीएस-172264एम भवन एवं सड़क अधीक्षक ग्रेड-1 एम सुन्दरम, सीमा सड़क संगठन (मरणोपरांत)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 02 जुलाई, 2008)

02 जुलाई, 2008 को तवाघाट-घटियाबगड़ पर एक भारी भू-स्खलन हो गया जिसके परिणामस्वरूप 20 मीटर की ऊंची मिट्टी की एक खड़ी एवं अस्थिर दीवार एवं एक बड़ी चट्टान खिसक कर नीचे गिर गए।

अधीक्षक बीआर-1 एम सुन्दरम सड़क साफ करके खोलने के लिए तैनात थे। पर्यवेक्षक ने सड़क खोलने का ऑपरेशन प्रारंभ किया जो उनके दल एवं मशीनरी के लिए खतरनाक काम था। कुछ समय के बाद एक नया भूस्खलन शुरू हो गया और पहाड़ की तरफ ऐसे पत्थर भी गिरने शुरू हो गए। तथापि, भूस्खलन एवं बोल्टर से निडर रहकर पर्यवेक्षक एवं उनका दल सड़क सफाई ऑपरेशन करते रहे। तथापि, कुछ समय के बाद, पत्थर गिरना और भी तेज हो गया। पर्यवेक्षक एम सुन्दरम ने अपनी सूझ-बूझ के साथ और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने लोगों को चेतावनी दी और खतरनाक ज़ोन से बाहर निकाल लिया। इस प्रक्रिया में उनके अकेला रह जाने के कारण एक लुढ़कता हुआ पत्थर अधीक्षक बीआर-1 सुन्दरम के सिर पर गिर गया, जिसके कारण उनका अपना संतुलन बिगड़ गया और वे 60 मीटर गहरे नाले में गिर गए जहां तुरंत उनकी मृत्यु हो गई।

अधीक्षक बीआर-1 एम सुन्दरम ने अपने साथी कार्मिकों का जीवन बचाने की कोशिश करते समय प्रतिकूल परिस्थितियों में असामान्य साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया और सर्वोच्च बलिदान दिया ।

20. 2998941 लांस नायक बनाई सिंह गुर्जर, 22 राजपूत रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 28 जुलाई, 2008)

28 जुलाई 2008 को लांस नायक बनाई सिंह गुर्जर, 22 राजपूत रेजिमेंट के आत्मा कंपनी की प्रेक्षण चौकी में तैनात थे, तभी उन्होंने एक श्वेत ध्वज के साथ शत्रु को नियंत्रण रेखा से पैदल चलकर हमारे क्षेत्र में आते हुए देखा और बाद में छल-कपट से गोलीबारी करके नियंत्रण रेखा के निकट हमारे गश्ती दल पर हावी होने की कोशिश की । लांस नायक बनाई सिंह प्रेक्षण चौकी से गोलीबारी करने का मोर्चा लेने के लिए बढ़ गए और ज्योंही शत्रु ने हमारे गश्ती दल को निशाना बनाने के लिए तीव्र गोलीबारी की, वह भीषण गोलीबारी की चपेट में आ गए जिसमें एक जवान मारा गया । रेंगते हुए आगे बढ़कर, उन्होंने स्थान बदल लिया और अपनी हल्की मशीनगन से सही ऑटोमैटिक गोलीबारी कर दी जिससे एक अधिकारी सहित दो शत्रु सैनिकों को मार दिया गया जिसके परिणामस्वरूप शत्रु पक्ष का मनोबल टूट गया । अपनी जगह पर अटल रहकर उन्होंने छिन्न-भिन्न हो रहे शत्रुओं को और अधिक हताहत किया ।

भीषण गोलीबारी में उन्होंने मृत सहकर्मी का शव निकालने के लिए सहायता की और अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कंपनी कमांडर की मदद की ।

लांस नायक बनाई सिंह गुर्जर ने आतंकवादियों के साथ लड़ते समय असामान्य सामरिक अनुभव एवं साथियों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया ।

21. 3189649 नायक सुखवीर, जाट रेजिमेंट/45 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 अगस्त, 2008)

22 अगस्त, 2008 को 0330 बजे नायक सुखवीर जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौनार में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने पर अपने कंपनी कमांडर के साथ चल पड़े । दल एक कठिन एवं पहाड़ी क्षेत्र पर तेज चल में लक्ष्य स्थान पर पहुंच गया और भागने के रास्तों को बंद करने के लिए दो दलों में बंट गया एक दल नायक सुखवीर के अधीन था ।

नायक सुखवीर ने चार आतंकवादियों को एक गुफा के अंदर आड़ लेते हुए देखा । असाधारण सामरिक कुशाग्र बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए और मैदान का निपुणतापूर्वक उपयोग करते हुए वे छिपे हुए स्थान के निकट बढ़ गए और छिपे हुए स्थान पर गोलीबारी की बौछार करके आतंकवादियों को बचने से रोक दिया ।

अगले दिन सुबह फंस गए चार आतंकवादियों में से दो ने नायक सुखवीर के दल पर गोलीबारी करके भागने की कोशिश की। परिपक्वता, नेतृत्व एवं सामरिक कुशाग्र बुद्धि का प्रदर्शन करके नायक सुखवीर ने दोनों आतंकवादियों को अत्यंत निकट से मार डाला। अन्य दो आतंकवादियों को बाद में 56 राष्ट्रीय राइफल के सैनिकों के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया।

आतंकवादियों का मार गिराने में नायक सुखवीर ने असाधारण साहस, दृढ़ निश्चय और नेतृत्व गुण का प्रदर्शन किया।

22. 3199037 सिपाही सत्री तोमर, जाट रेजिमेंट/45 राष्ट्रीय राइफल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 22 अगस्त, 2008)

22 अगस्त, 2008 को 0330 बजे जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ के बारे में सूचना मिलने पर सिपाही सत्री तोमर द्रुत प्रतिक्रिया दल के साथ आगे बढ़े। 0630 बजे दल के साथ संपर्क करते समय सिपाही सत्री तोमर अग्रणी व्यक्ति थे। आगे नजदीकी लड़ाई में तीन आतंकवादियों को मार डालते समय कर्मांडिंग अफसर ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

दिन भर, एक गुफा में सुरक्षित आड़ लिए हुए एक आतंकवादी ने सारे प्रयासों के बावजूद, आगे किसी संचलन या हताहतों को निकालने के काम को रोक दिया। 23 अगस्त 2008 को 0500 बजे सिपाही सत्री तोमर खुरदरी चट्टानों से आगे बढ़कर छिपे हुए आतंकवादी का पता लगाया और उसका सफाया कर दिया।

सिपाही सत्री तोमर की शारीरिक हरकत के कारण उनसे 75 मीटर ऊपर की दूरी पर एक अन्य आतंकवादी ने उनको देखा। अकेले होने पर भी निर्भीक होकर वह आगे बढ़े और दूसरे आतंकवादी का अकेले निकट की लड़ाई में सफाया कर दिया।

सिपाही सत्री तोमर ने दो विदेशी आतंकवादियों का सफाया करते समय उत्कृष्ट बहादुरी, पेशेवर कौशल एवं असाधारण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

23. आईसी-67664 कैप्टन रविन्द्र सिंह, 11 जाट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 03 सितंबर, 2008)

03 सितंबर, 2008 को कैप्टन रविन्द्र सिंह टोनी हट द्वारा आतंकवादियों के साथ संपर्क के बारे में सुनने पर, एक ज्ञात सुरंग क्षेत्र से अपने दल के साथ आगे बढ़े और नियंत्रण रेखा की तरफ आतंकवादियों को बचने से रोकने के लिए गहरे नाले में एक स्टाप की स्थापना की। 04 सितंबर, 2008 को एक मोर्चाबंद एवं अनुकूल स्थान से एक आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की।

अपने व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना भीषण गोलीबारी के अंतर्गत उन्होंने पानी में जोखिम भरे नाले की बगल की तरफ रेंगकर आतंकवादी पर धावा बोल दिया। नजदीकी लड़ाई में कैप्टन रविन्द्र सिंह ने आतंकवादी को मार डाला। 05 सितंबर 2008 को उन्हें ऑपरेशन में लगे हुए 72 घंटे हो गए थे। बारिश एवं अत्यधिक कठिन ठंडे मौसम में, उन्होंने भागने के लिए कोशिश करते हुए एक और आतंकवादी को देखा। अपने दल की गोलीबारी की आड लेकर उन्होंने रेंगकर निडरता का प्रदर्शन करते हुए और अपने ही जीवन को खतरे में डालकर निकट से एक दूसरे आतंकवादी का सफाया कर दिया।

कैप्टन रविन्द्र सिंह ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते समय उत्कृष्ट बहादुरी एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में वीरता का प्रदर्शन किया।

24. आईसी-67443 कैप्टन आर बालाकार्थिक, 10 बटालियन पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 25 सितंबर, 2008)

25 सितंबर, 2008 को कैप्टन आर बालाकार्थिक को लंवाज के सामान्य क्षेत्र में ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र में 14,000 फुट की ऊंचाई पर एक आतंकवादी दल को रोकने का कार्य सौंपा गया था।

लगभग 1815 बजे, कैप्टन बालाकार्थिक ने आगे बढ़ते हुए एक आतंकवादी दल को देखा। मौके का फायदा उठाते हुए, वह सिर्फ तीन सैनिकों के साथ आतंकवादियों की तरफ तेजी से बढ़े और गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप तीन आतंकवादी मारे गए। तथापि, धुंधलके की स्थितियों का फायदा उठाकर कुछ आतंकवादी बोल्टडरों के पीछे छुप गए। शून्य के नीचे के तापमान वाले प्रतिकूल क्षेत्र में बिना चांदनी के रात में बहुत ही अधिक संख्या में होने के बावजूद भी, उन्होंने एक आतंकवादी का पता लगाया और उसको मार डाला।

26 सितंबर, 2008 को लगभग 1130 बजे एक संदिग्ध आतंकवादी स्थान की तरफ पहुंचते समय वह और उनके साथी एक चट्टान के पीछे से गोलीबारी की चपेट में आ गए। प्रतिक्रिया में, व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना निर्भीक रहकर साहसिकता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने साथियों को एक चट्टान के पीछे घुसाकर और एक आतंकवादी की तरफ तेजी से बढ़कर खतरनाक ढंग से निकट से उसको मार डाला।

कैप्टन आर बालाकार्थिक ने आतंकवादियों के साथ लड़ते समय उत्कृष्ट बहादुरी, एक कठिन ऊबड़-खाबड़ अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रेरणाबद्ध नेतृत्वगुण एवं सामरिक कुशाग्र बुद्धि का प्रदर्शन किया।

25. आईसी-65706 कैप्टन कुलदीप राज, 21 जाट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 सितंबर, 2008)

25 सितंबर 2008 को कैप्टन कुलदीप राज को बंगलादेश से आतंकवादियों के घुसपैठ, जिसकी रात के दौरान हरकत करने का संदेह था, के बारे में सूचना मिली। प्राप्त जानकारी की तुरंत समीक्षा एवं विश्लेषण के बाद उन्होंने घुसपैठ के संभावित रास्तों पर अनेक घात-टुकड़ियों की तैनाती के लिए विस्तृत एवं अति सतर्क योजना का पालन किया गया।

लगभग 0315 बजे, स्काउटों ने लोगों के एक दल की हलचल देखी तथा घात टुकड़ियों को सचेत किया। ललकारने पर, आतंकवादियों ने घात टुकड़ी दल पर हथगोला फेंक दिया और सामने के नीचे के ढलान की तरफ भागने की कोशिश में अंधाधुंध ढंग से गोलीबारी शुरू की। कैप्टन कुलदीप राज ने तुरंत ही भागने वाले आतंकवादियों को दबोचने के लिए जवाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया। आगामी गोलीबारी के दौरान कैप्टन कुलदीप राज को उनकी छाती पर गोली लग गई मगर उनके बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण वह सही सलामत बच गए। व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, वे आगे बढ़े और उन्होंने निकट की गोलीबारी में अकेले ही दो आतंकवादियों को मार डाला। उसके बाद उन्होंने धान के खेतों की तरफ भागते एक आतंकवादी को देखा। वह तुरंत ढलान से नीचे की तरफ बढ़े और पानी भरे हुए धान के खेत में भागते हुए आतंकवादी का पीछा किया, आतंकवादी ने हथगोला फेंक दिया, मगर कैप्टन कुलदीप राज ने अपने सामरिक कुशलता से गोली चलाई और भागते हुए आतंकवादी को घायल कर दिया। कैप्टन कुलदीप राज घात टुकड़ी के कमांडर के रूप में स्थिति पर नियंत्रण कर लिया और उस क्षेत्र में व्यापक तलाशी के समन्वयन के लिए शीघ्र समीक्षा की। तलाश के दौरान अधिक संख्या में हथियारों, गोला बारूदों, विस्फोटक पदार्थों, युद्ध जैसे भण्डार एवं अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ आतंकवादियों के शव भी बरामद किए गए।

कैप्टन कुलदीप राज ने आतंकवादियों का सफाया करने में उत्कृष्ट बहादुरी, अति सतर्क योजना, सुव्यवस्थित निष्पादन एवं उच्चतर कोर्टि के प्रेरणात्मक नेतृत्वगुण का प्रदर्शन किया।

26. एसएस-42418 लेफ्टिनेंट प्रशान्त सिवाच, 10 बटालियन पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 26 सितंबर, 2008)

लेफ्टिनेंट प्रशान्त सिवाच 26 सितंबर, 2008 को 14,000 फुट की ऊंचाई पर शिलाखंडों से ढकी पहाड़ी गुफा में आतंकवादियों को रोकने के लिए तैनात एक दूसरे दल को सुदृढ़ करने का कार्य सौंपे गए दल के टूप कमांडर थे।

मानसिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लेफ्टिनेंट सिवाच अपने साथियों की सहायता करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति में इस ऊंचाई पर सीधे चढ़ गए। तुरंत स्थिति को भांपकर वह अपने साथियों के

साथ आतंकवादियों के छिपे हुए स्थान पर तेजी से बढ़ गए जहां आतंकवादी रुक-रुक कर गोलीबारी कर रहे थे । अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना, उन्होंने आतंकवादी का पता लगाया और चुपचाप उसके निकट पहुंच गए और निकट रेंज से एक आतंकवादी को गोली से मार डाला । तथापि, अपने साथी पर गोली लगने की आवाज सुनकर सामने छिपे हुए दूसरे आतंकवादी ने लेफ्टिनेंट सिवाच और उनके साथियों पर हथगोला फेंक दिया और गोलीबारी शुरू की ।

अपने जीवन को खतरे की परवाह किए बिना बहादुरी एवं सक्रिय नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए वे आड़ लेने के लिए अपने साथियों से जोर से चिल्लाए साथ-साथ दूसरे आतंकवादी पर गोली चलाकर उसको मार डाला ।

लेफ्टिनेंट प्रशान्त सिवाच ने आतंकवादियों के साथ लड़ते समय उत्कृष्ट बहादुरी, सखाभाव, गोलीबारी की बौछार एवं प्रतिकूल मौसम एवं क्षेत्र स्थितियों में उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन किया ।

27. 4184821 हवलदार त्रिभवन सिंह, 10 बटालियन पैराचूट रेजिमेंट (विशेष बल)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 29 सितंबर, 2008)

हवलदार त्रिभवन सिंह ने संकेतक निशानों का पता लगाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई और कार्रवाई के दौरान स्काउट के रूप में आगे बढ़े और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंचकर एक आतंकवादी दल के साथ संपर्क स्थापित किया ।

29 सितंबर 2008 को गुफा की तरफ अपने सैनिकों की गति में बाधा डालकर एक आतंकवादी किसी शिलाखंड में छिपकर गोलीबारी कर रहा था । हवलदार त्रिभवन रास्ता साफ करने के इस खतरनाक मिशन के लिए आगे आए । उत्कृष्ट रणक्षेत्र कुशलता एवं गोलीबारी निपुणता का प्रदर्शन करते हुए वे आतंकवादी के निकट पहुंच गए । अतुल्य सखाभाव का प्रदर्शन करते हुए, उसने आतंकवादी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और उसी समय गोली से उसको मार डाला ।

तथापि, इसके बाद, हवलदार त्रिभवन गुफा क्षेत्र से तीव्र गोलीबारी की चपेट में आ गए । अविचलित, निर्भीक रहकर उन्होंने फोलादी इरादे से जवाबी गोलीबारी करके गुफा के निकट एक और आतंकवादी को मार गिराया ।

हवलदार त्रिभवन सिंह ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते समय खतरनाक संकटपूर्ण स्थितियों में व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना दृढ़ निश्चय एवं असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया ।

28. आईसी-63425 कैप्टन अमितेन्द्रा कुमार सिंह, तोपखाना रेजिमेंट/51 विशेष कार्रवाई दल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 नवंबर, 2008)

27 नवंबर 2008 को कैप्टन अमितेन्द्रा कुमार सिंह को होटल ओबरॉय, मुम्बई जहां आतंकवादियों ने पहले ही लगभग 34 नागरिकों को मार डाला था, में आतंकवादियों का पता लगाने एवं उनका सफाया करने का कार्य सौंपा गया था।

अफसर ने अपने दल का नेतृत्व किया, जिसमें घोर अंधेरे में से 39 विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को बचाया। सदिग्ध कमरों में दखल करते समय आतंकवादियों ने उनके दल पर गोलीबारी शुरू की। व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, वे लक्षित कमरे के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ते रहे।

उन्होंने तुरंत अपने दल को सभी भागने के मार्गों को बंद करने के लिए तैनात किया और आतंकवादियों के निकट बढ़ना शुरू किया। उनको अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर, आतंकवादियों ने हथगोला फेंका और उनके दल पर गोलीबारी शुरू की। निर्भीक रहकर अफसर एक हथगोले का टुकड़ा लगने से अपनी बाईं आंख को चोट लगने तक गोलीबारी एवं सामरिकी चाल के साथ रुके बिना आगे बढ़ने लगा। गहरी चोट के बावजूद, अफसर आतंकवादियों पर प्रभावी रूप से गोलीबारी करता रहा और बेहोश होने तक अपने दल को नेतृत्व दिया।

कैप्टन अमितेन्द्रा कुमार सिंह ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते समय असाधारण नेतृत्व, अदम्य भावना, उत्कृष्ट बहादुरी एवं कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया।

29. 2601184 नायक मनेश पी वी, मद्रास रेजिमेंट/51 विशेष कार्रवाई दल

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 नवंबर, 2008)

27 नवंबर, 2008 को नायक मनेश पी वी, होटल ओबरॉय, मुम्बई जहां आतंकवादियों ने पहले ही लगभग 34 नागरिकों को मार डाला था, में आतंकवादियों का पता लगाने एवं उनका सफाया करने का कार्य, सौंपे गए दल में शामिल थे।

नायक मनेश ने स्वेच्छा से अपने दल का नेतृत्व किया जिसने 39 विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को बचाया। उन्होंने सम्पूर्ण बचाव ऑपरेशन का संचालन घोर अंधेरे में किया था। सदिग्ध कमरे में दखल ऑपरेशन करते समय उनके दल पर आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी हुई, व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वह लक्षित कमरे के प्रवेश द्वार की तरफ गोलीबारी करते रहे।

तुरंत, भागने के रास्तों को बंद करने के लिए अपनी टुकड़ी को मार्गनिर्देशन और नेतृत्व दिया। आतंकवादियों ने टुकड़ी पर गोलीबारी शुरू की और हथगोला फेंक दिया जिसमें नायक मनेश को उनके

सिर में गोली के छर्रे से चोट लग गई और अत्यधिक रक्तस्राव होना शुरू हो गया। सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने से मना करके आतंकवादियों को उलझाते रहे और लक्षित कमरे के अंदर घुस गए। तीव्र गोलीबारी की लड़ाई के दौरान, रक्त बह जाने से बेहोश होने से पहले नायक मनेश ने एक आतंकवादी को निकट से मार डाला।

नायक मनेश पी वी ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते समय अनुकरणीय बहादुरी, निर्भीक वीरता, दृढ़ निश्चय एवं कर्तव्य से बढ़कर मिशन के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया।

30. प्रवीण कुमार, सी-I, सीडी-II (132949-एच)

(पुरस्कार की प्रभावी तारीख : 27 नवंबर, 2008)

प्रवीण कुमार, एक मारकोस नाविक 27 नवंबर 2008 को होटल ताज में आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन दल में शामिल थे।

27 नवंबर 2008 को लगभग 0230 बजे, मारकोस त्वरित कार्रवाई दल कोलाबा के होटल ताज में आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन में शामिल थे। दल के मुख्य व्यक्ति होने के कारण प्रवीण कुमार छिपे हुए आतंकवादियों की तरफ दल को लेकर निपुणता के साथ आगे बढ़े जो रक्तपात मचाने में व्यस्त थे।

होटल कार्मिकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मारकोस दल तुरंत चेम्बर हॉल में पहुंच गए जहां लगभग 150 व्यक्तियों को बंधक बना कर रखा गया था। प्रवीण कुमार ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया जहां आतंकवादियों को निष्प्रभावी करने में विलंब बंधक व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाल देता। प्रवीण कुमार साथ के कमरे में प्रवेश करने में सफल हो गए जिसमें रोशनी नहीं थी। कमरे के अंदर छिपे हुए आतंकवादी ने ऑटोमैटिक हथियारों से गोलीबारी का सहारा लिया। आगामी गोलीबारी में प्रवीण कुमार ने अत्यंत सजगता एवं दृढ़ता का प्रदर्शन किया और गोलीबारी से चोट लगने के बावजूद भी वे आतंकवादियों पर गोलीबारी करते रहे। प्रवीण की चतुर प्रतिक्रिया एवं प्रभावी गोलीबारी के कारण, निष्प्रभावी हो गए आतंकवादी उनके विभिन्न सामग्रियों वाला बैकसैक छोड़ कर कमरे के प्रस्थान द्वार से ऊपरी मंजिल के कमरे में भाग गए। आतंकवादियों के प्रस्थान से अनिवार्य रूप से 150 होटल अतिथियों वाले साथ के कमरे में प्रवेश रुक गया जहां से उन्हें मारकोस द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था।

प्रवीण कुमार ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ते समय असाधारण साहस एवं कठिन खतरे के समय में नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

बरूपा मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 169, दिनांक 3 मार्च 2009--राष्ट्रपति, आई. आर. ए. एस. (91) की अधिकारी श्रीमती निरुपमा कुमार का रेल मंत्रालय से स्थानान्तरण होने पर उन्हें 12.02.2009 (अप्रैल) से 12.02.2014 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों (तदर्थ) को उनका नाम चयन सूची, 2004 में शामिल किए जाने पर 12.02.2009 के पूर्वाह्न से 15,600—39,100/- रुपये + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये के संशोधित वेतन बैंड (वेतन बैंड-3) में इस मंत्रालय में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं और उनकी अनुमोदित सेवा 01.07.2004 से गिनी जाएगी:--

क्रम सं.	नाम	चयन सूची वर्ष जिसमें शामिल किया गया	अनुमोदित सेवा शुरू होने की तारीख
1.	श्री जी. वी. सिंह, प्रधान निजी सचिव, रक्षा मंत्रालय	2004	01.07.2004
2.	श्री बी. सी. मेहता, प्रधान निजी सचिव, रक्षा मंत्रालय	2004	01.07.2004

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) श्री एम. शशिधरन को उनका नाम चयन सूची, 2003 में शामिल किए जाने पर 12.02.2009 के पूर्वाह्न से 15,600—39,100/- रुपये + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये के संशोधित वेतन बैंड (वेतन बैंड-3) में इस मंत्रालय में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं और उनकी अनुमोदित सेवा 01.07.2003 से गिनी जाएगी।

के. मुरली
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं. 170, दिनांक 3 मार्च 2009--थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 10(3)(1)/05/डी (मेड) दिनांक 28 अक्टूबर 2005 और 29 अक्टूबर 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

योगेश (डी एस-12311ए), 21 जुलाई 2008

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

सेनथिल कुमार सी (डी एस-12249 वाई), 29 सितम्बर 2007--ए डी कोर, एम डी एस--कर्नाटक

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 29 मार्च 2004 से दी जाती है। इसमें एम डी एस के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता और 06 महीने अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

12 अप्रैल 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

सिरीगिरीवास आर (डी एस-12241 एम), 26 मार्च 2007--ए डी कोर, बी डी एस, एम डी एस--केरल

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 26 मार्च 2004 से दी जाती है। इसमें एम डी एस के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

05 अप्रैल 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

रंजीत पनवर (डी एस-12302वाई), 31 मार्च 2008--बी डी एस--लखनऊ

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 30 सितम्बर 2007 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

13 सितम्बर 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी. के. तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 171, दिनांक 3 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

डी आर डी एस नियम 1979 के उप नियम 8 (क) के निबन्धनों के अनुसार हुई विभागीय परीक्षा 2003 में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रक्षा अनुसंधान तथा विकास

सेवा में दो वर्ष की परखावधि पर वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के रूप में
वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- पर (पूर्व-परिशोधित)।

क्रम सं.	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
1.	सुश्री सी रुबा	ए.डी.ई., बेंगलोर	22.09.2005
2.	श्री शिकांत गुप्ता	ए.आर.डी.ई., पुणे	14.11.2007
3.	श्री वाई मनोहर	ए.एस.एल., हैदराबाद	23.05.2007
4.	सुश्री जो आशा	ए.एस.एल., हैदराबाद	23.05.2007
5.	श्री पुष्कर लाल विजयवर्गिया	सी.ए.बी.एस., बेंगलोर	23.08.2007
6.	श्री बाललाल अहमद शाह	सी.ए.आई.आर., बेंगलोर	22.09.2005
7.	श्री आकाश गुप्ता	सी.ए.आई.आर., बेंगलोर	23.05.2007
8.	श्री चंदन कुमार	डी.ए.आर.ई., बेंगलोर	23.05.2007
9.	सुश्री कल्पना कलसी	डी.ई.ए.एल., देहरादून	22.09.2005
10.	श्री सौरभ शर्मा	डी.ई.ए.एल., देहरादून	06.08.2007
11.	श्री ओम देव	डी.एल., जोधपुर	23.05.2007
12.	श्री अजिताभ बोरा	डी.आर.एल.टी., तेजपुर	13.02.2008
13.	सुश्री अनुराधा टोपो	डी.आर.डी.ई., ग्वालियर	31.03.2008
14.	श्री मुकेश कुमार मीना	एस.ए.एस.ई., चंडीगढ़	27.02.2008
15.	श्री शशांक मिश्रा	एस.ए.एस.ई., चंडीगढ़	28.02.2008
16.	श्री सैयद अल्फर दनियाल	एस.ए.एस.ई., चंडीगढ़	22.09.2005
17.	सुश्री प्रीती गर्ग	एस.एस.पी.एल., दिल्ली	23.05.2007
18.	श्री विकास कुमार सिंह	एस.एस.पी.एल., दिल्ली	23.05.2007
19.	श्री कन्नन ए	बी.आर.डी.ई., अहमदनगर	30.01.2008

टी. अब्दुर्रज्जाक
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 172, दिनांक 3 मार्च 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को
सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

ले. बनाया जाता है

जितेन्द्र कुमार (टीए-42698) (रेलवे टीए), 23 अगस्त 2007 (एफ
एन)

समंज वैरवा (टीए-42704) (रेलवे टीए), 16 जनवरी 2008 (एफ
एन)

जय राज
अवर सचिव

सं. 173, दिनांक 4 मार्च 2009--राष्ट्रपति, ए डी जी टी ए सी सेना
मुख्यालय के गाड्स, आई सी-47634 लेफ्टिनेंट कर्नल डी. पी. के. पिल्लै
की प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 01.01.2009 के बाद 3 माह की अवधि के

लिए और 31 मार्च, 2009 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें
से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में योजना अधिकारी (रक्षा) के रूप में
बढ़ाते हैं।

के. मुरली
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं. 174, दिनांक 4 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना
दन्त कोर अधिकारियों को दो वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक समाप्त
करने पर सेना अनुदेश 37/78 के अन्तर्गत स्थाई कमीशन में पक्का करते
हैं:--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

स्थाईकरण

मेजर भूपिन्द्र सिंह (डी आर-10595डब्ल्यू), 24 जनवरी 2003

मेजर परविन्द्र शर्मा (डी आर-10600डब्ल्यू), 19 फरवरी 2004

मेजर राहुल प्रताप सिंह (डी आर-10621एम)(डी एस-12146ए),
15 अप्रैल 2005

अल्पकालीन कमीशन

स्थाईकरण

कैप्टन गौरव दूआ (डी एस-12222एफ), 12 मई 2006

कैप्टन श्याम सखूजा (डी एस-12251डब्ल्यू), 16 अक्टूबर 2007

कैप्टन दुष्यन्त चौपड़ा (डी एस-12255एम), 27 दिसम्बर 2007

कैप्टन जैप्रीत सिंह जुनेजा (डी एस-12257एक्स), 28 दिसम्बर 2007

डी. के. तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

सेना सचिव शाखा

सं. 175, दिनांक 4 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां
करती हैं:--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

ले. जनरल के मूल रैंक में

क्रम सं., रैंक, नाम, आईसी, आर्म तथा ले. जनरल के मूल रैंक की
प्रभावी तिथि

मेजर जनरल विक्रम सिंह, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम (आई
सी-25816), सिख लाई--25 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व

पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी।

मेजर जनरल चेतीन्दर सिंह, एसएम, वीएसएम (आई सी-25825), 7 कैव--25 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी।

मेजर जनरल एच. पी. एस. क्लेयर, एसएम (आई सी-25836), गार्ड्स--25 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी।

मेजर जनरल जसवीर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम (आई सी-27034), डोगरा--11 दिसम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी।

मेजर जनरल बी. के. चैत्रप्पा, एवीएसएम (आई सी-32782), गढ़ रिफ--11 दिसम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी।

मेजर जनरल राम प्रताप, वीएसएम (आई सी-32844), एएडी--01 दिसम्बर 2008।

एन. के. फूकन
निदेशक/एम एस (एम्स)

सेना शाखा

सं. 176, दिनांक 4 मार्च 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

आई सी संख्या, नाम, आर्म तथा सब्सटेंटिव तिथि

33732डब्ल्यू मनजीत सिंह, ए ओ सी, 16 दिसम्बर 2004

37494एम सी एस भोगल, इंफैंट्री, 17 नवम्बर 2005

37578ए अभय मेहता, ए ओ सी, 30 अप्रैल 2006

37744एच आर एस ढिलोन, ए ओ सी, 29 अप्रैल 2007

38393एल भारत भूषण, ए ओ सी, 22 दिसम्बर 2005

38415वाई वी के शर्मा, इंफैंट्री, 22 दिसम्बर 2005

38474एल वी के महेन्दु, आर्टी, 22 दिसम्बर 2005

38565पी दीपक मलहोत्रा, ए एस सी, 22 दिसम्बर 2005

38613के योगेन्द्र सिंह, ए ई सी, 22 दिसम्बर 2005

38628एम के सी नायक, ए ई सी, 22 दिसम्बर 2005

38840के आर के कालिया, आर्टी, 07 जून 2006

38841एम ए एस पोटे, आर्टी, 07 जून 2006

38953एम ए ए हुसेन, आर्टी, 07 जून 2006

39015एफ अनिल अवस्थी, ए ओ सी, 07 जून 2006

40062एच एस वी कनूर, मैक इंफैंट्री, 19 दिसम्बर 2007

40271ए के एम महापात्र, ए ई सी, 19 दिसम्बर 2007

02933एस एल एन, ए आर पनवार, एस एल (आर ओ), 22 जुलाई 2008

37377एफ वी एस डल्य, इंफैंट्री, 01 मई 2005

31850एल ए के सोनी, इंफैंट्री, 16 दिसम्बर 2004

34644एम एन एस महारा, ए एस सी, 16 दिसम्बर 2004

35614एफ सी पी रामचन्दानी, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

37322एक्स वी के प्रसाद, ए ओ सी, 01 मई 2005

37484एच केंदी हेमन्त पी, आर्टी, 15 नवम्बर 2005

37535वाई आर के सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

37613एक्स अनिल त्यागी, इंफैंट्री, 30 अप्रैल 2006

37852एम राजेश मिश्रा, इंफैंट्री, 12 नवम्बर 2007

37918एक्स के एस ओमर, ई एम ई, 27 अप्रैल 2008

37919ए मरियो मगिमा, ए ओ सी, 27 अप्रैल 2008

38166एल रविन्द्र सिंह, ए ओ सी, 09 जून 2005

38426एल एन एस रणधवा, ए ओ सी, 22 दिसम्बर 2005

38978वाई अश्विनी शर्मा, इंफैंट्री, 07 जून 2006

39096के एम एल सावंत, ए ओ सी, 13 दिसम्बर 2006

39397एन आर वी पलेटी, ए एस सी, 13 दिसम्बर 2006

39842एफ एच के अरोड़ा, इंजीनियर्स, 13 जून 2005

39928ए वी के पिल्लै, आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

40114एन अनिल मल्होत्रा, इंफैंट्री, 19 दिसम्बर 2007

40276वाई एस पी राजेन, इंजीनियर्स, 23 दिसम्बर 2005

40537एफ राकेश पाण्डे, आर्टी, 12 जून 2008

40602डब्ल्यू आर आर वर्मा, आर्टी, 12 जून 2008

40667के वी के चौबे, इंजीनियर्स, 12 जून 2006

41047ए के के वर्धना, इंजीनियर्स, 24 दिसम्बर 2006

41062पी एम एस सुन्दरम, ई एम ई, 24 दिसम्बर 2006

37119एफ एस पी शर्मा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

37523डब्ल्यू एम पी सिंह, ए सी, 15 नवम्बर 2005

38327एच वी जी जगदले, आर्टी, 22 दिसम्बर 2005

39901एच सज्जाद अली, इंफैंट्री, 19 दिसम्बर 2007

40071के इन्द्रजीत सिंह, इंफैंट्री, 19 दिसम्बर 2007

40310एन के आर ढाका, सिगनल्स, 12 जून 2008

40502एल ए के सिंह, इन्ट, 12 जून 2008

40558एक्स एन के हरिनारायणन, इंफैंट्री, 12 जून 2008

35763पी आर के सिंहा, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

35991एक्स अक्ती सुधीर, इंफैंट्री, 09 जून 2005

37904एक्स एस प्रहराज, सिगनल्स, 27 अप्रैल 2008
 38920एफ जे पी शर्मा, इंजीनियर्स, 07 जून 2006
 40024एम जे एस धनोय, ए सी, 19 दिसम्बर 2007
 40464ए आर एस गुलाय, इंफैंट्री, 12 जून 2008
 मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में
 38894एल एम एम पी जयदेव, आर्टी, 07 जून 2000

अजय गोयल
 उप निदेशक
 एम एस-8ए

सेना शाखा

सं. 177, दिनांक 5 मार्च 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

ले. कर्नल बनाया जाता है

मेजर एस के बोस (टीए-42054), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 मेजर जगत पाल (टीए-41945), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 मेजर एस एस जोशी (टीए-41959), इंजीनियर, 14 मार्च 2005
 मेजर जसवन्त सिंह (टीए-42118), इंजीनियर, 03 जून 2006
 मेजर वी मुंडिया (टीए-42196), इंजीनियर, 15 मार्च 2007
 मेजर राम प्रकाश (टीए-42109), इंजीनियर, 28 मई 2006
 मेजर मदन सिंह (टीए-42201), इंजीनियर, 06 अक्टूबर 2008
 मेजर डी वाई नायक (टीए-42204), इंजीनियर, 28 मार्च 2008
 मेजर वी के सिंह (टीए-42047), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 मेजर शशी भूषण (टीए-42143), इंजीनियर, 23 जुलाई 2007
 मेजर अवधेश पाण्डे (टीए-41942), इंजीनियर टीए, 16 दिसम्बर 2004
 मेजर हर्ष वरमन (टीए-42089), ए. एस. सी. टीए, 20 मई 2006
 मेजर संजय कुमार (टीए-42153), ए. एस. सी. टीए, 07 दिसम्बर 2007
 मेजर जे जे जयाकुमार (टीए-42168), इंजीनियर टीए, 01 दिसम्बर 2007
 मेजर ए पी सिंह (टीए-42169), इंजीनियर टीए, 01 दिसम्बर 2007
 मेजर ए के जैन (टीए-42031), इन्फैंट्री, 16 दिसम्बर 2004
 मेजर एम एस राठौर (टीए-42081), इन्फैंट्री, 16 जून 2005
 मेजर ए एन पाण्डे (टीए-42138), इन्फैंट्री, 28 अगस्त 2008
 मेजर कृष्णा कुमार (टीए-42286), इन्फैंट्री, 07 जुलाई 2005
 मेजर कुलजीत सिंह जग्गी (टीए-42521), इन्फैंट्री, 13 जुलाई 2006

मेजर के के डोंगे (टीए-42129), इन्फैंट्री, 11 अगस्त 2006
 मेजर यू एस राठौर (टीए-42181), इन्फैंट्री, 15 जून 2008
 मेजर मनदीप संधु (टीए-42194), इन्फैंट्री, 04 अक्टूबर 2008
 मेजर अजय नेहरा (टीए-42458), इन्फैंट्री, 14 जनवरी 2008
 मेजर कपिल खन्ना (टीए-42154), इंजीनियर, 28 अक्टूबर 2007
 मेजर पी के मिश्रा (टीए-41746), इंजीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 मेजर बनाया जाता है
 कैप्टन जी श्रीनिवास राव (टीए-42218), इन्फैंट्री, 07 जुलाई 2008
 कैप्टन एस एस बरार (टीए-42386), इन्फैंट्री, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन जे आर प्रभु (टीए-42413), इन्फैंट्री, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन अमित शर्मा (टीए-42422), इन्फैंट्री, 16 जून 2007
 कैप्टन मोहित सिंह (टीए-42429), इन्फैंट्री, 15 सितम्बर 2007
 कैप्टन बी पी पाठक (टीए-42430), इन्फैंट्री, 27 सितम्बर 2007
 कैप्टन फिलिप्स एस जॉन (टीए-42446), इन्फैंट्री, 29 मार्च 2008
 कैप्टन राहुल शर्मा (टीए-42450), इन्फैंट्री, 07 अप्रैल 2008
 कैप्टन डेविड टी जमीर (टीए-42454), इन्फैंट्री, 26 अप्रैल 2008
 कैप्टन एस एस गिल (टीए-42457), इन्फैंट्री, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन गुरपालजीत सिंह (टीए-42519), इन्फैंट्री, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन टी एस बाजवा (टीए-42605), इन्फैंट्री, 20 जून 2007
 कैप्टन अमितभा शी (टीए-42432), इन्जीनियर, 01 सितम्बर 2007
 कैप्टन नरेन्द्र कुमार (टीए-42245), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन एम एफ जुबेरी (टीए-42340), इन्जीनियर, 01 अप्रैल 2005
 कैप्टन प्रदीप कुमार (टीए-42237), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन बी बी सिंह (टीए-42041), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन आर के सांगर (टीए-42071), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन एस के कश्यप (टीए-42087), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन एस के बोस (टीए-42054), इन्जीनियर, 31 मई 2001
 कैप्टन शशी भूषण (टीए-42143), इन्जीनियर, 23 जुलाई 2004
 कैप्टन राम प्रकाश (टीए-42108), इन्जीनियर, 15 जनवरी 2007
 कैप्टन वी के सिंह (टीए-42047), इन्जीनियर, 01 जुलाई 2003
 कैप्टन सी पी शर्मा (टीए-42363), इन्जीनियर, 01 दिसम्बर 2005
 कैप्टन एस के मिश्रा (टीए-42402), इन्जीनियर, 15 जनवरी 2007
 कैप्टन डी वाई नायक (टीए-42204), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन मदन सिंह (टीए-42201), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन अजय रूद्रा (टीए-42497), इन्जीनियर, 27 नवम्बर 2008
 कैप्टन नरेन्द्र सिंह नेगी (टीए-42409), इन्जीनियर, 01 मार्च 2007
 कैप्टन एन काशीनाथ (टीए-42045), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
 कैप्टन एस राम शुब्बु (टीए-42052), इन्जीनियर, 15 मार्च 2005
 कैप्टन मोहन डुडेजा (टीए-42090), इन्जीनियर, 09 मार्च 2003

कौप्टन कपील खन्ना (टीए-42154), इन्जीनियर, 28 अक्टूबर 2004
कप्तान बनाया जाता है

ले. पी मंडल (टीए-42025), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एस के झा (टीए-42250), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. लोकेश विश्णोई (टीए-42355), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. पी अनन्थ (टीए-42241), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. रविन्द्र गुप्ता (टीए-41923), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. जी एस भावरिया (टीए-42247), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. अनील यादव (टीए-42381), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एम सेल्वराज (टीए-42093), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एम एफ जुबेरी (टीए-42340), इन्जीनियर, 01 अप्रैल 2003
ले. बुटा सिंह (टीए-41973), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. इरफान बेग (टीए-42055), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एस मेहरा (टीए-42117), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. ए के गुप्ता (टीए-42063), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एम के डियोस्कर (टीए-42287), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. आर के गुप्ता (टीए-42048), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एस श्रीनिवास (टीए-42086), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. कमल नयन (टीए-42112), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. सुधीर रंजन (टीए-42120), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. आर एस सिन्हा (टीए-42130), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एस के बंसल (टीए-42137), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एस गागरीन (टीए-42145), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. सेल्वादुराई एस (टीए-42246), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. आर रघुरामन (टीए-42261), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. अरूण कुमार (टीए-42074), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. राज कुमार (टीए-42073), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. सुनील कुमार (टीए-42121), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. ए के सिन्हा (टीए-42127), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. राम प्रकाश (टीए-42108), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एस के मिश्रा (टीए-42402), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. यू के सिंह (टीए-42408), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. आलोक कटीयार (टीए-42304), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. अजय रूदरा (टीए-42487), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. आर पी वर्मा (टीए-42075), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एस एन शाह (टीए-42099), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. ज्योतिंदरा डीर्ग (टीए-42113), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. विवेक कुमार (टीए-42229), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

ले. विवेक खारे (टीए-42276), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. ए टी धार्मिक (टीए-42295), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. रविन्द्र बी भार्गव (टीए-42338), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. सी पी शर्मा (टीए-42363), इन्जीनियर, 01 दिसम्बर 2003
ले. शिवेंद्र मोहन (टीए-42251), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. एम के सिन्हा (टीए-42373), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004
ले. अमितभा शी (टीए-42432), इन्जीनियर, 16 दिसम्बर 2004

जय राज
अवर सचिव

सं. 178, दिनांक 5 मार्च 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस.सी.)

ले. से कप्तान

एस.सी. सं., नाम और आर्म
00510 राजेश चंद, ए. ए. डी.
00511 रोशन सिंह, आर्टी
00512 अरविन्द चट्टेरिया, आर्टी
00513 डी राजेन्द्र प्रसाद, आर्टी
00514 यू अजीत कुमार, आर्टी
00515 कैलाश चन्द्र आर्या, आर्टी
00516 मनिन्द्र कुमार गोस्वामी, आर्टी
00517 ओंकार सिंह, आर्टी
00518 कौशल किशोर त्रिपाठी, आर्टी
00519 रवि एस., आर्टी
00520 जी अलागुराजू, आर्टी
00521 चन्द्र शेखर आर, ए. ए. डी.

-- 09 दिसम्बर 2008--

65908 हरमिक सिंह, ए ओ सी
65909 टेकवाडे अतुल मारुति, ए ए डी
65910 पोफाले दिनेश अनंत, इंटर
65912 धर्मेन्द्र कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री
65914 आदित्य साई जी एन डी, आर्टी
65916 धर्मेन्द्र जैराम सिंह, इन्जीनियर्स
65917 आर विगिन रवि, इन्फैन्ट्री
65918 धरवानी हरेश भगवानदास, ए ए डी
65920 अमनदीप सिंह औलाख, इन्फैन्ट्री

- 65921 करन सिंह, इन्फैन्ट्री
 65922 प्रशांत कुमार देशमुख, इन्फैन्ट्री
 65923 अमित यादव, ए ओ सी
 65924 यश श्रीवास्तव, इंजीनियर्स
 65925 सिसिर चेतरी, इन्फैन्ट्री
 65926 एन मधु, इन्फैन्ट्री
 65930 विनय सहजपाल, ए एस सी
 65932 अमित इस्सर, ए सी
 65933 सुन्दर राज, ई एम ई
 65935 अमरिन्दर सिंह बैस, ए एस सी
 65937 कमलदीप सिंह, ई एम ई
 65938 ईनोस मासेय, इन्फैन्ट्री
 65939 रोमेल, ए ओ सी
 65940 सुदीप्ता पोटी, ए एस सी
 65943 टी सतीश बाबू, इन्फैन्ट्री
 65944 रवनीश भट्ट, सिग्नल्स
 65946 विपुल शर्मा, इन्फैन्ट्री
 65949 विक्रम देशपांडे, ए एस सी
 65950 जयन्त जोशी, ई एम ई
 65951 भुपेन्द्र सिंह, ए एस सी
 65952 कुमार सौरव, ए सी
 65956 विजय चंद, इन्फैन्ट्री
 65958 अमित मोहाणत्रा, आर्टी
 65959 मोहन वी, इन्फैन्ट्री
 65960 करन मेहता, ए सी
 65961 हरिश चंदर, इन्फैन्ट्री
 65963 विकास कुमार, इन्फैन्ट्री
 65964 तरनवीर सिंह मिनहास, ए सी
 65965 अनुप राणा, ए ओ सी
 65967 अथुल श्रीधरन, इन्फैन्ट्री
 65968 हरिश धारीवाल, ए एस सी
 65969 आलोक सिंह, इंजीनियर्स
 65970 अजय कुमार, इंटी
 65976 कमल भट्ट, इन्फैन्ट्री
 65978 नवीन एन, इन्फैन्ट्री
 65979 प्रशांत राय, इन्फैन्ट्री
 65980 वरुण पाठक, इंजीनियर्स
 65983 मनोज कुमार बोस, इन्फैन्ट्री
 65985 इशवंत सिंह, इन्फैन्ट्री
 65987 मयंक पुनदीर, इन्फैन्ट्री
 65988 दीपक बयाला, ए सी
 65991 चाणक्य सिंह खनगारोट, ए सी
 65992 अभिवेक दत्ता, आर्टी
 65993 सौरभ दत्त, इंजीनियर्स
 65994 लक्ष्मी नरयान दास, ए ओ सी
 65996 आशीष मल्होत्रा, ए ओ सी
 65997 दुबे शशि नरेन्द्र, सिग्नल्स
 66000 प्रवीन शर्मा, आर्टी
 66001 अरविन्द कपूर, इन्फैन्ट्री
 66003वाई सुरेश कुमार, ए सी
 66010 कुलवीर सिंह गहलावत, ई एम ई
 66011 अशोक कुमार, इन्फैन्ट्री
 66013 चक्रधर सनयाल, सिग्नल्स
 66014 तनदीप धिन्डसा, आर्टी
 66016 दिवाकर परमार, ए सी
 66018 मोहितेश्वर ठाकुर, इन्फैन्ट्री

--06 मई 2006--

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू. एस. ई. एस.)

ले. से कप्तान

डब्ल्यू. एस. सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि तथा कप्तान दिनांक से

00934 सुभरा सम्ब्याल, ए. ओ. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00941 प्रीति कनवर, ए. ओ. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00947 नेहा सिंह, ए. ए. डी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00949 नम्रता धसमाना, ए. एस. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00950 तनुश्री बनर्जी, ई. एम. ई., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00956 मेघा माथुर, ए. एस. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00958 कुलकर्णी कंचन सुभाष, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00961 सपना रानी, ए. एस. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00964 सुजाता मनदोत्रा, ए. ए. डी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00965 नेहा भाटिया, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00967 एस ईश्वरी, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00968 पुष्पिन्दर कौर, ए. ओ. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00970 रुचिका, जे. ए. जी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00971 नीता बनिक, ए. एस. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00972 अपर्णा गुलाटी, ए. एस. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00974 नवनीत कौर, ए. ओ. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00975 डोली, ए. एस. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00976 राजश्री, जे. ए. जी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00977 ज्योति, ए. ओ. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00980 ईमान, ए. ए. डी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00983 काजल किरण सिंह, ए. एस. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00984 श्वेता प्रभाती, ए. ए. डी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00985 लता शर्मा, ए. ओ. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00986 पूजा धिलदियाल, ए. ओ. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00987 संगीता कुमारी, ए. एस. सी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00989 पारूल चौधरी, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00990 अमनदीप कौर सेम्बी, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00992 अनु डोगरा, जे. ए. जी., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00994 शमभवी सिंह, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

00995 मनोशा जखमोला, ई. एम. ई., 17 सितम्बर 04, डब्ल्यू. एस. ई. एस. ओ.-24 (एन. टी.), 17 सितम्बर 05, 17 सितम्बर 07

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एम. एस.-8सी

सं. 179, दिनांक 5 मार्च 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना कोर आफ इंजीनियर्स

एम. ई. एस. मिलिट्री कोडर (नायब सूबेदार के रैंक में)

रैंक, नाम, रैंक एवं जे. सी. नं. तथा प्रमोशन तारीख

हवलदार ढोरमाले पन्दारीनाथ रंगनाथ (सं. 1574669ए अब जेसी-330927पी), 09 जून 2006*

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 1579612पी अब जेसी-330928एक्स), 28 अप्रैल 2006*

हवलदार गुरुप्रितम सिंह (सं. 1576393एन अब जेसी-330929एक्स), 30 जून 2006*

हवलदार कमल टिकादर (सं. 15308394के अब जेसी-330930पी), 03 मार्च 2006@

हवलदार चन्द्रम टी. के. (सं. 15308603डब्ल्यू अब जेसी-330931एक्स), 13 जुलाई 2006%

हवलदार अरविन्द प्रसाद मन्दई (सं. 1475283एक्स अब जेसी-330932ए), 26 अगस्त 2006%

हवलदार अन्थनी सुसई (सं. 15309923एक्स अब जेसी-330933एच), 08 सितम्बर 2006#

हवलदार हरजिन्दर सिंह (सं. 6932813एल अब जेसी-330934एल), 07 सितम्बर 2006#

हवलदार सत्यपाल सिंह (सं. 6933270डब्ल्यू अब जेसी-330935एन), 05 सितम्बर 2006#

हवलदार खेदकर सुरेश अमरूत (सं. 1555812एम अब जेसी-330936डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2006#

हवलदार मृत्युञ्जय गुच्छेत्त (सं. 1475637पी अब जेसी-330937एक्स), 05 सितम्बर 2006#

हवलदार ताम्डे भगवान दयनोबा (सं. 1576709पी अब जेसी-330938एफ), 05 सितम्बर 2006#

हवलदार करन सिंह (सं. 15304555के अब जेसी-330939के), 06 सितम्बर 2006#

हवलदार हीरालाल पाण्डेय (सं. 1579249के अब जेसी-330940वाई), 05 सितम्बर 2006#

हवलदार दिलवाग सिंह (सं. 1579533ए अब जेसी-330941एफ), 05 सितम्बर 2006#

हवलदार तुलसीदास के. एन. (सं. 1379053एम अब जेसी-330942के),
06 सितम्बर 2006#

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 1479656एक्स अब जेसी-330943एम),
07 सितम्बर 2006#

हवलदार सुरेश कुमार बी. के. (सं. 15307381ए अब
जेसी-330944पी), 06 सितम्बर 2006#

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 4270556के अब जेसी-330945एक्स),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार ठोरा बैकटेश्वरराज (सं. 15303950एल अब जेसी-330946ए),
02 सितम्बर 2006#

हवलदार वर्गिस के. वी. (सं. 15308209एल अब जेसी-330947एच),
06 सितम्बर 2006#

हवलदार रविन्द्रन ए. के. (सं. 1378875एक्स अब जेसी-330948एल),
02 सितम्बर 2006#

हवलदार टी. श्रीनाथ रेड्डी (सं. 1383802पी अब जेसी-330949एन),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार अरविन्द सिंह परिहार (सं. 1480035एन अब
जेसी-330950एच), 22 अगस्त 2006*

हवलदार बजीर सिंह (सं. 1575510एफ अब जेसी-330951एल),
09 सितम्बर 2006#

हवलदार ए. अन्बूराजन (सं. 15303229पी अब जेसी-330952एन),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार महमूद खान (सं. 1579689एक्स अब जेसी-330953डब्ल्यू),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार हिमेश कुमार शर्मा (सं. 1581942वाई अब
जेसी-330954वाई), 04 सितम्बर 2006#

हवलदार सलाउद्दीन एम (सं. 1384190पी अब जेसी-330955एफ),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार जाहिद अली (सं. 1578349एच अब जेसी-330956के),
01 सितम्बर 2006#

हवलदार ए. अन्नामाला रेड्डी (सं. 1378990एक्स अब
जेसी-330957एम), 06 सितम्बर 2006#

हवलदार असलूप (सं. 1572611के अब जेसी-330958पी), 01 सितम्बर
2006#

हवलदार उदयकुमार टी (सं. 1384221के अब जेसी-330959एक्स),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार टपकिर नितिन लक्ष्मण (सं. 1577033के अब
जेसी-330960एम), 02 सितम्बर 2006#

हवलदार अब्दुल सलाम (सं. 15302503पी अब जेसी-330961पी),
02 सितम्बर 2006#

हवलदार ललित कुमार नायक (सं. 1482211डब्ल्यू अब
जेसी-330962एक्स), 05 सितम्बर 2006#

हवलदार अक्षय कुमार पाण्डा (सं. 1482694वाई अब जेसी-330963ए),
31 अगस्त 2006#

हवलदार बलजिन्दर सिंह (सं. 1482865ए अब जेसी-330964एच),
02 सितम्बर 2006#

हवलदार राम मोहन त्रिपाठी (सं. 1483170के अब जेसी-330965एल),
06 सितम्बर 2006#

हवलदार अरूण कुमार अवस्थी (सं. 1483173एक्स अब
जेसी-330966एन), 11 सितम्बर 2006#

हवलदार अच्युत राय (सं. 1483593वाई अब जेसी-330967डब्ल्यू),
06 सितम्बर 2006#

हवलदार निकम दत्ताराय तुकाराम (सं. 1575626एक्स अब
जेसी-330968वाई), 02 सितम्बर 2006#

हवलदार खराडे शंकर आनंद राय (सं. 1578248पी अब
जेसी-330969एफ), 04 सितम्बर 2006#

हवलदार जगत सिंह (सं. 1481512एन अब जेसी-330970डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2006#

हवलदार बलवान सिंह (सं. 1573767एन अब जेसी-330971वाई),
01 सितम्बर 2006#

हवलदार मंजीत सिंह (सं. 1579573एफ अब जेसी-330972एफ),
14 सितम्बर 2006#

हवलदार रमेश बहादुर सिंह (सं. 1482198एक्स अब जेसी-330973के),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार प्रेम बल्लभ (सं. 1482486के अब जेसी-330974एम),
02 सितम्बर 2006#

हवलदार जी श्रीनिवास्तु (सं. 15301367एक्स अब जेसी-330975पी),
01 सितम्बर 2006#

हवलदार प्रकाशन पी. (सं. 15300178एफ अब जेसी-330976एक्स),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार गोपा कुमार पी. (सं. 15308303पी अब जेसी-330977ए),
17 जुलाई 2006*

हवलदार राय निराला प्रसाद गुप्ता (सं. 1570625एल अब
जेसी-330978एल), 17 जुलाई 2006*

हवलदार मोहित दीपक बाबू राव (सं. 1484260वाई अब
जेसी-330979एल), 11 जुलाई 2006*

हवलदार चन्द्र भूषण उपाध्याय (सं. 1581365एल अब
जेसी-330980ए), 30 अगस्त 2006*

हवलदार अजय कुमार पाती (सं. 1484365एफ अब
जेसी-330981एल), 14 सितम्बर 2006#

हवलदार राम निवास (सं. 1489209एफ अब जेसी-330982एल),
23 सितम्बर 2006#

हवलदार तुलसीदास नायक (सं. 1575228डब्ल्यू अब
जेसी-330983एन), 28 सितम्बर 2006#

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 1578715एफ अब जेसी-330984डब्ल्यू),
17 अक्टूबर 2006#

हवलदार रमेशन टी. के. (सं. 1578726एन अब जेसी-330985वाई),
18 सितम्बर 2006#

हवलदार प्रभात कुमार पी. टी. (सं. 15307380एक्स अब
जेसी-330986एफ), 05 सितम्बर 2006#

हवलदार जयकुट सत्तू रमय्या (सं. 1479902एक्स अब
जेसी-330987के), 04 सितम्बर 2006#

हवलदार प्रभात कुमार पी. टी. (सं. 15308170के अब
जेसी-330988एम), 27 सितम्बर 2006#

हवलदार कुत्रे हरिथावु रामू (सं. 1581363ए अब जेसी-330989पी),
16 अक्टूबर 2006#

हवलदार आर. वालासुब्रमण्यम् (सं. 15304024एम अब
जेसी-330990के), 18 जुलाई 2006*

हवलदार कालू राय (सं. 1478538एक्स अब जेसी-330991एम),
21 जुलाई 2006*

हवलदार गोबिन्द सिंह (सं. 1476906एन अब जेसी-330992पी),
06 सितम्बर 2006#

हवलदार पन्ना लाल अरूण (सं. 15110592के अब
जेसी-330993एक्स), 04 सितम्बर 2006#

हवलदार भूपेन्द्र सिंह विष्ट (सं. 1480256एक्स अब जेसी-330994ए),
06 सितम्बर 2006#

हवलदार रमेश कुमार (सं. 1577526एल अब जेसी-330995एच),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार फाल्के अजीत तुकाराम (सं. 1479998एल अब
जेसी-330996एल), 10 सितम्बर 2006#

हवलदार पी. रवि (सं. 1379781एम अब जेसी-330997एन), 10 अक्टूबर
2006#

हवलदार नारायण सिंह (सं. 1476859डब्ल्यू अब जेसी-330998डब्ल्यू),
02 सितम्बर 2006#

हवलदार जोब्बी जोशफ (सं. 1384610के अब जेसी-330999वाई),
18 सितम्बर 2006#

हवलदार शेख गोस मोहिदीन (सं. 15300383एच अब
जेसी-331000ए), 02 सितम्बर 2006#

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 1483957वाई अब जेसी-331001एच),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार के सेलवाम (सं. 1383117के अब जेसी-331002एल),
09 सितम्बर 2006#

हवलदार एम. रवि चन्द्रन (सं. 1384793एल अब जेसी-331003एन),
22 सितम्बर 2006#

हवलदार चिपाडे सुनील विठल (सं. 1577026एन अब
जेसी-331004डब्ल्यू), 27 सितम्बर 2006#

हवलदार विनायक मर्धी पी. (सं. 15303718ए अब जेसी-331005वाई),
20 सितम्बर 2006#

हवलदार रमेश नारायण सिंह (सं. 1480378एफ अब
जेसी-331006एफ), 04 सितम्बर 2006#

हवलदार पी. जगदीशन (सं. 15300152एम अब जेसी-331007के),
02 सितम्बर 2006#

हवलदार सिकन्दर सिंह (सं. 1578530ए अब जेसी-331008एम),
06 अक्टूबर 2006**

हवलदार अमर बहादुर सिंह (सं. 1481982वाई अब जेसी-331009पी),
04 अक्टूबर 2006**

हवलदार प्रशान्त कुमार खनरा (सं. 1483135एफ अब
जेसी-331010के), 29 सितम्बर 2006**

हवलदार इन्दर सिंह (सं. 1483150डब्ल्यू अब जेसी-331011के),
30 सितम्बर 2006**

हवलदार समुथीराबेल एम. (सं. 1380035डब्ल्यू अब जेसी-331012पी),
28 सितम्बर 2006**

हवलदार विजयन जी. (सं. 1379973के अब जेसी-331013एक्स),
29 सितम्बर 2006**

हवलदार थोमस कुट्टी वी. पी. (सं. 15302969एक्स अब
जेसी-331014ए), 03 अक्टूबर 2006**

हवलदार येवाले भारत श्रीपति (सं. 1578883ए अब जेसी-331015एक्स),
09 अक्टूबर 2006**

हवलदार मत्ता वास हरिनाथा राव (सं. 15304647डब्ल्यू अब
जेसी-331016एल), 04 अक्टूबर 2006**

हवलदार एन एन्वाजाधन (सं. 15304932पी अब जेसी-331017एन),
28 सितम्बर 2006**

हवलदार साजी जार्ज (सं. 15307190एल अब जेसी-331018डब्ल्यू),
27 सितम्बर 2006**

हवलदार बरम पाल (सं. 1580509डब्ल्यू अब जेसी-331019वाई),
28 सितम्बर 2006**

हवलदार के. राजीवन (सं. 7240479एन अब जेसी-331020एन),
11 मई 2006*

हवलदार आलोक कुमार डे (सं. 15300228एफ अब
जेसी-331021डब्ल्यू), 03 मई 2006*

हवलदार जे. सी. बिजू (सं. 15308304एक्स अब जेसी-331022वाई),
20 सितम्बर 2006#

हवलदार कमलेश चन्द्र (सं. 1582070एफ अब जेसी-331023एफ),
14 सितम्बर 2006#

हवलदार पुष्पेन्द्र सिंह (सं. 1480764एन अब जेसी-331024के),
04 दिसम्बर 2006**

हवलदार लखपत सिंह (सं. 1481437पी अब जेसी-331025एम),
11 दिसम्बर 2006**

हवलदार जी. प्रमोद (सं. 15308203के अब जेसी-331026पी),
30 दिसम्बर 2006**

हवलदार सिवन पिल्लेबी. (सं. 1478732एम अब जेसी-331027एक्स),
01 दिसम्बर 2006**

हवलदार के विजय रेड्डी (सं. 15306744एम अब जेसी-331028ए),
07 दिसम्बर 2006**

हवलदार बिजू के. एम. (सं. 15308185एम अब जेसी-331029एच),
07 दिसम्बर 2007**

हवलदार डीवैत्येसवर चक्रवर्ती (सं. 1481953के अब
जेसी-331030एक्स), 07 दिसम्बर 2007**

हवलदार वी. एस मलिक बाशा (सं. 1582213डब्ल्यू अब
जेसी-331031ए), 07 दिसम्बर 2007**

हवलदार राम मिलन (सं. 1478048के अब जेसी-331032एच),
05 सितम्बर 2006#

हवलदार दिनेश कुमार सिंह (सं. 1478721ए अब जेसी-331033एल),
30 अगस्त 2006#

हवलदार कृष्णा (सं. 1481563एफ अब जेसी-331034एन), 04 सितम्बर
2006#

हवलदार नरेश कुमार (सं. 1481634एक्स अब जेसी-331035डब्ल्यू),
04 नवम्बर 2006#

हवलदार जयर्सन जोस (सं. 15301116एन अब जेसी-331036वाई),
01 सितम्बर 2006#

हवलदार राम रतन (सं. 1479766एम अब जेसी-331037एफ),
08 सितम्बर 2006#

हवलदार शोस पाल (सं. 1481593वाई अब जेसी-331038के),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार राम सुख (सं. 1483710एक्स अब जेसी-331039एम),
06 सितम्बर 2006#

हवलदार इजहार अहमद अंसारी (सं. 1578717एम अब
जेसी-331040एफ), 01 सितम्बर 2006#

हवलदार दीपक कुमार शर्मा (सं. 1481833एल अब जेसी-331041के),
04 सितम्बर 2006#

हवलदार बिरेन्द्र सिंह रावत (सं. 1577039एल अब जेसी-331042एम),
26 अक्टूबर 2006**

हवलदार एस. मोहन कुमार (सं. 15304907डब्ल्यू अब
जेसी-331043पी), 29 सितम्बर 2006**

हवलदार खेम सिंह (सं. 1479999एन अब जेसी-331044एक्स),
02 मार्च 2006@

हवलदार लदूरी सिंह (सं. 1573238एफ अब जेसी-331045ए),
08 नवम्बर 2006@

हवलदार सिया राम (सं. 1582076एच अब जेसी-331046एच),
21 सितम्बर 2006*

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 1484909एल अब जेसी-331047एल),
13 दिसम्बर 2006@@

हवलदार वान्खेडे रविन्द्र रामजी (सं. 1581130वाई अब
जेसी-331048एन), 29 मार्च 2007%%

हवलदार मनोज कुमार (सं. 6934396एच अब जेसी-331049डब्ल्यू),
02 अप्रैल 2007%%

हवलदार विनय कुमार (सं. 1586680एल अब जेसी-331050एल),
30 मार्च 2007%%

हवलदार अनिल कुमार (सं. 15304679वाई अब जेसी-331051एन),
30 मार्च 2007%%

हवलदार श्रीनिवासन एस. (सं. 1383114डब्ल्यू अब
जेसी-331052डब्ल्यू), 26 मार्च 2007%%

हवलदार अशोक कुमार के. (सं. 15308291एल अब
जेसी-331053वाई), 29 मार्च 2007%%

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 1481088डब्ल्यू अब जेसी-331054एफ),
26 मार्च 2007%%

हवलदार सुन्दर देव महतो (सं. 1476313डब्ल्यू अब जेसी-331055के),
30 मार्च 2007%%

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 1479429एक्स अब जेसी-331056एम),
26 मार्च 2007%%

हवलदार गुलाब यादव (सं. 1581426एक्स अब जेसी-331057पी),
29 मार्च 2007%%

हवलदार ओम प्रकाश सोनी (सं. 1483438डब्ल्यू अब
जेसी-331058एक्स), 26 मार्च 2007%%

हवलदार सुबोध कुमार शुक्ला (सं. 1482529एन अब
जेसी-331059ए), 15 दिसम्बर 2006%%

हवलदार एस. महेश कुमार (सं. 1486657एच अब जेसी-331060पी),
03 अप्रैल 2007%%

हवलदार हरिराम (सं. 15313348वाई अब जेसी-331061एक्स),
29 मार्च 2007%%

हवलदार मनोज कुमार (सं. 1581299एन अब जेसी-331062ए),
26 मार्च 2007%%

हवलदार आर. नगेन्द्र (सं. 15301897एम अब जेसी-331063एच),
03 अप्रैल 2007%%

हवलदार रविन्द्र सतपाठी (सं. 1481883 डब्ल्यू अब जेसी-331064एल),
29 मार्च 2007%%

हवलदार भूपेन्द्र सिंह (सं. 1582488के अब जेसी-331065एन),
30 मार्च 2007%%

हवलदार गुरुविन्दर सिंह (सं. 1582759 डब्ल्यू अब
जेसी-331066 डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2007%%

हवलदार टेलुकुने अशोक मलेपा (सं. 1579428के अब
जेसी-331067वाई), 23 जनवरी 2007#

हवलदार रामनिवास आर्य (सं. 1577610एल अब जेसी-331068एफ),
22 जनवरी 2007#

हवलदार के. परमिन्द्र सिंह (सं. 1577238वाई अब जेसी-331069के),
07 अप्रैल 2007%%

हवलदार मधुकुमारन् नैय्यर के (सं. 15309489 डब्ल्यू अब
जेसी-331070वाई), 07 अप्रैल 2007%%

हवलदार लेखराज सिंह (सं. 1483964पी अब जेसी-331071एफ),
23 मार्च 2007%%

हवलदार आर. सुन्दरम् (सं. 1383726एन अब जेसी-331072के),
20 मार्च 2007%%

हवलदार के. हानिष्ठ नैदन चैन्नियान (सं. 15304139ए अब
जेसी-331073एम), 22 मार्च 2007%%

हवलदार संजय कुमार लक्ष्मण पाटिल (सं. 1577709एफ अब
जेसी-331074पी), 23 मार्च 2007%%

हवलदार ई. बालाकृष्ण रेड्डी (सं. 15304288एन अब
जेसी-331075एक्स), 21 मार्च 2007%%

हवलदार करन सिंह (सं. 1481981 डब्ल्यू अब जेसी-331076ए),
15 मार्च 2007%%

हवलदार अरून कुमार शर्मा (सं. 1482750एम अब
जेसी-331077एच), 22 मार्च 2007%%

हवलदार देवेन्द्र सिंह कादियान (सं. 1483434ए अब
जेसी-331078एल), 21 मार्च 2007%%

हवलदार जय कनवर (सं. 1485117एक्स अब जेसी-331079एन),
21 मार्च 2007%%

हवलदार उमेश चन्द्र (सं. 1482180पी अब जेसी-331080एच),
23 मार्च 2007%%

हवलदार सुरेश के. (सं. 15304210एच अब जेसी-331081एल),
20 मार्च 2007%%

हवलदार अनिल पी. थोमस (सं. 15305368एक्स अब
जेसी-331082एन), 21 मार्च 2007%%

हवलदार उमापति जी. (सं. 15306904एफ अब जेसी-331083 डब्ल्यू),
20 मार्च 2007%%

हवलदार बन्दू वैकट्यायडू (सं. 15307321एल अब जेसी-331084वाई),
19 मार्च 2007%%

हवलदार आर. गणेशन (सं. 15304834पी अब जेसी-331085एफ),
10 अप्रैल 2007%%

हवलदार विनोद बिहारी मोहन्ती (सं. 1484235वाई अब
जेसी-331086के), 29 मार्च 2007%%

हवलदार बिशन सिंह तोमर (सं. 1481240वाई अब जेसी-331087एम),
03 मई 2007%%

हवलदार तिलक राज राही (सं. 1578244वाई अब जेसी-331088पी),
30 मार्च 2007%%

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 1483864के अब
जेसी-331089एक्स), 23 मार्च 2007%%

हवलदार गुरुचन सिंह (सं. 1582178वाई अब जेसी-331090एम),
02 अप्रैल 2007%%

हवलदार वर्ले आदिनारायन (सं. 1489594 डब्ल्यू अब
जेसी-331091पी), 23 जनवरी 2007%%

हवलदार चितेश्वर प्रसाद (सं. 1479202के अब जेसी-331092एक्स),
09 अप्रैल 2007%%

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 1481569एच अब जेसी-331093ए),
14 अप्रैल 2007%%

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 1482116के अब जेसी-331094एच),
23 अप्रैल 2007%%

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 1579469एम अब जेसी-331095एल),
23 अप्रैल 2004%%

हवलदार राकेश कुमार सिंह (सं. 1587293एच अब जेसी-331096एन),
19 अप्रैल 2007%%

हवलदार राजेन्द्र मेहर (सं. 1482727वाई अब जेसी-331097 डब्ल्यू),
20 मार्च 2007%%

हवलदार बेनू गोपालन डी. वी. (सं. 15307303एच अब
जेसी-331098वाई), 19 मार्च 2007%%

हवलदार धरमवीर सिंह (सं. 1474616एम अब जेसी-331099एफ),
20 अप्रैल 2007##

हवलदार विमल कुमार सिंह (सं. 1483867ए अब जेसी-331100एल),
26 अप्रैल 2007##

हवलदार रिती पाल सिंह (सं. 1482249ए अब जेसी-331101एन),
09 जून 2007%%

हवलदार राजेन्द्र (सं. 1481619एच अब जेसी-331102 डब्ल्यू),
10 मई 2007%%

हवलदार सुरेन्द्र शर्मा कौशिक (सं. 1480580पी अब जेसी-331103वाई),
29 अप्रैल 2007%%

हवलदार बैनी जोश (सं. 7240491पी अब जेसी-331104एफ),
16 जुलाई 2007\$

हवलदार प्रजान्नादा चौलया (सं. 1483622एल अब जेसी-331105के),
11 जुलाई 2007%%

हवलदार जगत राम (सं. 1582452एल अब जेसी-331106एम),
18 जून 2007%%

हवलदार के. चिन्ना मुत्थु सम (सं. 15303044एन अब
जेसी-331107पी), 11 अप्रैल 2007%%

हवलदार दर्शन सिंह (सं. 1575001एच अब जेसी-331108एक्स),
31 मई 2007%%

हवलदार शिवादासन आर. (सं. 15301905ए अब जेसी-331109ए),
16 जुलाई 2007\$

हवलदार महावीर सिंह (सं. 1483496ए अब जेसी-331110पी),
21 मई 2007%%

हवलदार सुरेन्द्र पाल सिंह (सं. 1584098ए अब जेसी-331111एक्स),
29 जून 2007\$

हवलदार भोंसले राजेन्द्र बाबू राव (सं. 1584890एम अब
जेसी-331112ए), 04 जुलाई 2007\$

हवलदार राम सिंह रावत (सं. 1482814एम अब जेसी-331113एच),
29 जून 2007\$

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 1483583एन अब जेसी-331114एल),
29 जून 2007\$

हवलदार जीवन चन्द्र बरूवा (सं. 1481875एक्स अब
जेसी-331115एन), 29 जून 2007\$

हवलदार सुनील कुमार (सं. 1485133पी अब जेसी-331116डब्ल्यू),
29 जून 2007\$

हवलदार पुरुषोत्तम कुमार (सं. 1486292वाई अब जेसी-331117वाई),
30 जून 2007\$

हवलदार जगदीश (सं. 1482519के अब जेसी-331118एफ), 09 जुलाई
2007\$

हवलदार दिलीप कुमार वी. पी. (सं. 15305948एम अब
जेसी-331119के), 28 जून 2007\$

हवलदार सुरेश कुमार एस. आर. (सं. 1384598एन अब
जेसी-331120वाई), 06 जुलाई 2007\$

हवलदार सूरत सिंह (सं. 1377446के अब जेसी-331121एफ),
15 मई 2007##

हवलदार के. रवि (सं. 15309231एच अब जेसी-331122के), 27 जुलाई
2007\$

हवलदार जय राम यादव (सं. 1482074एच अब जेसी-331123एम),
14 जुलाई 2007\$

हवलदार बिक्रम सिंह (सं. 7240506एम अब जेसी-331124पी),
16 जुलाई 2007\$

हवलदार सुरेन्द्र कुमार यादव (सं. 6389762के अब
जेसी-331125एक्स), 13 जुलाई 2007\$

हवलदार बनय सिंह (सं. 1483165वाई अब जेसी-331126ए),
17 जुलाई 2007\$

हवलदार बेलीमलय राजा एस. (सं. 1582740एक्स अब
जेसी-331127एच), 18 जुलाई 2007\$

हवलदार नरेन्द्र प्रताप राजभर (सं. 15308315केअब जेसी-331128एल),
18 जुलाई 2007\$

हवलदार दलवीर सिंह (सं. 1481796एच अब जेसी-331129एन),
20 जुलाई 2007\$

हवलदार शंकर कुमार साहू (सं. 6931276वाई अब जेसी-331130एच),
02 अगस्त 2007\$

हवलदार लोख राम (सं. 1578997एल अब जेसी-331131एल),
03 अगस्त 2007\$

हवलदार तेज प्रकाश ठाकुर (सं. 1472361वाई अब जेसी-331132एन),
09 अगस्त 2007\$

हवलदार सतीश चन्द्र (सं. 1479681डब्ल्यू अब जेसी-331133डब्ल्यू),
28 मार्च 2007%%

हवलदार रामफूल (सं. 1579919ए अब जेसी-331134वाई), 10 मई
2007%%

हवलदार सुरेश सिंह विष्ट (सं. 1484908एच अब जेसी-331135एफ),
09 अगस्त 2007\$

हवलदार धनन्जय हजरा (सं. 1482187एल अब जेसी-331136के),
14 जुलाई 2007\$

हवलदार भगीरथ सिंह (सं. 1578651एफ अब जेसी-331137एन),
19 जुलाई 2007\$

हवलदार संजीव कुमार (सं. 1578616वाई अब जेसी-331138पी),
23 जुलाई 2007\$

हवलदार राजी के. इयप्पन (सं. 15304412के अब
जेसी-331139एक्स), 16 जुलाई 2007\$

हवलदार साजू एम. एफ. (सं. 15306162एम अब जेसी-331140एन),
11 जुलाई 2007\$

हवलदार ए. श्री निवास राय (सं. 15302057वाई अब जेसी-331141पी),
16 जुलाई 2007\$

हवलदार राम सिंह राय (सं. 1482153एक्स अब जेसी-331142एक्स),
18 जुलाई 2007\$

हवलदार सोहन सिंह (सं. 1577682पी अब जेसी-331143ए), 14 जुलाई
2007\$

हवलदार जाधव शिवादास दशरथ (सं. 1574349एल अब जेसी-331144एच), 20 जुलाई 2007\$

हवलदार रामू वी. (सं. 15301069एफ अब जेसी-331145एल), 18 जुलाई 2007\$

हवलदार मदन सिंह (सं. 1575491एफ अब जेसी-331146एन), 14 जुलाई 2007\$

हवलदार विश्वजीत साहा (सं. 1473146ए अब जेसी-331147डब्ल्यू), 16 जुलाई 2007\$

हवलदार ज्ञानेन्द्र सिंह (सं. 1481555एच अब जेसी-331148वाई), 17 जुलाई 2007\$

हवलदार दिनेश सिंह रावत (सं. 1482518एफ अब जेसी-331149एफ), 21 जुलाई 2007\$

हवलदार भोला राम के. रंगनाथन (सं. 1382171एल अब जेसी-331150डब्ल्यू), 13 जुलाई 2007\$

हवलदार केशर सिंह (सं. 1482179एम अब जेसी-331151वाई), 30 जुलाई 2007\$

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 1482547डब्ल्यू अब जेसी-331152एफ), 09 अप्रैल 2007%%

हवलदार सुरेश कुमार पी. (सं. 15305022एन अब जेसी-331153के), 22 मार्च 2007%%

हवलदार हरेन्द्र सिंह विष्ट (सं. 1483473वाई अब जेसी-331154एम), 10 जुलाई 2007\$

हवलदार नरपेन्द्र वर्मन (सं. 1483919एच अब जेसी-331155पी), 29 जून 2007\$

हवलदार संदीप सिंह जसरोटिया (सं. 1483091पी अब जेसी-331156एक्स), 14 जुलाई 2007\$

हवलदार सेतू एम. (सं. 15302623एन अब जेसी-331157ए), 18 जुलाई 2007\$

हवलदार देवेन्द्र (सं. 1482718एक्स अब जेसी-331158एच), 09 जुलाई 2007\$

हवलदार अभय कुमार बल (सं. 1483782एफ अब जेसी-331159एल), 30 जून 2007\$

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 2008, 12 दिसम्बर 2005, 01 अप्रैल 2006, 10 जून 2006, 12 अगस्त 2006, 20 नवम्बर 2006, 16 दिसम्बर 2006, 03 फरवरी 2007 तथा 17 मार्च 2007 से दी जाती है।)

अवर सचिव

ओ एस पी एस (2)(सी)

नोट:--

* वरिष्ठता 04 फरवरी 06 से

@ वरिष्ठता 12 दिसम्बर 05 से

% वरिष्ठता 01 अप्रैल 06 से

वरिष्ठता 10 जून 06 से

\$ वरिष्ठता 17 मार्च 07 से

** वरिष्ठता 12 अगस्त 06 से

@@वरिष्ठता 20 नवम्बर 06 से

%% वरिष्ठता 16 दिसम्बर 06 से

वरिष्ठता 03 फरवरी 07 से

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र कुमार सिंह (सं. 1472783के अब जेसी-338499डब्ल्यू), 23 अगस्त 2008*

हवलदार सतेन्द्र सिंह (सं. 1475432ए अब जेसी-338500ए), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 1475511पी अब जेसी-338501एच), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार शम्भू कुमार सिंह (सं. 1475560एक्स अब जेसी-338502एल), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार मोहम्मद ईजाजुल शेख (सं. 1475757एन अब जेसी-338503एन), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 1475950ए अब जेसी-338504डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार शरबजीत सिंह (सं. 1474768एन अब जेसी-338505वाई), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार प्रहलाद राय सरकार (सं. 1473156के अब जेसी-338506एफ), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार विक्रम सिंह नेगी (सं. 1487272एक्स अब जेसी-338507के), 01 सितम्बर 2008#

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 1475818ए अब जेसी-338508एम), 02 अगस्त 2008@

हवलदार मन मोहन नायक (सं. 1475767एक्स अब जेसी-338509पी), 02 सितम्बर 2008@

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 1476280डब्ल्यू अब जेसी-338510के), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 1476225ए अब जेसी-338511एम), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार अशोक कुमार त्रिपाठी (सं. 1476305एक्स अब जेसी-338512पी), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार खलीलुर रहमान लकसर (सं. 1476316के अब जेसी-338513एक्स), 17 सितम्बर 2008#

हवलदार अकलिम हुसेन लकसर (सं. 1476317एम अब जेसी-338514ए), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार वीरपाल सिंह (सं. 1476323ए अब जेसी-338515एच), 01 सितम्बर 2008#

नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार जंगीर सिंह (सं. 1479079डब्ल्यू अब जेसी-338516एल), 08 सितम्बर 2008@

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 1478312एम अब जेसी-338517एन), 01 सितम्बर 2008@

हवलदार निरझर कुमार मण्डल (सं. 1478332ए अब जेसी-338518डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008@

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 1479086एम अब जेसी-338519वाई), 01 सितम्बर 2008#

हवलदार राजेश बाबू (सं. 1479159एन अब जेसी-338520एन), 01 सितम्बर 2008#

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008)

① (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008)

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार अनिल (सं. 15345549एल अब जेसी-338521डब्ल्यू), 29 नवम्बर 2008**

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 1473123वाई अब जेसी-338522वाई), 13 सितम्बर 2008%

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 1475372डब्ल्यू अब जेसी-338523एफ), 30 नवम्बर 2008

हवलदार अरविन्द कुमार (सं. 1475385एन अब जेसी-338524के), 01 सितम्बर 2008&

हवलदार आनन्द सिंह (सं. 1488318एफ अब जेसी-338525एम), 02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार केदार शाह (सं. 1490066वाई अब जेसी-338526पी), 21 अक्टूबर 2008\$

हवलदार तरक नाथ घोरई (सं. 1492803एन अब जेसी-338527एक्स), 17 अक्टूबर 2008\$

हवलदार सोना राम (सं. 1492825एम अब जेसी-338528ए), 25 अक्टूबर 2008\$

हवलदार सुदर्शन बिशवास (सं. 1493213एफ अब जेसी-338529एच), 31 अक्टूबर 2008\$

हवलदार रविन्दर कुमार (सं. 1489805एन अब जेसी-338530एक्स), 29 नवम्बर 2008\$

हवलदार सुखेन्द्र कुमार (सं. 1473321के अब जेसी-338531ए), 17 अक्टूबर 2008\$

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 1475954डब्ल्यू अब जेसी-338532एच), 17 अक्टूबर 2008\$

हवलदार मुनी बारा बेरिक (सं. 1476065एल अब जेसी-338533एल), 01 दिसम्बर 2008\$

हवलदार लोग राज जोशी (सं. 1476075पी अब जेसी-338534एन), 20 अक्टूबर 2008\$

हवलदार पाल सिंह (सं. 1476115एल अब जेसी-338535डब्ल्यू), 27 अक्टूबर 2008\$

हवलदार सुखदेव प्रशाद डबराल (सं. 1476215डब्ल्यू अब जेसी-338536वाई), 25 नवम्बर 2008\$

हवलदार रतुल तमुली (सं. 1476382एम अब जेसी-338537एफ), 08 दिसम्बर 2008#

हवलदार गुरबचन सिंह (सं. 1476392डब्ल्यू अब जेसी-338538के), 18 नवम्बर 2008#

हवलदार अरविन्द कुमार दूबे (सं. 1476445के अब जेसी-338539एम), 15 नवम्बर 2008#

हवलदार औम प्रकाश (सं. 1476447पी अब जेसी-338540एफ), 17 नवम्बर 2008#

हवलदार सुरेश यादव (सं. 1476450पी अब जेसी-338541के), 01 दिसम्बर 2008#

हवलदार धान सिंह भाकूनि (सं. 1476503एच अब जेसी-338542एम), 24 नवम्बर 2008#

हवलदार औम प्रकाश (सं. 1476522एन अब जेसी-338543पी), 19 नवम्बर 2008#

हवलदार रबीश बाबू (सं. 1476530एम अब जेसी-338544एक्स), 06 दिसम्बर 2008*

हवलदार बिक्रम लाल (सं. 1476537डब्ल्यू अब जेसी-338545ए), 02 दिसम्बर 2008*

हवलदार हरनाम सिंह (सं. 1476559पी अब जेसी-338546एच), 01 दिसम्बर 2008*

हवलदार राम चरण (सं. 1476585डब्ल्यू अब जेसी-338547एल), 01 दिसम्बर 2008*

हवलदार भाजेश चन्द्र सरकार (सं. 1476641के अब जेसी-338548एन), 01 दिसम्बर 2008*

हवलदार परीतोश कुमार बिशवास (सं. 1476652डब्ल्यू अब जेसी-338549डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008*

हवलदार असीम कुमार पाल (सं. 1476656एम अब जेसी-338550एल), 01 दिसम्बर 2008*

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 1476706एम अब जेसी-338551एन),
01 दिसम्बर 2008*

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 1476711एक्स अब जेसी-338552डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2008*

हवलदार करन बहादुर सुनार (सं. 1476741पी अब जेसी-338553वाई),
01 दिसम्बर 2008*

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार प्रमोद कुमार ठाकुर (सं. 1475282पी अब जेसी-338554एफ),
07 अक्टूबर 2008@

हवलदार राम विनय प्रशाद (सं. 1475780एफ अब जेसी-338555के),
22 अक्टूबर 2008%

हवलदार छिन्दर पाल सिंह (सं. 1474564एफ अब जेसी-338556एम),
11 दिसम्बर 2008#

हवलदार योगेन्द्र प्रशाद मिश्रा (सं. 1472737पी अब जेसी-338557पी),
27 नवम्बर 2008#

हवलदार सुरेश बहादुर पाल (सं. 1475241एल अब जेसी-338558एक्स), 02 दिसम्बर 2008*

हवलदार महेन्द्र कुमार (सं. 1475456के अब जेसी-338559ए),
04 दिसम्बर 2008*

हवलदार पवर जनार्दन (सं. 1475778के अब जेसी-338560पी),
06 दिसम्बर 2008*

हवलदार राकेश कुमार शर्मा (सं. 1474867डब्ल्यू अब जेसी-338561एक्स), 04 दिसम्बर 2008*

हवलदार सुधिनदु शेखर शुक्ला (सं. 1475278एम अब जेसी-338562ए), 04 दिसम्बर 2008*

हवलदार चन्द्रन के (सं. 1476023वाई अब जेसी-338563एच),
02 दिसम्बर 2008*

नायब सूबेदार क्लर्क (स्टोर) के रैंक में

हवलदार राम चन्द्र शुक्ला (सं. 1476243एच अब जेसी-338564एल),
29 नवम्बर 2008#

नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार रवि कुमार शर्मा (सं. 1493656एच अब जेसी-338565एन),
10 दिसम्बर 2008##

हवलदार एन स्नेहा कुमार शुक्ला (सं. 15336151पी अब जेसी-338566डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2008##

हवलदार कृपाल सिंह (सं. 1478545एन अब जेसी-338567वाई),
03 दिसम्बर 2008#

हवलदार सचिन कुमार (सं. 15335943एच अब जेसी-338568एफ),
02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार विनोद छिकारा (सं. 1493359पी अब जेसी-338569के),
03 दिसम्बर 2008\$

हवलदार निर्मल चन्द्र कोले (सं. 15344323एन अब जेसी-338570वाई), 03 दिसम्बर 2008\$

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 15344294के अब जेसी-338571एफ),
04 दिसम्बर 2008\$

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 15344297एक्स अब जेसी-338572के),
10 दिसम्बर 2008\$

हवलदार प्रमोद कुमार सिंह (सं. 15344298ए अब जेसी-338573एम),
08 दिसम्बर 2008\$

हवलदार कुशलवीर सिंह (सं. 15344299एच अब जेसी-338574पी),
03 दिसम्बर 2008\$

हवलदार ग्यानेन्द्र कुमार (सं. 15344301पी अब जेसी-338575एक्स),
02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार नन्दन सिंह (सं. 15344303ए अब जेसी-338576ए), 02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार मनोज कुमार यादव (सं. 15344304एच अब जेसी-338577एच), 15 दिसम्बर 2008\$

हवलदार अजय सिंह पुन्डीर (सं. 15344305एल अब जेसी-338578एल), 02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार अशोक कुमार (सं. 15344306एन अब जेसी-338579एन),
08 दिसम्बर 2008\$

हवलदार दीपक शर्मा (सं. 15344307डब्ल्यू अब जेसी-338580एच),
10 दिसम्बर 2008\$

हवलदार नन्द किशोर (सं. 15344308वाई अब जेसी-338581एल),
08 दिसम्बर 2008\$

हवलदार सुरेन्द्र दानी (सं. 15344309एफ अब जेसी-338582एन),
02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार पुष्पेन्द्र कुमार (सं. 15344310डब्ल्यू अब जेसी-338583डब्ल्यू), 02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार धर्मवीर सिंह गौतम (सं. 15344312एफ अब जेसी-338584वाई), 10 दिसम्बर 2008\$

हवलदार श्रीनिवास उपाध्याय (सं. 15344315पी अब जेसी-338585एफ), 02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार विनोद प्रशाद (सं. 15344316एक्स अब जेसी-338586के),
02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार राजीव कुमार (सं. 15344318एच अब जेसी-338587एम),
02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार कमलेश चन्द्र तिवारी (सं. 15344319एल अब जेसी-338588पी), 02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार हर सिंह (सं. 15344328एन अब जेसी-338589एक्स),
02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार रवि शंकर (सं. 15344329पी अब जेसी-338590एम),
02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार नौरज कुमार शर्मा (सं. 15344332पी अब जेसी-338591पी),
02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार तीर्थ सिंह नेगी (सं. 15344334ए अब जेसी-338592एक्स),
08 दिसम्बर 2008\$

हवलदार मनोज कुमार (सं. 15344336एल अब जेसी-338593ए),
02 दिसम्बर 2008\$

हवलदार माध्वेन्द्र मिश्रा (सं. 15344339वाई अब जेसी-338594एच),
15 दिसम्बर 2008\$

हवलदार अजित कुमार सिंह (सं. 15344347एक्स अब
जेसी-338595एल), 03 दिसम्बर 2008\$

हवलदार अनिल कुमार (सं. 15344348ए अब जेसी-338596एन),
15 दिसम्बर 2008\$

हवलदार राजेन्द्र प्रशाद कसाना (सं. 15344350एक्स अब
जेसी-338597डब्ल्यू), 03 दिसम्बर 2008\$

हवलदार सुनील कुमार चौहान (सं. 15344359एम अब
जेसी-338598वाई), 01 दिसम्बर 2008\$

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007)

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2007)

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008)

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008)

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008)

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008)

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008)

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008)

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (लिपिक जी. डी.) के मूल रैंक में

सूबेदार क्लर्क गिरी ए एम (जेसी-306367पी), 05 नवम्बर 2007

सूबेदार क्लर्क एम कृष्णराज (जेसी-306365के), 05 नवम्बर 2007

सूबेदार क्लर्क रघुनाथ पिल्लै (जेसी-306420पी), 05 दिसम्बर 2007

सूबेदार क्लर्क वी वेंकटस्वामी (जेसी-306492वाई), 17 दिसम्बर 2007

सूबेदार क्लर्क राजशेखरन सी के (जेसी-306494के), 01 दिसम्बर
2007

सूबेदार क्लर्क गिरीशन नायर एल (जेसी-306536एल), 07 दिसम्बर
2007

सूबेदार क्लर्क श्रीलेजा कुमार एस (जेसी-306496पी), 12 जनवरी
2008

सूबेदार क्लर्क सय्यद ताजुद्दीन एस (जेसी-305315एम), 01 जनवरी
2008

सूबेदार क्लर्क सत्री के एम (जेसी-305320एक्स), 04 जनवरी 2008

सूबेदार क्लर्क सुरेश मुन्नप्पागोल (जेसी-306797एम), 01 जनवरी 2008

सूबेदार क्लर्क तुलसीधरन पिल्लै (जेसी-306125एम), 02 फरवरी
2008

सूबेदार क्लर्क कृष्णापी बी पी (जेसी-306127एक्स), 02 जनवरी 2008

सूबेदार क्लर्क पथारसारी (जेसी-306172के), 08 जनवरी 2008

सूबेदार क्लर्क हवा सिंह (जेसी-306498ए), 22 जनवरी 2008

सूबेदार क्लर्क के वी जी प्रसाद राव (जेसी-306505एल), 02 जनवरी
2008

सूबेदार क्लर्क हरिनारायणन सी (जेसी-306508वाई), 09 जनवरी 2008

सूबेदार क्लर्क करियप्पा सी एस (जेसी-306513के), 03 मार्च 2008

सूबेदार क्लर्क रघु के (जेसी-306542वाई), 14 फरवरी 2008

सूबेदार क्लर्क पी सेल्वाराज (जेसी-306545एम), 02 जनवरी 2008

सूबेदार क्लर्क ए इश्वंता राव (जेसी-306548ए), 26 फरवरी 2008

सूबेदार क्लर्क एल सुंदरराज (जेसी-306549एच), 21 फरवरी 2008

सूबेदार क्लर्क प्रेंविलनजोस पी एस (जेसी-306552एच), 05 मई 2008

सूबेदार क्लर्क चंद्रामोहन टी एन (जेसी-306553एल), 01 मार्च 2008

सूबेदार क्लर्क सीगनानशेखर (जेसी-306554एन), 10 मार्च 2008

सूबेदार क्लर्क ए आरोक्यस्वामी (जेसी-306559एम), 12 मार्च 2008

सूबेदार क्लर्क विक्रमन टी वी (जेसी-306576एम), 03 मार्च 2008

सूबेदार क्लर्क मोहनदास पी के (जेसी-306626एम), 02 जून 2008

सूबेदार क्लर्क राजन ए (जेसी-306653डब्ल्यू), 12 जुलाई 2008

सूबेदार क्लर्क जोजी जोसफ (जेसी-306658पी), 02 मई 2008

सूबेदार क्लर्क सुनिल कुमार के (जेसी-306659एक्स), 21 जुलाई
2008

सूबेदार क्लर्क आई मैथियस (जेसी-306660एम), 18 सितम्बर 2008

सूबेदार क्लर्क साबु बी (जेसी-306661पी), 02 जून 2008

सूबेदार क्लर्क ऊन्निकृष्णन ऊन्निकृष्णन (जेसी-306662एक्स), 17 सितम्बर
2008

सूबेदार क्लर्क लक्ष्मण राम (जेसी-306666एन), 02 जून 2008
 सूबेदार क्लर्क रामजी शुक्ला (जेसी-306692पी), 07 जुलाई 2008
 सूबेदार क्लर्क बलवान सिंह (जेसी-306725पी), 03 अक्टूबर 2008
 सूबेदार क्लर्क राकेश कुमार (जेसी-306726एक्स), 08 सितम्बर 2008
 सूबेदार क्लर्क राम चंद्र प्रसाद सिंह (जेसी-306736एफ), 06 सितम्बर 2008
 सूबेदार क्लर्क अजय सिंह यादव (जेसी-306824एक्स), 02 अगस्त 2008
 सूबेदार क्लर्क जगदेव कुमार (जेसी-306897के), 03 अक्टूबर 2008
 सूबेदार मेजर (एस. के. टी.) के मूल रैंक में
 सूबेदार एस. के. टी. पी बलन (जेसी-305784पी), 18 अक्टूबर 2007
 सूबेदार एस. के. टी. बाबु लाल (जेसी-305991एफ), 12 नवम्बर 2007
 सूबेदार एस. के. टी. माम चंद (जेसी-306001एक्स), 01 फरवरी 2008
 सूबेदार (लिपिक जी. डी.) के मूल रैंक में
 नायब सूबेदार क्लर्क राजशेखरन (जेसी-307334डब्ल्यू), 20 सितम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क सी रामदास तुकाराम (जेसी-307335वाई), 01 अगस्त 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क तेज नारायण राम (जेसी-307360एक्स), 01 अक्टूबर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क धन राज महतो (जेसी-307362एच), 01 अक्टूबर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क सतीश कुमार त्रिपाठी (जेसी-307363एल), 01 अक्टूबर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क विरेंद्र सिंह (जेसी-307364एन), 01 अक्टूबर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क राजेश कुमार (जेसी-307383वाई), 03 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क पदमाकर दुबे (जेसी-307384एफ), 03 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क नंदलाल भारतीय (जेसी-307400एन), 23 नवम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क गुणेश्वर सिंह वाई (जेसी-307402वाई), 03 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क चंद्र पाल (जेसी-307403एफ), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क नंदनन सी के (जेसी-307404के), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार क्लर्क श्री राम यादव (जेसी-307405एम), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क अरुण कुमार (जेसी-307406पी), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क मधुसूदनन के (जेसी-307407एक्स), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क एन राधाकृष्णन (जेसी-307426एच), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क सी के सुब्रमण्य आचार्य (जेसी-307427एल), 03 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क जोसफ स्करिया (जेसी-307429डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007
 नायब सूबेदार क्लर्क सुरेश बाबु के के (जेसी-307431एन), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क हरिनाथ सिंह यादव (जेसी-307432डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क जिवन कृष्ण मण्डल (जेसी-307433वाई), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क प्रेम कुमार सिंह (जेसी-307434एफ), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क लक्ष्मण (जेसी-307449के), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क ए रामाकृष्णन (जेसी-307450वाई), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क विजय कुमार जी (जेसी-307451एफ), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क चंद्रप्रकाश राय (जेसी-307452के), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क भैरू सिंह (जेसी-307463डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क पी के सेल्वम (जेसी-307464वाई), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क मधुसूदनन पी (जेसी-307465एफ), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क कबिराजा प्रधान (जेसी-307485पी), 02 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क जोसी तंकचन (जेसी-307489एल), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क मेघ सिंह (जेसी-307491एच), 01 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क मनोहर सिंह (जेसी-307495वाई), 30 जनवरी 2008
 नायब सूबेदार क्लर्क टी चंद्रन (जेसी-307497के), 07 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क मनोज कुमार बी (जेसी-307498एम), 07 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क राम बहादुर सिंह (जेसी-307499पी), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क सन्यासि साहू (जेसी-307519एक्स), 05 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क बीर सिंह (जेसी-307521पी), 03 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क राज दियो ठाकुर (जेसी-307535पी), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क महावीर सिंह (जेसी-307537ए), 04 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क बी लिंगा दुरै (जेसी-307540ए), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क कृष्णादासन ए (जेसी-307541एच), 08 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क ओम सिंह (जेसी-307543एन), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क अनंदा बिस्वास (जेसी-307560एन), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क जोगेश्वर राय (जेसी-307561डब्ल्यू), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क राम मेहर (जेसी-307562वाई), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क रामनाथ प्रजापति (जेसी-307564के), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क देवासिस प्रहराजा (जेसी-307565एम), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क सुदर्शन पनिक्कर (जेसी-307568ए), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क राजू पी (जेसी-307569एच), 01 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क राम किशोर सिंह (जेसी-307572एच), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क ए नागराजन (जेसी-307585ए), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क श्यामवीर सिंह (जेसी-307592डब्ल्यू), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क ब्रजेश कुमार रोय (जेसी-307593वाई), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क आर रामदास (जेसी-307594एफ), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क रामा नायडु जी (जेसी-307596एम), 01 फरवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क कांचन कुमार (जेसी-307361ए), 18 जनवरी 2008

नायब सूबेदार क्लर्क ओम प्रकाश शुक्ला (जेसी-307496एफ), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार क्लर्क जी बालसुब्रमन्यम (जेसी-307567एक्स), 27 मार्च 2008

नायब सूबेदार क्लर्क अनिल कुमार वी के (जेसी-307612वाई), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार क्लर्क शंकर टी (जेसी-307614के), 01 मार्च 2008

नायब सूबेदार क्लर्क सुरेश बाबु ए वी (जेसी-307615एम), 11 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार क्लर्क पम्पना रामबाबु (जेसी-307617एक्स), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार क्लर्क सम्पथ सिमोधिया (जेसी-307619एच), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार क्लर्क बलराम सिंह चौहान (जेसी-307621ए), 18 अगस्त 2008

नायब सूबेदार क्लर्क परिमल कुमार सरकार (जेसी-307622एच), 03 मई 2008

नायब सूबेदार क्लर्क बशीर अहमद खान (जेसी-307623एल), 26 जुलाई 2008

नायब सूबेदार क्लर्क जोगिंदर पाल कुण्डाल (जेसी-307624एन), 02 जून 2008

नायब सूबेदार क्लर्क कोट्टम्बे जी टी (जेसी-307625डब्ल्यू), 01 जून 2008

नायब सूबेदार क्लर्क मोती चंद राम (जेसी-307645डब्ल्यू), 01 जून 2008

नायब सूबेदार क्लर्क मुनिलाल यादव (जेसी-307646एम), 01 जून 2008

नायब सूबेदार क्लर्क ग्यान सिंह (जेसी-307647पी), 03 जून 2008

नायब सूबेदार क्लर्क सतबीर सिंह आतरि (जेसी-307648एक्स), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार क्लर्क सेंटिल कुमार बी (जेसी-307649ए), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार क्लर्क भूप सिंह (जेसी-307650पी), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार क्लर्क जी जी भास्करन (जेसी-307662के), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार क्लर्क कृस्तुवराज (जेसी-307663एम), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार क्लर्क आर रोबर्ट (जेसी-307664पी), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-307665एक्स), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार निर्मल कुमार (जेसी-307666ए), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार शशिकांत नायक (जेसी-307692एफ), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार अजब सिंह (जेसी-307693के), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार रवि टी आर (जेसी-307694एम), 01 अगस्त 2008
 नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-307716ए), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार अनिल कलिंग (जेसी-307717एच), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार प्रोवाश मण्डल (जेसी-307719एन), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-307720एच), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार सर्वेश कुमार (जेसी-307721एल), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार कृपाल सिंह रावत (जेसी-307722एन), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार मदन मोहन (जेसी-307723डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार वेलुमुर्गन एस (जेसी-307724वाई), 01 सितम्बर 2008
 नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-307795ए), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार (एस. के. टी.) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार एस. के. टी. सत्यशीलन पिल्लै (जेसी-307316एन),
 26 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार एस. के. टी. धरमबीर सिंह (जेसी-307332एल),
 17 जनवरी 2008

नायब सूबेदार एस. के. टी. चम्बिल कुमार (जेसी-307382डब्ल्यू),
 14 जनवरी 2008

नायब सूबेदार एस. के. टी. जगदीप सिंह मेहता (जेसी-307425ए),
 14 जनवरी 2008

नायब सूबेदार एस. के. टी. चंदर भान (जेसी-307773एफ), 11 फरवरी
 2008

नायब सूबेदार एस. के. टी. हरि सिंह यादव (जेसी-307559वाई), 29 जनवरी
 2008

नायब सूबेदार एस. के. टी. राजबीर सिंह (जेसी-307715एक्स),
 28 जनवरी 2008

नायब सूबेदार एस. के. टी. किरोरिमल यादव (जेसी-307751एच),
 07 फरवरी 2008

नायब सूबेदार एस. के. टी. शम्भु प्रसाद (जेसी-307460एच), 02 जुलाई
 2008

बम्बई इंजीनियर गुप

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जी डी) कुलतार सिंह राना (जेसी-347478एम),
 17 अप्रैल 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) मंगे लाल (जेसी-347955एक्स), 16 अप्रैल
 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) फतेह चंद (जेसी-347602एक्स), 02 अप्रैल
 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) जगदीश चंद (जेसी-347954पी), 03 अप्रैल
 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) देव कुमार पांडे (जेसी-347931एन), 09 अप्रैल
 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) हरपाल सिंह (जेसी-347469ए), 19 अप्रैल
 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) भीम सिंह बिष्ट (जेसी-347616एक्स),
 05 मई 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) राम पॉल शर्मा (जेसी-347956ए), 13 मई
 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) विनोद कुमार (जेसी-347589वाई), 02 अप्रैल
 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) विजय कुमार दुगल (जेसी-347587एन),
 05 मई 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) कुमार पॉल शर्मा (जेसी-347965एफ),
 24 मई 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) नलवडे पांडुरंग जगननाथ (जेसी-347773के),
 31 मई 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) रविंद्र सिंह (जेसी-347958एल), 12 जून
 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) वीर दत्तात्रय दगडु (जेसी-347850एन),
 15 जुलाई 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) राजा राम (जेसी-348049एम), 14 जुलाई
 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) रोहताश कुमार शर्मा (जेसी-348038ए),
 01 जुलाई 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) रमेश (जेसी-347966के), 21 जुलाई 2008

सूबेदार (क्लर्क जी डी) प्रकाश चंद योगी (जेसी-348077वाई),
 04 अगस्त 2008

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी) मनजीत पाल सिंह (जेसी-347808पी), 25 फरवरी
 2008

सूबेदार (जी डी) बलविंदर सिंह (जेसी-348467एफ), 15 अप्रैल
 2008

सूबेदार (जी डी) चंद्रपाल सिंह (जेसी-348429एल), 12 मई 2008

सूबेदार (जी डी) योगेश्वर त्रिपाठी (जेसी-348440के), 17 जून 2008

- सूबेदार (जी डी) पदम नारायण (जेसी-348694एफ), 19 जून 2008
- सूबेदार (जी डी) रतन लाल कुम्हार (जेसी-348439पी), 11 जुलाई 2008
- सूबेदार (जी डी) पवार बाबु लक्ष्मण (जेसी-348474एक्स), 02 अगस्त 2008
- सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में
- सूबेदार (एस के टी) नरहरी नारायण दुबे (जेसी-348034के), 01 मई 2008
- सूबेदार (एस के टी) राम चंद्र (जेसी-348062डब्ल्यू), 12 मई 2008
- सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) राम किशन (जेसी-348971एफ), 01 दिसम्बर 2007
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) गणेश मिश्रा (जेसी-349326वाई), 09 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) इंगले मदन कुडलीक (जेसी-349347पी), 07 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) गुलाब सिंह (जेसी-349086एम), 05 मार्च 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) त्रिलोक सिंह (जेसी-349015एल), 26 फरवरी 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) त्रिलोक चंद्र भट्ट (जेसी-349297पी), 02 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) हरीश चंद्र (जेसी-349299ए), 04 अप्रैल 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) पांढरे यशवंत विठोबा (जेसी-349087पी), 03 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सुर्वेसे सुरेश हरीबा (जेसी-349344एफ), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सागरे अरूण रंगराव (जेसी-349357वाई), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) भदाने नानाभाऊ झमरू (जेसी-349395पी), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) प्रदीप कुमार सैनी (जेसी-349352ए), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) पवार अशोक भगवान (जेसी-349369एन), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) वकील मोहम्मद (जेसी-349396एक्स), 10 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) राजेंद्र कुमार अवस्थी (जेसी-349343वाई), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) उन्नीकृष्णा पिल्ले के जी (जेसी-349419एन), 09 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) मानकर शिवाजी मान्गो (जेसी-349370एच), 27 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) प्रताप सिंह (जेसी-349358एफ), 01 मई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) वडुडल है खान (जेसी-349426के), 12 जून 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) चव्हाण हनुमंत भीमराव (जेसी-349405एन), 12 जून 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जय पाल (जेसी-349037के), 08 फरवरी 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) पवार शंकर लक्ष्मण (जेसी-349448एच), 09 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) हरी राम (जेसी-349361एफ), 24 जून 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सोलांकर भागवंत लक्ष्मण (जेसी-349385एल), 14 जून 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) पवार परमेश्वर भागवत (जेसी-349398एच), 23 जून 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) शिंदे सदाशिव पांडुरंग (जेसी-349417एच), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) रूप लाल (जेसी-349469वाई), 01 जुलाई 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) चिंता राम (जेसी-349359के), 25 जून 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) हरेंद्र सिंह (जेसी-349485डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) सुबे सिंह (जेसी-349513एक्स), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) राजाराम सिंह (जेसी-349462ए), 05 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जगबीर सिंह (जेसी-349496एच), 04 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) आर नागा राजन (जेसी-349493पी), 01 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) जनार्धन सिंह (जेसी-349273एल), 13 अगस्त 2008
- नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) पवार महादेव बालासो (जेसी-349032एल), 12 अगस्त 2008

सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जी डी) दिनकर जयराम डोनुक्से (जेसी-349779के),
08 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जी डी) चंद्रकांत संभाजी महस्के (जेसी-349777वाई),
31 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जी डी) गुरमेल सिंह (जेसी-349767पी), 22 मार्च
2008

नायब सूबेदार (जी डी) दुधानिया अशोक कुमार मुलजीभाई
(जेसी-349674ए), 15 मार्च 2008

नायब सूबेदार (जी डी) जरनैल सिंह (जेसी-349734के), 28 मार्च
2008

नायब सूबेदार (जी डी) निकम विलास शंकर (जेसी-349756एच),
07 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जी डी) मोहम्मद अरबी (जेसी-349757एल), 09
अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जी डी) जाधव सयाजीराव माधवराव
(जेसी-349752एम), 15 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जी डी) विरेंद्र सिंह (जेसी-349782के), 16 अप्रैल
2008

नायब सूबेदार (जी डी) बलदेव सिंह (जेसी-349746वाई), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) राजबीर सिंह (जेसी-349818एक्स), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) बुंदे अली खान (जेसी-349769ए), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) मोहिन्दर सिंह (जेसी-349768एक्स), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) शेर मोहम्मद (जेसी-349770पी), 05 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) जाधव हनमंत नारायण (जेसी-349743एल),
01 मई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) पवार बापुसाहेब विष्णु (जेसी-349750एफ),
04 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जी डी) मोहम्मद तवयिब (जेसी-349819ए), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) किफायत अली (जेसी-349772ए), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) घाडगे रविंद्र कुमार दिनकर
(जेसी-349795एफ), 01 मई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) नवीरसुल खान (जेसी-349758एन), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) अमरिक सिंह (जेसी-349755ए), 01 अप्रैल
2008

नायब सूबेदार (जी डी) दिलवेर सिंह (जेसी-349754एक्स), 01 अप्रैल
2008

नायब सूबेदार (जी डी) प्रकाश सी (जेसी-349759डब्ल्यू), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) गोरले राजेंद्र कुमार शेष राव
(जेसी-349783एम), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जी डी) काले उत्तम दामोदर (जेसी-349687एक्स),
21 फरवरी 2008

नायब सूबेदार (जी डी) बागल शिवाजी सर्जे राव (जेसी-349771एक्स),
13 मई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) चंद्रपाल प्रजापती (जेसी-349753पी),
19 मई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) उदयवीर (जेसी-349784पी), 11 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जी डी) एवले अन्नासाहेब कल्लपा (जेसी-349765के),
12 मई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) महावीर सिंह (जेसी-349773एच), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) खोत श्रीमती धोंडीराम (जेसी-349748के),
01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जी डी) सुभाष चंद्र (जेसी-349747एफ), 01 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) महेश सिंह (जेसी-349744एन), 07 मई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) संकटा तिवारी (जेसी-349823एच), 23 जून
2008

नायब सूबेदार (जी डी) सतपाल (जेसी-349808एन), 01 जुलाई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) केसरकर गणपती कोंडीबा (जेसी-349834पी),
01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) मसित खान (जेसी-349829के), 07 जुलाई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) मेहमुद खान (जेसी-349830वाई), 11 जुलाई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) सतविंदर सिंह (जेसी-349831एफ), 07 जुलाई
2008

नायब सूबेदार (जी डी) काकडे सुभाष बाबुराव (जेसी-349838एल),
04 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) अवतार सिंह (जेसी-349800एफ), 03 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) जोगिंदर सिंह (जेसी-349843डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) दादासो तुकाराम माने (जेसी-349842एन), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) सुखविंदर सिंह (जेसी-349835एक्स), 28 जून 2008

नायब सूबेदार (जी डी) रामपाल सिंह (जेसी-349809डब्ल्यू), 18 जून 2008

नायब सूबेदार (जी डी) भंवर लाल (जेसी-349811एन), 07 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) शेर दीन (जेसी-349810एल), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) गुरजंत सिंह (जेसी-349840एच), 03 जुलाई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) कुलविंदर सिंह (जेसी-349899एच), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) खुरशीद अहमद (जेसी-349824एल), 30 जून 2008

नायब सूबेदार (जी डी) अब्दुल कलाम (जेसी-349861वाई), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) यादव हनमंत तुकाराम (जेसी-349816एम), 16 जून 2008

नायब सूबेदार (जी डी) निवृत्ती जनार्धन पाटिल (जेसी-349859एफ), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) पवार दिलीप कृष्णाजी (जेसी-349792एन), 01 मई 2008

नायब सूबेदार (जी डी) जसवीर सिंह (जेसी-349886एल), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) कदम अरूण शंकर (जेसी-349883एक्स), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) मोपारे संजीव हरीवा (जेसी-349880के), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) निकम शशीकांत ज्ञानदेव (जेसी-349860डब्ल्यू), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) करमजीत सिंह (जेसी-349853ए), 09 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) बलबीर सिंह (जेसी-349853ए), 09 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) सुरजीत सिंह (जेसी-349688ए), 29 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (जी डी) पाटिल सुखदेव लक्ष्मण (जेसी-349882पी), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) हरवेल सिंह (जेसी-349885एच), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) घोडके ज्ञानेश्वर यशवंत (जेसी-349865पी), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) जोगिंदर सिंह (जेसी-349864एम), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) अकबर हुसैन (जेसी-349855एल), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) मिटु सिंह (जेसी-349862एफ), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार (जी डी) राज कुमार (जेसी-349881एम), 01 अगस्त 2008

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एस के टी) श्याम करन पांडे (जेसी-349208एल), 03 मई 2008

नायब सूबेदार (एस के टी) अच्छे लाल (जेसी-349169एक्स), 01 मई 2008

सूबेदार (आर टी) के रैंक में

नायब सूबेदार (आर टी) ओंकार सिंह (जेसी-348282ए), 03 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (आर टी) मोहम्मद ईशत्याक अहमद (जेसी-348284एल), 07 अप्रैल 2008

सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

नायब सूबेदार (संगीतकार) लखविंदर सिंह (जेसी-349659एल), 15 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार (संगीतकार) प्रकाश मलहारी यादव (जेसी-349627एच), 10 मई 2008

नायब सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

हवलदार (संगीतकार) बेल बहादुर थापा (सं. 1572013एम अब जेसी-350728एच), 24 जनवरी 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 24 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) एस के महबूब सुभानी (सं. 1586866पी अब जेसी-351022ए), 01 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (एस के टी) एम रविंद्र बाबु (सं. 1586858डब्ल्यू अब जेसी-350985ए), 14 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) सुखविंदर पाल सिंह (सं. 1573111वाई अब जेसी-350988एन), 01 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) चव्हाण बाबु पांडुरंग (सं. 1575910एन अब जेसी-350991एन), 29 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) शंगारा सिंह (सं. 1572745एच अब जेसी-350992डब्ल्यू), 23 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) हरजीवन सिंह (सं. 1574488पी अब जेसी-350993वाई), 10 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) नन्हे खान (सं. 1574490एम अब जेसी-350994एफ), 03 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) इन्डोर वाबाजी बाबुराव (सं. 1568058पी अब जेसी-350997पी), 10 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) नामेवार प्रकाश बाबुराव (सं. 1568089पी अब जेसी-350998एक्स), 11 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) विनोद कुमार (सं. 1572925एल अब जेसी-350999ए), 21 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) गिरधर सिंह (सं. 1575459एम अब जेसी-351000एफ), 15 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) शकील खान (सं. 1575460एफ अब जेसी-351001के), 15 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) हरजिंदर सिंह (सं. 1575691एक्स अब जेसी-351002एम), 08 नवम्बर 2008

हवलदार (जी डी) विरू सिंह (सं. 1575841एच अब जेसी-351003पी), 14 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) कलवधे अम्बादास नागोराव (सं. 1575848एम अब जेसी-351004एक्स), 16 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) राज कुमार (सं. 1576215एल अब जेसी-351005ए), 10 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) जाधव अरूण महादेव (सं. 1576413डब्ल्यू अब जेसी-351006एच), 06 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) विजय बहादुर (सं. 1576536एच अब जेसी-351007एल), 10 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) शुभ राती (सं. 1576791पी अब जेसी-351008एन), 13 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) सुरेंद्र कुमार (सं. 1576999एक्स अब जेसी-351009डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) कदम श्रीपत गणपत (सं. 1577279एच अब जेसी-351010एल), 13 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) मूल चंद (सं. 1568590एफ अब जेसी-351011एन), 10 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) कर्म सिंह (सं. 1568982पी अब जेसी-351015के), 05 नवम्बर 2008

हवलदार (जी डी) अमन उल्ला (सं. 1569964वाई अब जेसी-351016एम), 20 नवम्बर 2008

हवलदार (जी डी) तरविंदर सिंह (सं. 1570198ए अब जेसी-351017पी), 04 नवम्बर 2008

हवलदार (जी डी) गुरदयाल सिंह (सं. 1570144वाई अब जेसी-351018एक्स), 10 नवम्बर 2008

हवलदार (जी डी) बलविंदर सिंह (सं. 1571237ए अब जेसी-351019ए), 13 नवम्बर 2008

हवलदार (जी डी) चमकौर सिंह (सं. 1571451एच अब जेसी-351020पी), 20 नवम्बर 2008

हवलदार (जी डी) अशोक कुमार सक्सेना (सं. 1573810के अब जेसी-351021एक्स), 17 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2008 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) सुश सिंह (सं. 1570100एफ अब जेसी-350951एम), 15 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) हरमेश सिंह (सं. 1572600एक्स अब जेसी-350953एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार (जी डी) परमजीत सिंह (सं. 1573227पी अब जेसी-350954ए), 01 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) अखिल शोख हंशा (सं. 1588890के अब जेसी-350960एन), 26 सितम्बर 2008

हवलदार (जी डी) कंवलजीत सिंह (सं. 1570395एच अब जेसी-350961डब्ल्यू), 08 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) नेजाती दुगले (सं. 1571719पी अब जेसी-350962वाई), 13 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) जसवीर सिंह (सं. 1570067पी अब जेसी-350963एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) प्रताप सिंह (सं. 1574054पी अब जेसी-350964के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) गव्हेने दिगंबर मारुती (सं. 1574144डब्ल्यू अब जेसी-350965एम), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) जीवन केवलराम राने (सं. 1574234एक्स अब जेसी-350966पी), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) प्रेम चंद घोष (सं. 1574276के अब जेसी-350967एक्स), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) मलकीत सिंह (सं. 1574499एफ अब जेसी-350968ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) अवराम सिंह (सं. 1574511एक्स अब जेसी-350969एच), 11 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) मुस्ताक अहमद सिद्धकी (सं. 1574569पी अब जेसी-350970एक्स), 26 सितम्बर 2008

हवलदार (जी डी) गुरमीत सिंह (सं. 1574620के अब जेसी-350971ए), 03 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) चव्हाण बाजीराव धोंडीबा (सं. 1574730वाई अब जेसी-350972एच), 08 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) जरनैल सिंह (सं. 1574803ए अब जेसी-350973एल), 30 सितम्बर 2008

हवलदार (जी डी) बलदेव सिंह (सं. 15747892के अब जेसी-350974एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) खुरशीद अली (सं. 1574949एन अब जेसी-350975डब्ल्यू), 15 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) मोहन लाल (सं. 1575062ए अब जेसी-350976वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) लखविंदर सिंह (सं. 1575078एल अब जेसी-350977एफ), 01 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) हरक सिंह (सं. 1575090एम अब जेसी-350978के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) दीवान सिंह (सं. 1575146एन अब जेसी-350979एम), 06 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (जी डी) राम कुमार सिंह (सं. 1575603डब्ल्यू अब जेसी-350983पी), 13 अक्टूबर 2008

हवलदार (जी डी) कधाने बलीराम ज्ञानबा (सं. 1576525डब्ल्यू अब जेसी-350984एक्स), 15 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी डी) लालू यादवा (सं. 1578417एल अब जेसी-350950के), 04 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) गोकुल सिंह (सं. 1572382के अब जेसी-350952पी), 06 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) राकेश ठाकुर (सं. 1579445के अब जेसी-350955एच), 26 सितम्बर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) संतोष कुमार (सं. 1579448एक्स अब जेसी-350956एल), 19 सितम्बर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) नागने शरद (सं. 1582529एच अब जेसी-350957एन), 05 सितम्बर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) जासुद बापुराव तुकाराम (सं. 1576244ए अब जेसी-350958डब्ल्यू), 26 सितम्बर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) शेक हुसैन साहिब (सं. 1577439एक्स अब जेसी-350959वाई), 18 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) एस लाल बहादुर लौरस (सं. 1579234एफ अब जेसी-350980एफ), 11 अक्टूबर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) रफीक अहमद (सं. 1579266के अब जेसी-350981के), 04 अक्टूबर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) राजेंद्र कुमार शर्मा (सं. 1579550ए अब जेसी-350982एम), 15 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) बिजेंद्र सिंह (सं. 1579290ए अब जेसी-350987एल), 10 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) चंद्र प्रकाश वर्मा (सं. 1577841एफ अब जेसी-350989डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) आर जोधी माधवन (सं. 1579219एफ अब जेसी-350990एल), 15 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) वीर सिंह (सं. 1579694एच अब जेसी-350995के), 24 अक्टूबर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) अवध कुमार सिंह (सं. 1579784के अब जेसी-350996एम), 11 अक्टूबर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) संतोष नागर (सं. 1580121एल अब जेसी-3510125डब्ल्यू), 11 नवम्बर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) होशियार सिंह (सं. 1579245एन अब जेसी-351013वाई), 06 नवम्बर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) विमल कुमार भदौरिया (सं. 1580472ए अब जेसी-351014एफ), 03 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जी डी) अनिल कुमार सिंह (सं. 1580977डब्ल्यू अब जेसी-351023एच), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) वेम्पती भानु प्रसाद (सं. 1581110एल अब जेसी-351024एल), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार (क्लर्क जी डी) प्रताप सिंह महारा (सं. 5930929एच अब जेसी-351025एन), 01 दिसम्बर 2008

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी।)

अल्का जोशी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 180, दिनांक 5 मार्च 2009--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-200084एन), 01 जनवरी 2009

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार श्री कृष्ण सिंह (जेसी-448396ए), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार क्रिसन रमन (जेसी-841200एम), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-143357एन), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार समन सिंह (जेसी-146787एच), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार रामा पति (जेसी-194491एम), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार वी शशीधरन नायर (जेसी-199116एल), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार बस्ती राम यादव (जेसी-210884पी), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार दुलो राम (जेसी-222671एन), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार कृष्णा मोहन राय (जेसी-841208वाई), 01 जनवरी 2009

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

थल सेना विभाग

(एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 181, दिनांक 6 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोरर के रैंक में

बिरसा टेप्पो (सं. 14556843वाई अब जेसी-762898एम), 25 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

चन्दन सिंह भंडारी (सं. 14557769पी अब जेसी-762903एम), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008*

जादव कुमार भीम राव (सं. 14556844एफ अब जेसी-762899पी), 19 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

जोगिन्द्र सिंह (सं. 14556731वाई अब जेसी-762897के), 03 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008*

मदन थियेंग (सं. 14556567एफ अब जेसी-762896एफ), 12 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

महेन्द्र सिंह भन्डारी (सं. 14557159एच अब जेसी-762902के), 06 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008*

राम चंद्र यादव (सं. 14556978ए अब जेसी-762901एफ), 01 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008*

तितलेश प्रसाद सिंह (सं. 14556977एक्स अब जेसी-762900वाई), 21 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

प्रियनाथ परिदा (सं. 14568576पी अब जेसी-762878वाई), 01 सितम्बर 2008/29 जून 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (ए एफ वी) के रैंक में

इन्दल सिंह रावत (सं. 14618352एन अब जेसी-762709एक्स), 08 जुलाई 2008/04 मई 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (एम बी) के रैंक में
जशोधर दास (सं. 14549396एक्स अब जेसी-762904पी), 19 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार फिटर (फील्ड) के रैंक में
दोस्त मोहम्मद खान (सं. 14548149एक्स अब जेसी-762823पी),
10 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक ए वी एफ के रैंक में
कौशल कुमार सिंह (सं. 14618290वाई अब जेसी-762870एम),
01 सितम्बर 2008/01 अक्टूबर 2007*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक ए वी एफ/ई एल एफ के रैंक में
प्रिन्स पी जॉर्ज (सं. 14609228एल अब जेसी-762866के), 01 सितम्बर
2008/01 अक्टूबर 2007*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक ए व्हीकल के रैंक में
बिराजदार धनप्पा निंगप्पा (सं. 14616931एफ अब जेसी-762852के),
20 अगस्त 2008/06 जुलाई 2008*

जय देव सिंह (सं. 14618949डब्ल्यू अब जेसी-762863डब्ल्यू),
26 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

काली पद पैन (सं. 14618512एच अब जेसी-762853एम), 18 अगस्त
2008/22 जून 2008*

नीरज कुमार (सं. 14618094वाई अब जेसी-762860एच), 18 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008*

प्रदीप कुमार दास (सं. 14619034डब्ल्यू अब जेसी-762864वाई),
26 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

विक्रम सिंह (सं. 14618468के अब जेसी-762862एन), 18 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक बी व्हीकल के रैंक में
ओम प्रकाश (सं. 14589294के अब जेसी-762858एल), 09 अगस्त
2008/01 जून 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूटर के रैंक में
नर्साले माखति बलवन्त (सं. 14616922ए अब जेसी-762749वाई),
01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

संजीव कुमार दत्ता (सं. 14576808एक्स अब जेसी-762746एल),
13 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में
अनीष कुमार (सं. 14619238एच अब जेसी-762724एम), 18 अगस्त
2008/01 जून 2008*

अरूण कुमार महापात्रा (सं. 14590298एम अब जेसी-762717डब्ल्यू),
03 जुलाई 2008/01 जून 2008*

बृज पाल (सं. 14600493ए अब जेसी-762833वाई), 21 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008*

गुलाम मोहिनुद्दीन (सं. 14611176वाई अब जेसी-762722एफ),
15 जुलाई 2008/01 जून 2008*

हरे राम मेहता (सं. 14604404एन अब जेसी-762837पी), 18 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008*

मुकेश शुक्ला (सं. 14603533एफ अब जेसी-762836एम), 28 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008*

मुरुगन आर (सं. 14600587वाई अब जेसी-762834एफ), 11 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008*

संतोष कुमार बी (सं. 14618293एम जेसी-762831एन), 11 सितम्बर
2008/13 जुलाई 2008*

सतीश कुमार सी यू (सं. 14604406वाई जेसी-762839ए), 18 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008*

शीश राम (सं. 14602243 एक्स अब जेसी-762830एल), 25 अगस्त
2008/13 जुलाई 2008*

सुकुमार मंडल (सं. 14596981एच अब जेसी-762832डब्ल्यू),
18 अगस्त 2008/05 जून 2008*

सुनील कुमार सिंह (सं. 14604403एल अब जेसी-762838एक्स),
13 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

वी वैकटचलम (सं. 14604803एक्स अब जेसी-762840पी), 16 अगस्त
2008/01 अगस्त 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक आर ओ के रैंक में

जे हरिनाथ रेड्डी (सं. 14618954एफ अब जेसी-762849के),
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008*

कदमनरेश भाई जगदीश (सं. 14618176एफ अब
जेसी-762669एफ), 01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

ओम प्रकाश सिंह (सं. 14618287वाई अब जेसी-762844एल),
11 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

प्रताप सिंह (सं. 14622008ए अब जेसी-762850वाई), 01 सितम्बर
2008/01 सितम्बर 2008*

प्रसान्त कुमार साहू (सं. 14617351वाई अब जेसी-762668वाई),
01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

संजय समद्वार (सं. 14616135वाई अब जेसी-762841एक्स),
18 अगस्त 2008/13 जुलाई 2008*

सतविन्दर सिंह (सं. 14618937एफ अब जेसी-762848एफ), 01 सितम्बर
2008/01 सितम्बर 2008*

वेद पाल सिंह (सं. 14618935डब्ल्यू अब जेसी-762847वाई),
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008*

जिनजुर्दे रमेश विट्टल (सं. 14616578ए अब जेसी-762842ए),
19 अगस्त 2008/22 जून 2008*

हवलदार से नायब सूबेदार ए वी एफ (ए ई एन) के रैंक में

ओम पाल (सं. 14560769ए अब जेसी-762825ए), 15 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

नन्द किशोर कश्मीरा
अवर सचिव

वायु सेना

सं. 182, दिनांक 6 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टाइम स्केल) के रैंक में

उड़ान पायलट शाखा

पी मालाकर (15012), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी, डी के यादव (15562), 30 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

उड़ान नेवीगेटर शाखा

के कुमार (15328), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

ए के सिंघल (14376), ए के जौहरी (14387), सी पी गणपति (14396), वी के कृपाल (14738), आर एनल (14740), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

एस पी सिंह (14970), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

ए ई शाखा

एस के अग्रवाल (15967), 05 जनवरी 2005 से प्रभावी।

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के रैंक में

उड़ान पायलट शाखा

वी चतुर्वेदी (20788), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

शिक्षा विभाग

आई सिंह (18345), ए के श्रीवास्तव (19267), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

ए ई शाखा

वी पी सिंह (21058), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी, आर साहू (22382), 04 अप्रैल 2005 से प्रभावी, पी के बब्बर (20386), 01 जुलाई 2006 से प्रभावी।

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के रैंक में

प्रशासनिक शाखा

पी श्रीधर (21272), दिनांक 01 जुलाई 2005 से प्रभावी।

फ्लाईट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

फ्लाईंग पायलट शाखा

एस चन्द्रा (23186), ए जे मैथ्यूस (23210), के एस लाम्बा (23506), वी सिंह (23508), वी एन अत्री (23509), एम ए जौन सिंह (23512) एम कुमार (23514), के एस डेसवाल (23517), वी मल्होत्रा (23518), वी जे सिंह (23519) एस के कनवर (23520), पी भारद्वाज (23521), आर वी प्रकाश (23523), वी जी जार्ज (23524), के मुखर्जी (23526), ए कुमार (23529), एन महाजन (23530), आर शिवराज (23532), आर बैरी (23533), ए सिंघल (23534), आर एस धालीवाल (23535), ए पुजारी (23526), एम खरे (23537), ए पी सिंह (23538), वी के दुबे (23540), पी अवस्थी (23541), वी ए वैसले (23544), एच कुलश्रेष्ठा (23545), ए मल्होत्रा (23549), जी एस भुटलिया (23551), ए नन्दी (23552), ए कुमार (23553), पी दत्ता (23556), ए गोपीनाथ (23558), एस रे (23560), सी पी द्वेदी (23562), एस मल्लिक (23563), चाई के दक्ष (23565), टी एच जगन्नाथ (23566), एस पंधेकर (23567), ए वी लुले (23568), एफ पी पिन्टो (23569), आर राजेश (23570), जी के पिल्लै (23571), ए गोस्वामी (23572), एस राज (23574), डी ग्रासिएस (23575), टी शर्मा (23728), पी विज (23733), वी एस शौकीन (23734), आर सी पाठक (23746), वी एस राव (23750), ए ए सस्वादकर (23768), एन अस्थाना (23780) एस एम युनुस (23781), आर के दुबे (23789), एस शर्मा (24008), पी शिवराम (25840)*, 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

*18 दिसम्बर 2005 से प्रभावी।

फ्लाईंग नेवीगेटर शाखा

आर कन्नन (23578), वी अवस्थी (23582), वी गोपी कृष्णन (23583), डी सिंह (23584), वी प्रंथी (23585), एल के मुकतेभी (23587), आर एस कृष्णण (23798), टी अग्रवाल (24056), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

प्रशासनिक शाखा

डी शंकर (23048), टी लुकोशे (23049), के के भादुरी (23051), आर एस विष्ट (23052), ए के थावेट (23053), ए भट्ट्याचार्या (23055), आर श्रीनिवासन (23590), एच के पांडे (23592), एम भारद्वाज (23593), पी जे पी एस वारिस (23594), ए सी पांडे (23592), ए सिद्धार्थ (23600), जे सिंह (23602), जी होतचंदानी (23606), ए राय (23617), जे पी पात्रो (23621), एस जी पिस्से (23623), एल एन राघवन (23625), आर आर देशपांडे (23631), जे के पाठक (23637), एस जोशी (23730), आर सिंह (23759), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

मौसम विभाग शाखा

एस टी ननजप्पा (23135), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा	संभारिकी शाखा
एम ए देशपांडे (23633), एस टी नामदयाल (23635), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	आर खरे (27294), 21 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।
ए ई शाखा	एन विजय कुमार विंग कमांडर जेडीपीओ-3(डी)
एस पी एस विर्क (24130), सी एस कृष्णदास (24134), सी दिनकर (24156), जे जार्ज (24122), एन जे एस सोही (24123), आर के शुक्ला (24125), पी अंगदी (24126), एम एस हरीष (24129), वी के पुरोषोत्तम (24145), जी ए कुमार (25428), एस शर्मा (25436), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	-----
फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्ववाङ्गन लीडर के पद पर	सं. 183, दिनांक 6 मार्च 2009--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री एस एम पाठक की अधिवर्षिता की आयु होने पर उन्हें 28 फरवरी, 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।
प्रशासनिक शाखा	के. मुरली अवर सचिव
पी श्रीधर (21272), 10 अप्रैल 2002 से प्रभावी।	-----
एम ए रहीम (24354), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	(सेना शाखा)
फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्ववाङ्गन लीडर के मूल रैंक में	सं. 184, दिनांक 6 मार्च 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा निवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :--
अल्पकालीन सेवा कमीशन	प्रादेशिक सेना
शिक्षा शाखा	सेवा निवृत्त
एम राजपूत (23647), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	मेजर अवदेश पाण्डेय (टीए-41942), इंजीनियर टीए, 31 जुलाई 2008 (ए एन)
फ्लाइंग अफसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक में	ले. कर्नल एस वी सिंह (टीए-41980), (इंजीनियर टीए), 30 नवम्बर 2008 (ए एन)
लेखा शाखा	जय राज अवर सचिव
एस हंस (27045), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	-----
संभारिकी शाखा	सं. 185, दिनांक 9 मार्च 2008--
वी कुमार (27269), 21 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	नियमित सेना
ए ई शाखा	स्थायी कमीशन
एस सिन्हा (26857), एच पी कोठारी (27388), पी चन्द्राशेखर (27938), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	संशोधन
अल्पकालीन सेवा कमीशन	भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के दिनांक 25 अक्टूबर 2008 के राजपत्र अधिसूचना में क्रम संख्या 44 विषय नियमित सेना (अल्प सेवा कमीशन) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।
फ्लाइंग अफसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक में	एस एस-40387 (आईसी-65977ए) राजेश मधवानी के स्थान पर रिक्त स्थान पड़ा जाए।
प्रशासनिक शाखा	वी एस रानडे कर्नल कर्नल एम एस-7
टी वी गोपालाकृष्ण (27099), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी। पी के घुमान (27283), 21 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	
लेखा शाखा	
शांतू गौतम (26623), 16 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।	

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January, 2009

No. 10—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “**Param Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:-

1. IC-19391 LIEUTENANT GENERAL BALDEV SINGH PAWAR, AVSM, REGIMENT OF ARTILLERY (RETIRED)
2. IC-19422 LIEUTENANT GENERAL RAMA RANJAN GOSWAMI, CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
3. IC-23011 LIEUTENANT GENERAL ISAC JOHN KOSHY, AVSM, REGIMENT OF ARTILLERY
4. IC-23276 LIEUTENANT GENERAL NOBLE THAMBURAJ, SM, CORPS OF ENGINEERS
5. IC-23291 LIEUTENANT GENERAL JAYANTA KUMAR MOHANTY, UYSM, SM, VSM, INFANTRY
6. IC-23302 LIEUTENANT GENERAL TEJ KUMAR SAPRU, YSM, INFANTRY
7. IC-23928 LIEUTENANT GENERAL RAJENDER SINGH SM, VSM, INFANTRY
8. IC-24173 LIEUTENANT GENERAL VIJAY KUMAR SINGH, AVSM, YSM, INFANTRY
9. IC-24178 LIEUTENANT GENERAL PRABODH CHANDRA BHARDWAJ, AVSM, V_rC, SC, VSM, INFANTRY
10. IC-24208 LIEUTENANT GENERAL AMARJEET SINGH SEKHON, AVSM, YSM, INFANTRY
11. IC-24255 LIEUTENANT GENERAL AMAR NATH AUL, UYSM, AVSM, INFANTRY
12. IC-24604 LIEUTENANT GENERAL DIGAMBAR SINGH BARTWAL, INFANTRY
13. IC-24611 LIEUTENANT GENERAL AVADHESH PRAKASH, AVSM, VSM, INFANTRY
14. IC-24810 LIEUTENANT GENERAL RAKESH KUMAR GUPTA, ARMY SERVICE CORPS
15. IC-28805 LIEUTENANT GENERAL KULWANT SINGH DOGRA, AVSM*, VSM, ARMY AIR DEFENCE (RETIRED)
16. IC-32703 LIEUTENANT GENERAL KRISHNA PILLAI SANKARANARAYANA PILLAI VENUGOPAL, AVSM, ELECTRONIC AND MECHANICAL ENGINEERING (RETIRED)
17. MR-02475 LIEUTENANT GENERAL YOGENDRA SINGH, VSM, ARMY MEDICAL CORPS

18. MR-02669 LIEUTENANT GENERAL JAYAKRISHNAN JAYARAM, AVSM, ARMY MEDICAL CORPS
19. V-00321 LIEUTENANT GENERAL NARAYAN MOHANTY, AVSM, VSM, REMOUNT AND VETERINARY CORPS (RETIRED)
20. VICE ADMIRAL RAMAN PREM SUTHAN, AVSM, VSM, (01137-H)
21. VICE ADMIRAL SUNIL KRISHNAJI DAMLE, AVSM, NM, VSM, (01168-B)
22. VICE ADMIRAL BRIJ KRISHNA KAUL, AVSM, (50272-B) (RETD)
23. VICE ADMIRAL RUSTOM FARAMROZE CONTRACTOR, AVSM, NM, (01224-F) (RETD)
24. AIR MARSHAL KANWAR DALINDERJIT SINGH, AVSM ADC (12403) FLYING (PILOT)
25. AIR MARSHAL SADASIVAN RADHAKRISHNAN AVSM (12408), FLYING (PILOT)
26. AIR MARSHAL VINOD KUMAR VERMA, AVSM, VM, VSM (11638) FLYING (PILOT) (RETIRED)
27. AIR MARSHAL SHIV KUMAR BHAN, AVSM, VM (12510) FLYING (PILOT)
28. AIR MARSHAL GAUTAM NAYYAR, VSM (13024), AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
29. AIR MARSHAL SURESH CHAND MUKUL, AVSM, VM, VSM (12930) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 11-Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Uttam Yuddh Seva Medal” to the undermentioned personnel for the distinguished service of a high order during hostilities:

1. IC-27258 MAJOR GENERAL RAJINDER SINGH, SM, MECH INFANTRY / HQ COUNTER INSURGENCY FORCE (KILO)
2. IC-27979 MAJOR GENERAL JATINDER SINGH BAJWA, SM, INFANTRY / HQ 28 INFANTRY DIVISION

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 12—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Bar to Afi Vishisht Seva Medal” to IC-24584 Lieutenant General Baljit Singh Jaswal, AVSM, VSM, Infantry / HQ 4 Corps for distinguished service of an exceptional order:

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 13—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Afi Vishisht Seva Medal” to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:-

1. IC-19401 LIEUTENANT GENERAL YATINDRA SINGH PANWAR, VSM, CORPS OF SIGNALS / MCTE, MHOW
2. IC-23665 LIEUTENANT GENERAL ARUN KUMAR NANDA, CORPS OF ENGINEERS/HQ DGBR
3. IC-23801 LIEUTENANT GENERAL ANIL KUMAR LAMBA, VSM, REGIMENT OF ARTILLERY
4. IC-24652 LIEUTENANT GENERAL RAJ KUMAR KARWAL, SM*, VSM, INFANTRY / HQ 16 CORPS
5. IC-24656 LIEUTENANT GENERAL PRADEEP KHANNA, VSM, ARMOURED CORPS / HQ 21 CORPS
6. IC-25064 LIEUTENANT GENERAL SHREEDHARAN SHYAM KUMAR, SM, VSM, INFANTRY / HQ 11 CORPS
7. IC-25189 LIEUTENANT GENERAL GAUTAM BANERJEE, YSM, CORPS OF ENGINEERS / HQ CENTRAL COMMAND
8. IC-24283 LIEUTENANT GENERAL RAKESH KUMAR LOOMBA, ARMOURED CORPS / ARMY WAR COLLEGE, MHOW
9. IC-25434 LIEUTENANT GENERAL SHANKAR RANJAN GHOSH, SM, INFANTRY
10. IC-25562 LIEUTENANT GENERAL PARTHA MOHAPATRA, CORPS OF SIGNALS
11. IC-32844 LIEUTENANT GENERAL RAM PRATAP, VSM, ARMY AIR DEFENCE / ARMY AIR DEFENCE COLLEGE
12. IC-24749 MAJOR GENERAL PRAVEEN CHANDRA KHARBANDA, SM, REGIMENT OF ARTILLERY / HQ SFC
13. IC-25847 MAJOR GENERAL SURENDRA PRATAP RAI, INFANTRY
14. IC-27265 MAJOR GENERAL BALAKRISHNAN VENUGOPAL NAIR, REGIMENT OF ARTILLERY
15. IC-27321 MAJOR GENERAL KANWAL JIT SINGH OBEROI, SM, INFANTRY/ HQ DELHI AREA

16. IC-27606 MAJOR GENERAL AJAY KUMAR SINGH, SM, VSM, ARMOURED CORPS
17. IC-27608 MAJOR GENERAL RAM KANWAR HOODA, INFANTRY / HQ MG&G AREA
18. IC-27778 MAJOR GENERAL JAGBIR SINGH KUNDU, REGIMENT OF ARTILLERY
19. IC-27782 MAJOR GENERAL PANEMANGALORE GOPALAKRISHNA KAMATH, YSM, SM, INFANTRY / HQ 11 INFANTRY DIVISION
20. IC-27793 MAJOR GENERAL JATINDER SINGH, SM, INFANTRY / HQ 2 MOUNTAIN DIVISION
21. IC-27990 MAJOR GENERAL MUNISH SIBAL, INFANTRY / HQ 7 INFANTRY DIVISION
22. IC-30053 MAJOR GENERAL RAJIV KUMAR KALRA, ARMY AIR DEFENCE
23. IC-30109 MAJOR GENERAL VINOD KUMAR TIWARI, REGIMENT OF ARTILLERY
24. IC-30353 MAJOR GENERAL SYED ATA HASNAIN, SM, VSM*, INFANTRY / HQ 19 INFANTRY DIVISION
25. IC-30503 MAJOR GENERAL JAI PRAKASH NEHRA, INFANTRY/ HQ IGAR (N)
26. IC-30612 MAJOR GENERAL SANKARAPILLA SARACHANDRAN NAIR, ARMY EDUCATION CORPS
27. IC-30708 MAJOR GENERAL ASHOK KUMAR CHOUDHARY, SM; VSM, INFANTRY/ HQ DGAR (S)
28. IC-31016 MAJOR GENERAL SUBRAHMANYAM SUNDER, ARMY AIR DEFENCE
29. MR-03434 MAJOR GENERAL HIRA LAL KAKRIA, VSM*, ARMY MEDICAL CORPS / COMMAND HOSPITAL, HQ SOUTHERN COMMAND
30. MR-03436 MAJOR GENERAL CHARANJIT SINGH, VSM, ARMY MEDICAL CORPS / HQ WESTERN COMMAND
31. IC-27994 MAJ GEN PALVINDER SINGH BHALLA, ARMOURED CORPS / HQ 20 MOUNTAIN DIVISION
32. SURGEON VICE ADMIRAL VASANT SHRIPADARAO DIXIT, VSM (75150-W)
33. VICE ADMIRAL KANNAN BHAGAVATHESWARAN, VSM, (50431-R)
34. REAR ADMIRAL BOLA RADHAKRISHNA RAO, NM, VSM, (01249-N)
35. REAR ADMIRAL AYALUR RAMAN RADHAKRISHNAN, (01515-T)
36. REAR ADMIRAL M P MURALIDHARAN, NM, (01587-F)
37. REAR ADMIRAL K C SEKHAR, VSM, (40445-K) (RETD)

38. REAR ADMIRAL MOHINDER KUMAR BADHWAR, VSM, (40474-K)
39. AIR VICE MARSHAL JASBIR SINGH PANESAR VM (13370),
FLYING (PILOT)
40. AIR VICE MARSHAL SAPAN KUMAR KARMAKER VM (13379)
FLYING (PILOT)
41. AIR VICE MARSHAL SHYAM BIHARI BAJPAYEE (13531),
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
42. AIR VICE MARSHAL BALDEV SINGH VSM (13683) ACCOUNTS
43. AIR VICE MARSHAL BELLIGUND KRISHNAMURTHY MURALI
VSM (13728) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
44. AIR VICE MARSHAL ARUP RAHA VM (13910) FLYING (PILOT)
45. AIR VICE MARSHAL MUTHUMANICKAM MATHESWARAN VM
(14104) FLYING (PILOT)
46. AIR VICE MARSHAL PARAMJIT SINGH GILL VM (14097) FLYING
(PILOT)
47. AIR COMMODORE GUDIPUDI RAJENDRA PRASAD VSM (13236)
ADMINISTRATIVE
48. AIR COMMODORE VINOD KUMAR NARANG (14326),
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
49. AIR COMMODORE RAO BIRADAVOLU KESHAV (14450) MEDICAL
50. AIR COMMODORE SUNEEL SHRIPAD SOMAN VM (14681) FLYING
(PILOT)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 14—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Yuddh Seva Medal” to the undermentioned personnel for the distinguished service of a high order during hostilities:

1. IC-35471 BRIGADIER BIPIN RAWAT, SM, VSM, 11 GORKHA
RIFLES / HQ 5 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
2. IC-35494 BRIGADIER SUBRATA SAHA, VSM*, ASSAM REGIMENT
/ HQ 268 INFANTRY BRIGADE
3. IC-35626 BRIGADIER UMESH KUMAR GURUNG
SIKH REGIMENT / HQ 81 MOUNTAIN BRIGADE
4. IC-37211 BRIGADIER DEVINDER SINGH DADWAL, SM, SIKH
REGIMENT / HQ 73 MOUNTAIN BRIGADE
5. IC-47053 COLONEL MOHAN SINGH SHEKHAWAT, SM
KUMAON REGIMENT / 50 RASHTRIYA RIFLES

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 15—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-24631 MAJOR GENERAL UMANG KAPOOR, VSM, ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING/HQ DRDO
2. IC-38024 BRIGADIER LAIPHARKAPAM NISHIKANTA SINGH, VSM, INTELLIGENCE CORPS / HQ EASTERN COMMAND

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 16—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “**Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-25833 LIEUTENANT GENERAL GOVINDA MOHAN NAIR, SM, INFANTRY
2. IC-25511 MAJOR GENERAL BRAJESH KUMAR, CORPS OF ENGINEERS
3. IC-25824 MAJOR GENERAL DHRUV CHAND KATOCH, SM, INFANTRY/HQ 10 CORPS
4. IC-27289 MAJOR GENERAL AJIT HARI GADRE ARMY AVIATION CORPS
5. IC-27616 MAJOR GENERAL KONGARA SURENDRA NATH MECH INFANTRY
6. IC-27767 MAJOR GENERAL PRADEEP BHALLA ARMY ORDNANCE CORPS / HQ EASTERN COMMAND
7. IC-27967 MAJOR GENERAL SURINDER PAL SINGH REGIMENT OF ARTILLERY
8. IC-30052 MAJOR GENERAL BRIJINDER SINGH DAULTA INFANTRY/ HQ 16 INFANTRY DIVISION
9. IC-30056 MAJOR GENERAL TAPAN KUMAR DAS, CORPS OF SIGNALS
10. IC-30278 MAJOR GENERAL DHARAM VEER KALRA CORPS OF SIGNALS
11. IC-30683 MAJOR GENERAL RAMESHWAR YADAV INFANTRY / HQ 22 INFANTRY DIVISION
12. IC-34912 MAJOR GENERAL VINOD KUMAR SHARMA ARMY SERVICE CORPS
13. MR-03029 MAJOR GENERAL MAHAVIR SINGH ARMY MEDICAL CORPS

14. IC-31052 MAJOR GENERAL SHAKTI GURUNG
GRENADIERS/HQ IDS
15. IC-27247 BRIGADIER VIKRAM GOSWAMI
GARHWAL RIFLES/HQ IDS
16. IC-30374 BRIGADIER NAGENDAR SINGH, RAJPUTANA RIFLES
17. IC-31155 BRIGADIER DEEPAK GOVIND BHAT,
REGIMENT OF ARTILLERY
18. IC-31324 BRIGADIER KOTHENETH SURENDRANATH, SM,
ARMOURED CORPS / HQ NORTHERN COMMAND
19. IC-33984 BRIGADIER JASWANT SINGH YADAV,
JUDGE ADVOCATE GENERAL'S DEPARTMENT
20. IC-34048 BRIGADIER GV SATYANARAYANA
5 GORKHA RIFLES (FRONTINER FORCE) / HQ 15 CORPS
21. IC-34256 BRIGADIER NETAR PRAKASH SHARMA
CORPS OF SIGNALS (RETIRED)
22. IC-34890 BRIGADIER SRINIVASAN LAKSHMI NARASIMHAN,
MADRAS REGIMENT / HQ 63 MOUNTAIN BRIGADE
23. IC-35153 BRIGADIER DEVENDRA KUMAR PUROHIT, SM,
MAHAR REGIMENT / HQ 15 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
24. IC-35249 BRIGADIER GURJEET SINGH CHIMA,
ARMOURED CORPS / HQ 340 (INDEPENDENT) MECHANISED
BRIGADE
25. IC-35261 BRIGADIER PRABHAKARAN NAIR KANATHIL
NARAYANAN, SM, BIHAR REGIMENT / HQ 36 SECTOR
26. IC-35479 BRIGADIER BALWANT SINGH NEGI, YSM,
ASSAM REGIMENT / HQ 92 INFANTRY BRIGADE
27. IC-35486 BRIGADIER SUBASH CHANDER RANGI,
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / HQ 121
(INDEPENDENT) INFANTRY BRIGADE GROUP
28. IC-35602 BRIGADIER ASHOK BHIM SHIVANE,
ARMOURED CORPS / HQ 4 (INDEPENDENT) ARMOURED BRIGADE
29. IC-35731 BRIGADIER ASTHANA SHASHI BHUSHAN, SM,
ASSAM REGIMENT / HQ 21 SECTOR ASSAM RIFLES
30. IC-35800 BRIGADIER PURAN CHAND JAGIA
ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING / 506 ARMY BASE
WORKSHOP
31. IC-37096 BRIGADIER ARUN GUPTA
PUNJAB REGIMENT / HQ 107 MOUNTAIN BRIGADE
32. IC-37204 BRIGADIER BINOY POONNEN,
MAHAR REGIMENT / HQ 181 MOUNTAIN BRIGADE
33. IC-37223 BRIGADIER AVINASH CHANDER,
DOGRA REGIMENT / HQ 86 INFANTRY BRIGADE
34. IC-38013 BRIGADIER VINOD KUMAR PILLAI,
GUARDS / HQ 112 MOUNTAIN BRIGADE

35. IC-39826 BRIGADIER TARLOCHAN SINGH SIDANA,
CORPS OF ENGINEERS / CE CHENNAI ZONE
36. MR-03722 BRIGADIER PARAMJIT SINGH DHOT,
ARMY MEDICAL CORPS / COMMAND HOSPITAL, HQ CENTRAL
COMMAND
37. SL-02649 BRIGADIER ASHOK RATHORE,
ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS / ARMY INSTITUTE OF
PHYSICAL TRAINING & DEPOT
38. SL-02790 BRIGADIER VENUGOPAL MN, GENERAL SERVICE
39. IC-31532 BRIGADIER GOVIND SINGH SISODIA,
SIKH REGIMENT / HQ NATIONAL SECURITY GUARD
40. IC-37682 COLONEL HARPREET SINGH BEDI,
REGIMENT OF ARTILLERY
41. IC-37892 COLONEL ASHWINI KUMAR,
ARMY AVIATION CORPS / 666 ARMY AVIATION SQUADRON (R&O)
42. IC-38660 COLONEL GOPAL SINGH,
PARACHUTE REGIMENT / 3 DELHI GIRLS BATTALION
NATIONAL CADET CORPS
43. IC-39572 COLONEL SAJIV JETLEY, RAJPUT REGIMENT
44. IC-40133 COLONEL SANJAY CHRISTOPHER MESTON, MAHAR
REGIMENT
45. IC-40314 COLONEL CHANDI PRASAD MOHANTI,
RAJPUT REGIMENT
46. IC-40760 COLONEL VADLAMANI SHANMUKHAL SREENIVAS,
GARHWAL RIFLES
47. IC-41091 COLONEL SHASHANK SHEKHAR MISHRA,
KUMAON REGIMENT
48. IC-41102 COLONEL JARKEN GAMLIN, SM, 8 GORKHA RIFLES
49. IC-41470 COLONEL VIRENDRA SINGH, MADRAS REGIMENT
50. IC-42004 COLONEL RANA PRATAP KALITA, KUMAON REGIMENT
51. IC-43394 COLONEL SANDEEP MISRA,
CORPS OF ENGINEERS / COLLEGE OF MILITARY ENGINEERING,
PUNE
52. IC-43687 COLONEL VIVEK SHARMA
JAT REGIMENT/5 RASHTRIYA RIFLES
53. IC-44506 COLONEL RANDEEP SINGH DADWAL
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 31 ASSAM RIFLES
54. IC-45200 COLONEL RAJINDER KUMAR
JUDGE ADVOCATE GENERAL'S DEPARTMENT

55. IC-45579 COLONEL ANIL ERNEST JAMES,
MAHAR REGIMENT / 1 RASHTRIYA RIFLES
56. IC-46148 COLONEL MANOJ KUMAR,
REGIMENT OF ARTILLERY/3351 MISSILE REGIMENT
57. IC-47112 COLONEL JITENDRA SINGH SHEKHAWAT, SC,
21 JAT REGIMENT
58. IC-47133 COLONEL AVINASH SINGH BERAR,
GUARDS / HQ MG & G AREA
59. IC-47150 COLONEL PANKAJ SINGH, 3/11 GORKHA RIFLES
60. IC-47247 COLONEL PEEYUSH PANDEY, 16 SIKH REGIMENT
61. IC-47576 COLONEL MUKESH CHADHA, ARMY SERVICE CORPS
62. IC-47599 COLONEL RAMINDER SINGH GURAYA
17 MADRAS REGIMENT
63. IC-47701 COLONEL VIKAS SAINI, SM,
PARACHUTE REGIMENT / 24 ASSAM RIFLES
64. IC-48045 COLONEL PAWAN DEEP SINGH CHADHA,
270 ENGINEER REGIMENT
65. IC-49025 COLONEL RAJESH KUMAR, SM,
RAJPUT REGIMENT / 58 RASHTRIYA RIFLES
66. MR-03988 COLONEL HARJINDER SINGH BHATOE,
ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH &
REFERRAL)
67. MR-04049 COLONEL PAWAN KAPOOR,
ARMY MEDICAL CORPS/DGAFMS
68. MR-04173 COLONEL COIMBATORE SIVASUBRAMANIAN
NARAYANAN,
ARMY MEDICAL CORPS / BASE HOSPITAL, DELHI CANTONMENT
69. MR-04328 COLONEL BILIGERI NARAYANA BHAT MAHAVEERA
PRASAD, SM, ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL
(RESEARCH & REFERRAL)
70. MR-04893 COLONEL VINEY JETLEY, ARMY MEDICAL CORPS /
ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
71. MR-05352 COLONEL RICHARD TREAVOR DRAPER,
ARMY MEDICAL CORPS / MILITARY HOSPITAL, WELLINGTON
72. MR-05435 COLONEL RAJ KUMAR SHARMA, ARMY MEDICAL
CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH & REFERRAL)
73. IC-35942 COLONEL BALRAJ SINGH RATHEE,
DOGRA REGIMENT / HQ NATIONAL SECURITY GUARD
74. IC-50116 LIEUTENANT COLONEL NEEL KAMAL, SM,
ARMY SERVICE CORPS

75. IC-54684 LIEUTENANT COLONEL SANJAY SINGH,
63 ENGINEER REGIMENT
76. 9927425 HAVILDAR ANGCHOK DORJI, 5 LADAKH SCOUTS
77. REAR ADMIRAL ASHOK V SUBHEDAR, (40735-B)
78. COMMODORE ARJUN SINGH BHATYAL, NM (01520-B)
79. COMMODORE RAVINDER PAL SINGH RAVI (01621-H)
80. COMMODORE ANANDAMOY GHOSAL (01691-T)
81. COMMODORE JAYWANT KUMAR KORDE, (01912-W)
82. COMMODORE RAJIV GIROTRA, (01911-T)
83. COMMODORE K JYOTHISH KUMAR, (02548-R)
84. COMMODORE ASHOK KUMAR KHETAN, (40818-T)
85. COMMODORE HOMIPAL SINGH, (40998-A)
86. COMMODORE ATUL KUMAR JAIN, (02459-N)
87. CAPTAIN AMULPREET SINGH SETHI, (50811-B)
88. CAPTAIN UMESH KUMAR THAPA, (01570-T)
89. COMMANDER NUGGEHALLI RAJU GIRISH, (41391-W)
90. SURGEON COMMANDER SUBHASH RANJAN, (75498-K)
91. GIRDHARI LAL YADAV, MSCPO I, (165347-R)
92. GAJ RAJ SINGH, MCPO II CD I, (161145-R)
93. AIR COMMODORE ARUN KUMAR SINGH (14616)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
94. AIR COMMODORE NAGINDER MOHAN VAISHNAVI (14822)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
95. AIR COMMODORE PACKIRISWAMY KANAKARAJ (15066),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
96. AIR COMMODORE SUDHINDRA VENKATRAO MUTALIK (16275)
EDUCATION
97. AIR COMMODORE NASEEM AKHTAR, SC (14279) FLYING (PILOT)
98. AIR COMMODORE RAKESH MARWAHA (15865) FLYING (PILOT)
99. AIR COMMODORE NEERAJ YADAV, VM (16399) FLYING (PILOT)
100. GROUP CAPTAIN PRABHAKAR RAGHAV (15334) ADMINISTRATIVE
101. GROUP CAPTAIN JOSEPH PAUL (15370) ACCOUNTS
102. GROUP CAPTAIN PRADEEP KHARBANDA (15674) MEDICAL
103. GROUP CAPTAIN AVINASH NARAYANRAO KULKARNI (16155),
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
104. GROUP CAPTAIN GANESH CHAND (16214) FLYING (PILOT)
105. GROUP CAPTAIN AHIN KUMAR PATRA (16263)
ADMINISTRATIVE/FIGHTER CONTROLLER
106. GROUP CAPTAIN ODUNGHAT EASHWARDAS MOHAN MENON
(16422) ADMINISTRATIVE
107. GROUP CAPTAIN SHASHANK KULKARNI (16929)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

108. GROUP CAPTAIN SURESH SINGH (16941) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
109. GROUP CAPTAIN KP UNNI KRISHNAN NAIR (17023) FLYING (NAVIGATOR)
110. GROUP CAPTAIN MANNEPALLI BALADITYA (17230) LOGISTICS
111. GROUP CAPTAIN MOHAN RAO VM (17343) FLYING (PILOT)
112. GROUP CAPTAIN VIKRAM SINGH (17699) FLYING (PILOT)
113. GROUP CAPTAIN SATTARU BHANOJI RAO (18243), AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
114. WING COMMANDER CHERUKURI VENKATA RANGA RAMA SUDHIR (18531), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
115. WING COMMANDER MANOJ KUMAR (19063) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
116. WING COMMANDER MAN SINGH AWANA (19153) FLYING (PILOT)
117. WING COMMANDER SANDEEP RAWAT (19490) LOGISTICS
118. WING COMMANDER JAGJEET SINGH BHALLA (20186), ADMINISTRATIVE/LEGAL
119. WING COMMANDER AJAY DEVIDAS PURANDARE (21526) FLYING (PILOT)
120. COLONEL DM PURVIMATH (IC - 48507) ENGINEERS
121. 671484 WARRANT OFFICER ARVIND KUMAR SHARMA , CLERK GENERAL DUTY
122. GO-2405K RAGHVENDRA KUMAR GARG, EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL) BORDER ROAD ORGANISATION

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 17–Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Bar to Sena Medal/Army Medal” to IC-62699 Major Vipin Kumar Singh, SM, Grenadiers / 55 Rashtriya Rifles for the acts of exceptional courage.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 18—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-49071 COLONEL SIDDHARTH TEWARI,
KUMAON REGIMENT / 13 RASHTRIYA RIFLES
2. IC-50355 COLONEL SANTHA KUMARAN PA,
ASSAM REGIMENT / 42 RASHTRIYA RIFLES
3. IC-50386 COLONEL SANJEEV KUMAR DUTTA,
4 KUMAON REGIMENT
4. IC-46819 LIEUTENANT COLONEL GURVINDER SINGH,
2 BIHAR REGIMENT
5. IC-49594 LIEUTENANT COLONEL PATWARDHAN SAGAR
VINAYKUMAR,
JAT REGIMENT / 45 RASHTRIYA RIFLES
6. IC-52748 LIEUTENANT COLONEL ANIL MAHADEV KAKADE,
KUMAON REGIMENT / 26 RASHTRIYA RIFLES
7. IC-54483 MAJOR SUDHANSHU DIXIT,
ARMOURED REGIMENT / 21 ASSAM RIFLES
8. IC-54494 MAJOR PADMANABHAN KE,
ARMY AVIATION / 666 ARMY AVIATION SQUADRON (R&O)
(POSTHUMOUS)
9. IC-56676 MAJOR DEVINDER CHAUDHARY,
ARMY SERVICE CORPS / 29 RASHTRIYA RIFLES
10. IC-57385 MAJOR HITESH KUMAR DHANKHAR,
10 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
11. IC-58294 MAJOR SUNIL GANAPATHY,
ARMY AVIATION / 666 ARMY AVIATION SQNADRON (R&O)
(POSTHUMOUS)
12. IC-58904 MAJOR SUDHIR KHANDKA, 7/11 GORKHA RIFLES
13. IC-59042 MAJOR BIRANCHI NARAYAN NAYAK,
MADRAS REGIMENT / 32 ASSAM RIFLES
14. IC-59417 MAJOR AMIT KUMAR,
DOGRA REGIMENT / 20 RASHTRIYA RIFLES
15. IC-59931 MAJOR SURESH NARAYANAN,
RAJPUT REGIMENT / 4 ASSAM RIFLES
16. IC-61480 MAJOR KARTIKEYA KUKRETY,
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES

17. IC-61800 MAJOR GAURAV SINGH, SHAURYA CHAKRA,
4 KUMAON REGIMENT
18. IC-62268 MAJOR R SENTHIL VELAN,
JAT REGIMENT / 45 RASHTRIYA RIFLES
19. IC-63047 MAJOR LOKANADHAM G V,
REGIMENT OF ARTILLERY / 21 ASSAM RIFLES
20. IC-65141 MAJOR JAGDEEP BHOGAL,
10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
21. IC-65695 MAJOR BHANU PRATAP SINGH,
RAJPUTANA RIFLES / 43 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
22. IC-66833 MAJOR PANKAJ KUMAR, 14 BIHAR REGIMENT
23. SS-38946 MAJOR AMIT PAL SINGH,
GUARDS / 5 RASHTRIYA RIFLES
24. SS-40011 MAJOR RAM DAYAL VYAS,
REGIMENT OF ARTILLERY / 32 ASSAM RIFLES
25. SS-40343 MAJOR BANDARU ANOOP,
REGIMENT OF ARTILLERY / 316 FIELD REGIMENT
26. IC-55877 MAJOR SANJAY KANDWAL,
KUMAON REGIMENT / 51 SPECIAL ACTION GROUP
27. IC-60971 MAJOR MANISH MEHROTRA,
PUNJAB REGIMENT / 51 SPECIAL ACTION GROUP
28. IC-64429 CAPTAIN JAYANT PATTANAİK, 4 KUMAON REGIMENT
29. IC-67347 CAPTAIN PRABHMEET S MANİK,
CORPS OF SIGNALS / 26 RASHTRIYA RIFLES
30. IC-67778 CAPTAIN MANISH SOBTI, ELECTRICAL AND
MECHANICAL ENGINEERING/22 RAJPUT REGIMENT
31. IC-67796 CAPTAIN AVEG GOEL, ELECTRICAL AND MECHANICAL
ENGINEERING/21 JAT REGIMENT
32. IC-68364 CAPTAIN ABHISHEK BAHL, 16 JAT REGIMENT
33. SS-40284 CAPTAIN ASHOK BHANDARI,
2 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
34. SS-40974 CAPTAIN KUNWAR SAURABH SINGH BIST,
3 KUMAON REGIMENT
35. IC-68318 LIEUTENANT NALLASIVAM RAVI KUMAR,
ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING / 4 SIKH LIGHT
INFANTRY
36. IC-68558 LIEUTENANT PUSHP RAJ PANDEY,
ARMY ORDNANCE CORPS / 4 SIKH LIGHT INFANTRY

37. IC-69120 LIEUTENANT ISHWAR SINGH RAWAT, 16 JAT REGIMENT
38. JC-489783 SUBEDAR RANBIR SINGH, 16 JAT REGIMENT
(POSTHUMOUS)
39. JC-548841 SUBEDAR KHOGENDRA SINGHA, 1 ASSAM REGIMENT
40. JC-412991 NAIB SUBEDAR SALUNKHE ARUN NANA,
2 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
41. JC-479857 NAIB SUBEDAR SHIV CHARAN SINGH GURJAR,
RAJPUT REGIMENT / 58 RASHTRIYA RIFLES
42. JC-490078 NAIB SUBEDAR JAIBAG SINGH, 16 JAT REGIMENT
43. JC-490212 NAIB SUBEDAR KRISHAN KUMAR,
16 JAT REGIMENT (POSTHUMOUS)
44. 3184629 HAVILDAR RAM CHANDRA, JAT REGIMENT/34
RASHTRIYA RIFLES
45. 3991914 HAVILDAR PAWAN KUMAR,
DOGRA REGIMENT / 31 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
46. 4471952 HAVILDAR AVTAR SINGH, 4 SIKH LIGHT INFANTRY
47. 9089333 HAVILDAR SUKHRIB SINGH,
8 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
48. 13620696 HAVILDAR BHANWAR SINGH,
10 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) (POSTHUMOUS)
49. 15118881 HAVILDAR SAHAB SINGH,
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT (POSTHUMOUS)
50. G/0110415 HAVILDAR DIWAN SINGH, 1 ASSAM RIFLES
51. G/2401091 HAVILDAR ANAND SINGH, 24 ASSAM RIFLES
52. G/3200470 HAVILDAR ILYAS ALI, 32 ASSAM RIFLES
53. 2597376 HAVILDAR K MURUGAN,
MADRAS REGIMENT / 51 SPECIAL ACTION GROUP
54. 2888341 HAVILDAR AZAD SINGH,
RAJPUTANA RIFLES / 52 SPECIAL ACTION GROUP
55. 4184494 LANCE HAVILDAR BACHCHE LAL YADAV,
4 KUMAON REGIMENT
56. 4362770 LANCE HAVILDAR W ARUN SINGH, 1 ASSAM REGIMENT
57. 13695775 LANCE HAVILDAR RAKESH KUMAR,
BRIGADE OF THE GUARDS / 21 RASHTRIYA RIFLES
58. 4077749 NAIK LAXMAN SINGH NEGI,
21 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
59. 4273249 NAIK LARA ORAON, 14 BIHAR REGIMENT
60. 5753555 NAIK KHIM BAHADUR THAPA,
2/8 GORKHA RIFLES / 33 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

61. 13620539 NAIK VINOD SINGH,
10 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
62. 13622759 NAIK VENU GOPAL S,
4 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
63. 13756515 NAIK LEKH RAJ, 6 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
64. 15318160 NAIK RANDHEER SINGH,
10 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
65. 4075919 NAIK SATE SINGH,
PARACHUTE REGIMENT / 51 SPECIAL ACTION GROUP
66. 2890344 LANCE NAIK SHIV PRATAP SINGH SHAKTAWAT,
RAJPUTANA RIFLES / 18 RASHTRIYA RIFLES
67. 4192496 LANCE NAIK SHANKAR JAI KISHAN,
3 KUMAON REGIMENT
68. 4277858 LANCE NAIK KUSH KUMAR, 5 BIHAR REGIMENT
69. 4568891 LANCE NAIK HIRA BHAI SHAMBHAJI,
MAHAR REGIMENT / 30 RASHTRIYA RIFLES.
70. 9099028 LANCE NAIK JAVAID AHMAD WANI,
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / 44 RASHTRIYA RIFLES
71. 9099866 LANCE NAIK MOHAN LAL,
10 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
72. 12944285 LANCE NAIK SATISH KUMAR,
159 INFANTRY BATTALION (TA) (H&H) DOGRA
73. 2492913 SEPOY JUJHAR SINGH,
PUNJAB REGIMENT / 22 RASHTRIYA RIFLES
74. 3007050 SEPOY PRITHVI SINGH RATHOR,
RAJPUT REGIMENT / 10 RASHTRIYA RIFLES
75. 3196621 SEPOY SULTAN SINGH,
JAT REGIMENT / 45 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
76. 4197624 SEPOY ANIL SINGH RAIKUNI,
KUMAON REGIMENT / 13 RASHTRIYA RIFLES
77. 5350564 RIFLEMAN PRAKASH THAPA, 5/4 GORKHA RIFLES
78. 13764855 RIFLEMAN KESAR SINGH,
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 31 RASHTRIYA RIFLES
79. 13768447 RIFLEMAN VIJAY KUMAR,
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / 3 RASHTRIYA RIFLES
(POSTHUMOUS)
80. G/0111172 RIFLEMAN NAGARAJAN SAMPATH, 1 ASSAM RIFLES
81. G/124606 RIFLEMAN T SITACHU FITHU, 43 ASSAM RIFLES
82. G/3201174 RIFLEMAN ARJUN KUJUR, 32 ASSAM RIFLES
83. G/3201208 RIFLEMAN GAGAN SINGH, 32 ASSAM RIFLES

84. G/3201233 RIFLEMAN AJAY KUMAR, 32 ASSAM RIFLES
85. F/2400725 RIFLEMAN MOHAMAD HADISH,
24 ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS)
86. 15166579 GUNNER NAVEEN KUMAR, REGIMENT OF ARTILLERY /
45 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
87. 15202589 GUNNER CHHAVI RAM SINGH,
REGIMENT OF ARTILLERY / 18 RASHTRIYA RIFLES
88. 4280263 PARATROOPER JAY KARAM TIGGA,
9 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
89. 13624138 PARATROOPER DIPANKAR SARKAR,
4 PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
90. 13624525 PARATROOPER JAIVEER KUMAR,
21ST PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 19—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Bar to Nao Sena Medal” to Commander Satyabrata Dam, NM(03313-B) for the act of exceptional courage.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 20—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Nao Sena Medal” to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage.

1. COMMANDER RAJESH VISHNU, (03964-H)
2. LIEUTENANT COMMANDER SOUMITRA ANANT DEODHAR
(05034-R)
3. SUJEET KUMAR, LS CD II, (129375-K)
4. MANJEET SIWACH, SEA I CD II, (139063-B)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 21-Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Bar to Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to Wing Commander Amitabh Sharma, VM (21015) Flying (Pilot) for the act of exceptional courage.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 22-Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage.

1. WING COMMANDER PRASHANT MOHAN (20160) FLYING (PILOT)
2. WING COMMANDER DEEPAK KUMAR VATS (22545) FLYING (PILOT)
3. 658793 WARRANT OFFICER PREM SINGH RAJPUT, FLIGHT GUNNER
4. 729086 JUNIOR WARRANT OFFICER JAWED HUSSAIN SIDDIQI, FLIGHT ENGINEER

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 23-Pres/2009– The President is pleased to approve the award of the “Bar to Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-48621 COLONEL SANJAY PRATAP SINGH VISHWASRAO, SENA MEDAL, RAJPUTANA RIFLES / 18 RASHTRIYA RIFLES
2. JC- 612725 NAIB SUBEDAR MING MAR GURUNG
5/4 GORKHA RIFLES

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 24—Pres/2009— The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-27004 MAJOR GENERAL KULWINDER SINGH SETHI,
REGIMENT OF ARTILLERY / HQ 101 AREA
2. IC-30408 MAJOR GENERAL VIJAY KUMAR NARULA, REGIMENT
OF ARTILLERY
3. IC-30482 MAJOR GENERAL VINOD BHATIA,
INFANTRY / HQ 25 INFANTRY DIVISION
4. IC-33235 MAJOR GENERAL DEEPINDER SINGH, VSM, ARMOURED
CORPS / HQ 31 ARMOURED DIVISION
5. IC-33450 MAJOR GENERAL DARSHAN LAL CHOWDHARY, VSM,
INFANTRY / HQ 26 INFANTRY DIVISION
6. MR-03814 MAJOR GENERAL SHIV KUMAR SHARMA, VSM,
ARMY MEDICAL CORPS / HQ EASTERN COMMAND
7. NR-14840 MAJOR GENERAL THYKKANDY PADMINI,
MILITARY NURSING SERVICE
8. IC-25136 MAJOR GENERAL ABHAYA KUMAR GUPTA, VSM,
INFANTRY / HQ NATIONAL SECURITY GUARD
9. IC-33914 MAJOR GENERAL VIJAY KUMAR PILLAI, RAJPUT,
REGIMENT
10. IC-27980 BRIGADIER RAVI PANDALAI, RAJPUT REGIMENT
11. IC-31663 BRIGADIER RAKESH NANDAN, ARMY AIR DEFENCE
12. IC-34436 BRIGADIER KHURSHED MANECK BALSARA, NAGA
REGIMENT
13. IC-34758 BRIGADIER ARVIND KUMAR RATHEE,
REGIMENT OF ARTILLERY / HQ 68 MOUNTAIN BRIGADE
14. IC-35137 BRIGADIER PATTIARIMAL MOHAMADALI HARIZ, VSM,
MECHANISED INFANTRY / HQ 91 INFANTRY BRIGADE
15. IC-35173 BRIGADIER RAYMOND JOSEPH NORONHA,
RAJPUT REGIMENT / HQ 26 SECTOR ASSAM RIFLES
16. IC-35566 BRIGADIER MAVELIMANNIL JOHN MATHEW,
REGIMENT OF ARTILLERY / HQ 2 MOUNTAIN ARTILLERY
BRIGADE
17. IC-37369 BRIGADIER ASHOK KUMAR GANGULY, VSM, JAMMU
AND KASHMIR RIFLES / HQ 4 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
18. IC-38731 COLONEL SURENDER SINGH LAMBA,
ARMY ORDNANCE CORPS
19. IC-40757 COLONEL VIKAL SAHNI, 4 GORKHA RIFLES/HQ IDS
20. IC-41544 COLONEL DEEPAK TALWAR,
REGIMENT OF ARTILLERY / HQ CENTRAL COMMAND

21. IC-43410 COLONEL DEEPAK DE,
MADRAS REGIMENT / 18 ASSAM RIFLES
22. IC-47031 COLONEL ARUN PRATAP SINGH RAJURA,
6 JAMMU AND KASHMIR RIFLES
23. IC-47036 COLONEL DEEPAK GARG,
BIHAR REGIMENT / 4 RASHTRIYA RIFLES
24. IC-47354 COLONEL GURBAKSH SINGH SANDHU,
ARMY ORDNANCE CORPS
25. IC-47624 COLONEL MRIGENDRA KUMAR,
RAJPUT REGIMENT / 10 RASHTRIYA RIFLES
26. IC-47895 COLONEL DEBASHIS DAS,
10 JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY
27. IC-48100 COLONEL YASHVIR SINGH RANGI, 8 SIKH REGIMENT
28. IC-48241 COLONEL RAJESH KUMAR SHARMA, SHAURYA
CHAKRA, PUNJAB REGIMENT / 22 RASHTRIYA RIFLES
29. IC-48532 COLONEL RAJENDRA RAI,
GRENADIERS / 39 RASHTRIYA RIFLES
30. IC-48713 COLONEL HARPAL SINGH,
RAJPUT REGIMENT / 44 RASHTRIYA RIFLES
31. IC-48986 COLONEL MUKESH GURUNG,
GORKHA RIFLES / 11 RASHTRIYA RIFLES
32. IC-49095 COLONEL AMAR NATH KUKRETI,
GRENADIERS / 55 RASHTRIYA RIFLES
33. IC-49430 COLONEL DINESH KUMAR SINGH, 11 GUARDS
34. IC-49991 COLONEL JITENDER SINGH BANGAR,
KUMAON REGIMENT / 26 RASHTRIYA RIFLES
35. MR-03775 COLONEL YASH PANDE,
ARMY MEDICAL CORPS / HQ 21 CORPS
36. MR-04238 COLONEL ANIL KHETARPAL, ARMY MEDICAL CORPS/
AFTC, DELHI CANTT.
37. 3186856 HAVILDAR KARAMVEER, 17 JAT REGIMENT
38. 9425173 HAVILDAR PUKHRAMBAM NARAJIT SINGH,
INFANTRY / ARMY SPORTS INSTITUTE, PUNE
39. GO-2903 MO ANIL KUMAR VOHRA,
GREF / HQ (P) ZARANJ, AFGHANISTAN

BARUN MITRA

Joint Secy.

No. 25—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “**Nao Sena Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. **COMMODORE LINGOM VENKATA SARAT BABU (02270-H)**
2. **COMMODORE SHEKHAR MITAL, (50717-R)**
3. **CAPTAIN SANJAY JASJIT SINGH (03081-A)**
4. **CAPTAIN VENNAM SRINIVAS (03227-H)**
5. **COMMANDER YASHODHAN PRATAP MARATHE (03057 Y)**
6. **COMMANDER GS SUNDARESAN (41257-R)**
7. **SURGEON LIEUTENANT COMMANDER RAVEESH KUMAR, (75689-W)**
8. **BHANWAR SINGH CHARAN, VSM, MCPO I CD I, (149387-T)**

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 26—Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “**Vayu Sena Medal/Air Force Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. **GROUP CAPTAIN SHISHIR YASHWANT KOSHE (16400) FLYING (PILOT)**
2. **GROUP CAPTAIN SANJEEV KAPOOR (18089) FLYING (PILOT)**
3. **WING COMMANDER ALOK SHARMA (18811) FLYING (PILOT)**
4. **WING COMMANDER ROHIT MAHAJAN (19187) FLYING (PILOT)**
5. **WING COMMANDER SAMEER MEHRA (19524) FLYING (PILOT)**
6. **WING COMMANDER SANJAY DHANKHAR (19865) FLYING (PILOT)**
7. **WING COMMANDER VENIGALLA SRINIVAS CHOUDARY (19869) FLYING (PILOT)**
8. **WING COMMANDER PAWAN KUMAR (20111) FLYING (PILOT)**
9. **WING COMMANDER NIRMALENDU NATH SINHA (20157) FLYING (PILOT)**
10. **WING COMMANDER PUSHPENDRA SINGH NARA (20478) FLYING (PILOT)**
11. **WING COMMANDER JASVIR SINGH MANN (20491) FLYING (PILOT)**
12. **WING COMMANDER VIKRAM PATHAK (20971) FLYING (PILOT)**

13. SQUADRON LEADER NITIN KHANNA (25617) FLYING (PILOT)
14. SQUADRON LEADER SAMRATH DHANKHAR (26513)
FLYING (PILOT)

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 27—Pres/2009 – The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel for “Mention in Despatches” received by the Raksha Mantri from the “Chief of the Army Staff”:-

OP RAKSHAK

1. IC-51706 LIEUTENANT COLONEL VINOD S, SM, MARATHA LIGHT INFANTRY, 56 RASHTRIYA RIFLES
2. IC-52131 LIEUTENANT COLONEL HARPREET SINGH BHINDER, 4/9. GORKHA RIFLES, 32 RASHTRIYA RIFLES
3. IC-56470 MAJOR IMON SAMANTA, GARH RIF, 14 RASHTRIYA RIFLES
4. IC-56611 MAJOR DINESH SINGH, DOGRA REGT, 20 RASHTRIYA RIFLES
5. IC-63403 MAJOR BHEEMALAH PS, 10 PARA REGT (SF)
6. IC-63472 MAJOR RAVI KANT, 16 BIHAR REGT
7. IC-63575 CAPTAIN ANANDA BOSE, JAT REGT, 45 RASHTRIYA RIFLES
8. SS-40548 CAPTAIN VIKRANT PRASHER, 10 PARA REGT (SF)
9. JC-412669 SUBEDAR MAGHA RAM KHILERY, 7 PARA REGT
10. JC-489169 SUBEDAR HANUMAN RAM JAT, 11 JAT REGT
11. JC-519972 SUBEDAR SHAKTI CHAND CHANDEL, DOGRA REGT, 62 RASHTRIYA RIFLES
12. JC-520278 SUBEDAR SANTOSH PAL, DOGRA REGT, 20 RASHTRIYA RIFLES
13. JC-559352 SUBEDAR AMAR SINGH, 14 BIHAR REGT
14. 1474974 HAVILDAR KARAMJIT SINGH, ENGRS, 12 RASHTRIYA RIFLES
15. 4363631 HAVILDAR T KAMLALVEN, 9 PARA REGT (SF)

16. 4363768 HAVILDAR HAOSIANTHANG ZOU, ASSAM REGT, 42 RASHTRIYA RIFLES
17. 5348061 LANCE HAVILDAR SAM BAHADUR GURUNG, 5/4 GORKHA RIFLES
18. 2686820 NAIK SUKHVIR SINGH, GDRS, 29 RASHTRIYA RIFLES
19. 2689648 NAIK CHATAR SINGH, GDRS, 55 RASHTRIYA RIFLES
20. 3993898 NAIK JAGRAJ SINGH, DOGRA REGT, 20 RASHTRIYA RIFLES
21. 14808113 NAIK BALRAJ SINGH, 528 ARMY SERVICE CORPS BN
22. 12974132 LANCE NAIK ABDUL RASHID KHAN, TERRITORIAL ARMY, 5 RASHTRIYA RIFLES
23. 2494223 SEPOY ANGREJ SINGH, PUNJAB REGT, 22 RASHTRIYA RIFLES
24. 4003294 SEPOY RAKESH SINGH, DOGRA REGT, 20 RASHTRIYA RIFLES
25. 4005445 SEPOY DHARAM PAL, DOGRA REGT, 20 RASHTRIYA RIFLES
26. 4369413 SEPOY P BOSCO MARAM, ASSAM REGT, 59 RASHTRIYA RIFLES
27. 4372077 SEPOY K LALBIAK SANGA, ASSAM REGT, 59 RASHTRIYA RIFLES
28. 13767977 RIFLEMAN HANS RAJ, JAK RIF, 28 RASHTRIYA RIFLES

OP MEGHDOOT

29. IC-61565 MAJOR GURBIR SINGH KAHLON, 9 JAT REGT

OP RHINO

30. IC-54165 MAJOR NAVNEET BAKSHI, SM, 11 MARATHA LIGHT INFANTRY
31. IC-61617 MAJOR RANJEET SRIVASTAVA, 2 BIHAR REGT
32. IC-63580 CAPTAIN MUDASSAR IQBAL, 2 BIHAR REGT
33. IC-64121 CAPTAIN ANIL KUMAR MISHRA, 11 GUARDS
34. SS-42398 CAPTAIN CHETAN SHARMA, EME, 3 KUMAON REGT
35. SS-42181 LIEUTENANT ABHJEET YADAV, ARMY ORDANCE CORPS, 11 MARATHA LIGHT INFANTRY

36. SS-42435 LIEUTENANT ARUN SINGH CHAUHAN, 11 MARATHA LIGHT INFANTRY
37. JC-267129 SUBEDAR AMBESWAR GAYAN, ARTY, 268 FIELD REGIMENT
38. JC-498934 SUBEDAR SUKHDEV SINGH, 8 SIKH REGT
39. 3182594 HAVILDAR SANWAR MAL, 21 JAT REGT
40. G/3900083 HAVILDAR RAJENDER SINGH, 43 ASSAM RIFLES
41. 4188659 NAIK DHARM BEER SINGH, 19 KUMAON REGT
42. 14428880 NAIK PRABHBIR SINGH, ARTY, 268 FIELD REGIMENT
43. 4192192 LANCE NAIK NAVIN SINGH, 19 KUMAON REGT
44. 4198485 SEPOY AMIT SINGH, 19 KUMAON REGT
45. G/3101457 RIFLEMAN CHIRANJIBI BHUJEL, 43 ASSAM RIFLES

OP HIFAZAT

46. SS-41839 LIEUTENANT TEJ PRATAP SINGH, 8 SIKH REGT
47. G/2102720 HAVILDAR PADAM SINGH RAWAT, 21 ASSAM RIFLES
48. G/0111182 RIFLEMAN KUMARESAN SAMPATH, 1 ASSAM RIFLES
49. G/5001388 RIFLEMAN DIWAN SINGH, 32 ASSAM RIFLES

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 28–Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Kirti Chakra” to the under mentioned persons for the acts of conspicuous gallantry:-

1. **SS-40547 CAPTAIN PARAS LIMBOO, ASSAM REGIMENT/59 RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 08 April, 2008]

Based on a long term innovative and surgical intelligence plan, Captain Paras Limboo launched an operation on 08 April 2008 against hardcore terrorists in Reasi District, Jammu & Kashmir. The officer undertook an extremely difficult approach to target area in upper reaches of Pir Panjal mountains, in rugged inhospitable terrain, involving high risk to life owing to mountaineering odds. Captain Paras Limboo with dynamic and resolute leadership, personally advanced on the target to a close distance of 50 meters. Crawling forward, achieving total surprise and with utter disregard to his personal safety, he opened fire, instantaneously killing two terrorists. The remaining two terrorists retaliated with heavy volume of AK and UBGL fire. Despite being under heavy fire, the officer brought effective fire and injured the other two terrorists who were later eliminated by the stops.

Captain Paras Limboo displayed exceptional bravery and leadership with total disregard to his life while leading the operation against the terrorists.

2. **IC-63488 CAPTAIN ZALA AJITKUMAR ARSHIBHAI, 2ND BATTALION, THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)**

[Effective date of the award: 09 April, 2008]

Based on intelligence inputs cultivated by Captain Zala Ajitkumar Arshibhai regarding presence of terrorists, the officer inducted a small team in general area in Kupwara District, Jammu & Kashmir, to lay ambush.

On 09 April 2008 at 1830 hours Capt Zala heard sound of movement and spotted three terrorists at a distance of 75 meters. Quickly assessing the situation, he decided to close in from a flank. While maneuvering Capt Zala and his buddy were spotted by terrorists who opened intense automatic fire. Unmindful of personal danger the officer charged and shot the leading two terrorists from close quarters.

The third terrorists however took cover and lobbed grenades. Sensing mortal danger to his buddy the intrepid officer crawled under fire and pounced on third terrorist and shot him in hand-to-hand combat.

Captain Zala Ajitkumar Arshibhai displayed tactical acumen, audacity and conspicuous bravery of highest order in which he single handedly eliminated three terrorists including Divisional Commander of North Kashmir of a dreaded terrorist organisation.

3. **SHRI NITYA NANDA BORA, LOCO PILOT-IN-CHARGE OF THE PILOT SPECIAL, MINISTRY OF RAILWAYS (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 15th May, 2008]

On 15th May 2008, Shri Nitya Nanda Bora, Loco Pilot in-charge of the Pilot Special, was carrying 38 railway personnel deputed for patrolling the track subsequent to the suspension of services on the previous day on account of a Bandh called by a local organization.

Being the first train on that day, Shri Bora had the responsibility of keeping a watch over the track for any unusual occurrence on the track while driving. When the train was emerging out of a tunnel, the train was fired upon by the militants indiscriminately. Shri Bora sustained two bullets wounds, one in the chest and another in the rear shoulder. Despite the grievous injury, he immediately halted the train and reversed it into the tunnel, thereby preventing the militants from further firing. The train was subjected to about 140 rounds of firing. Shri Bora later succumbed to his injuries.

Shri Nitya Nanda Bora showed exemplary devotion to duty, courage of the highest order and averted a big casualty and made supreme sacrifice.

4. **JC-412922 SUBEDAR INDRA BAHADUR PUN, 4TH BATTALION, THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)**

[Effective date of the award: 19 June, 2008]

On 19 Jun 2008, Subedar Indra Bahadur Pun with his squad was deployed in ambush on Line of Control (LoC) in Nangi Tekri Battalion area to stop movement of infiltrators.

At about 1140 hours, Subedar Indra Bahadur noticed movement of four persons crossing the LoC. As the infiltrators reached the killing zone, he challenged them. The infiltrators immediately opened a hail of fire at him. Subedar Indra Bahadur stood his ground and displaying raw courage shot down three infiltrators. At about 1245 hours, six to seven persons were seen rushing from Pakistani post to reinforce/carry out casualty evacuation. When warnings not to cross the LoC went unheeded, Subedar Indra Bahadur shot down another two persons under intense firing across the LoC. Repeated attempts to recover bodies of infiltrators were subsequently thwarted by Sub Indra Bahadur's squad.

Subedar Indra Bahadur Pun displayed conspicuous gallantry, indomitable resolve and courage beyond the call of duty in the face of infiltrators.

5. **2791244 HAVILDAR RALE SANTOSH TANAJI, MARATHA LIGHT INFANTRY / 56 RASHTRIYA RIFLES**

[Effective date of the award: 23 August, 2008]

Havildar Rale Santosh Tanaji was the Section Commander of Ghatak Platoon of 56 Rashtriya Rifles deployed in general area in Kupwara district of Jammu and Kashmir.

On 23 August 2008, Havildar Rale Santosh Tanaji observed some fleeing terrorists. He reorganized his section and brought effective fire on the terrorists. The terrorists took cover behind treacherous jagged rocks and retaliated with heavy volume of fire. He inched close to the holed up terrorists from an unexpected direction under covering fire of his section and shot two terrorists from extreme close range and injured another. While the search continued for next three days, he proceeded perilously close to another injured terrorist who had booby trapped himself, at great risk to his personal safety and eliminated him.

Havildar Rale Santosh Tanaji displayed courage of an exceptional order, utmost devotion to duty and selflessness while fighting the terrorists.

6. **IC-52871 LIEUTENANT COLONEL SAURABH SINGH SHEKHAWAT, SHAURYA CHAKRA, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL, 21ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)**

[Effective date of the award: 08 September, 2008]

Within days of insertion in Manipur, Team Leader of 21 PARA (SF), Lieutenant Colonel Saurabh Singh Shekhawat established an innovative intelligence network to locate a terrorist camp in District Bishenpur, Manipur, hither-to-fore a

terrorist sanctuary. After 45 days of continuous surveillance, planning and training he launched a historical operation to destroy the target and made national headlines.

On night 08/09 September, 2008 guided by his surveillance detachment, the Team Leader successfully navigated boats/divers through weed infested waters and sighted his groups in proximity to the target island without losing surprise. At daybreak, after successful sentry silencing, he along with assault group reached the island, swimming. However, surprise was lost and terrorists opened heavy fire. Without losing momentum and undaunted by hostile fire, the officer led his men in returning fire and tactically closed in. His accurate fire immediately killed two terrorists. Remaining terrorists, still in their huts, fired from behind cover. Concurrently, some terrorists fired heavy calibre weapons from a flank. This pinned down his men in the open. Seeing the precarious situation, the officer with his buddy, unfazed by flying bullets and unmindful of personal safety, exposed themselves to terrorist fire by running in the open. In the process he eliminated another terrorist and diverted their attention thus preventing casualty to own personnel. This galvanized remainder assault group to move and subsequently neutralise other terrorists.

Lieutenant Colonel Saurabh Singh Shekhawat displayed resolute leadership, exemplary mission dedication, raw courage and presence of mind in close combat conditions in fighting the terrorists.

7. **4364533 NAIK TAPE YAJO, 1 ASSAM REGIMENT (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 21 September, 2008]

Naik Tape Yajo was the leading scout of a search party launched to clear a thickly wooded re-entrant in Kalas Forest during OPERATION KALAS conducted from 21 to 26 September 2008.

During the search, Naik Tape spotted one terrorist concealed behind a boulder in thick undergrowth. He crawled close to this terrorist and engaged him. The charging terrorist was killed by Naik Tape by fire from close range. This action drew intense fire and grenade attack from a second terrorist who was concealed behind another boulder. In spite of severe bullet and splinter injuries, Naik Tape crawled through thick undergrowth to close on the terrorist and killed him with a grenade. This exposed him to the fire of a third terrorist. Profusely bleeding and with his weapon damaged, Naik Tape charged on the terrorist with his dah to be felled down by intense hostile fire from close quarters.

Naik Tape Yajo displayed conspicuous gallantry and indomitable courage in the elimination of terrorists and sacrificed his life in the highest traditions of the Indian Army.

8. **IC-53634 LIEUTENANT COLONEL OSIRIS DAS**
KUMAON REGIMENT / 13 RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 23 September, 2008]

On 22 September 2008, Lieutenant Colonel Osiris Das received information of sited ambushes along Jhelum River. At 2300 hours, in doubt about route of terrorists, the officer quickly sited additional ambushes on bridge on the river and placed himself and his buddy at the entry point.

At 0300 hours on 23 September 2008, officer noticed four suspicious persons approaching. To avoid civil casualty and ensure safety of sources, officer maintaining complete surprise, allowed the group to cross and alerted the party on other side of bridge. Being challenged, sources moved ahead to safety, while two terrorists ran back. With utter disregard to personal safety, displaying grit and determination, finding no natural cover, officer moved out in open to prevent terrorist escape. Surprised by being trapped, the terrorists opened fire from close range injuring the officer. His buddy immediately pinned down the terrorists and extricated him. Displaying conspicuous bravery, unmindful of injury and showing tactical acumen, officer closed to five meters, brought down accurate fire and eliminated the terrorists.

Lieutenant Colonel Osiris Das, displayed conspicuous bravery, outstanding professional acumen, analytical approach in eliminating two terrorists.

9. **SHRI SHASHANK CHANDRASEN SHINDE, POLICE INSPECTOR,**
MAHARASHTRA POLICE (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 26 November, 2008]

On 26th November 2008, ten heavily armed terrorists launched simultaneous attacks on various iconic places in Mumbai. Shri Shashank Chandrasen Shinde, Police Inspector, who was at Chhatrapati Shivaji Terminus Railway Station on night duty, heard the firing and blasts from the main hall, some twenty meter from there and rushed to the site with other police personnel.

He spotted one terrorist firing in the main hall near ATM Center. He took shelter behind a wall and waited the terrorist to come within the range of his 9 mm Pistol. With a view to strike from the close range he moved further to the ATM Center. While doing that, an encounter took place with terrorists and Shri Shinde received four bullets and fell down.

Shri Shashank Chandrasen Shinde showed exemplary courage, devotion to duty laid down his life in fighting the terrorists.

10. SHRI ARUN RAGHONATH CHITTE, CONSTABLE, ANTI EXTORTION CELL OF CRIME BRANCH, MUMBAI (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 26 November, 2008]

On 26th November 2008, Shri Arun Raghonath Chitte, Police Constable attached with Anti Extortion Cell of Crime Branch, Mumbai was on the metro junction when he got message that terrorist were heading towards him in a Police vehicle after ambushing the team of Shri Karkare, Joint Commissioner. Shri Chitte immediately alerted the people, who were gathered there, to move to a safe place. When the terrorists reached there, they started firing on the people. On seeing that, Shri Chitte moved forward to snatch rifle from the terrorist but he was fired at.

Shri Arun Raghonath Chitte showed raw grit and unparalleled courage against grave odds and made the supreme sacrifice for the nation.

11. SHRI AMBADAS RAMCHANDRA POWAR, CONSTABLE, SECURITY BRANCH, P-I, MAHARASHTRA POLICE (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 26 November, 2008]

On 26th November 2008, Shri Ambadas Ramachandra Powar, Police Constable was attached to the Security Branch, P-I, Mumbai. He was on his way to join night duty when he noticed the passenger running helter skelter and heard sound of firing when he reached Chhatrapati Shivaji Terminus Railway Station. Though he was in civil dress and unarmed, he assessed the situation and unmindful of risk to his life started alerting the passenger to move to safer places. When terrorists noticed Shri Powar guiding the passengers to safety, one of them fired at him causing fatal injuries. Unfazed, he continued with his work till he succumbed to the injuries.

Shri Ambadas Ramchandra Powar displayed exemplary courage and devotion to duty against grave odds and laid down his life while saving the lives of many people.

12. SHRI MUKESH BHIKAJI JADHAV, HOME GUARD, AHARASHTRA (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 26 November, 2008]

On 26th November 2008, Shri Mukesh Bhikaji Jadhav, a member of Home Guard, was performing security duty at Chhatrapati Shivaji Terminus Railway Station when terrorist attack took place. He assessed the situation and unmindful of

risk to his life, started alerting the passengers to move to safer places. When terrorists noticed Shri Jadhav guiding the passengers to safety, one of them fired at him causing fatal injuries. Unfazed of his fatal injuries he showed great courage and crawled up to the Railway Police Station and informed the incident.

Shri Mukesh Bhikaji Jadhav showed exemplary courage, devotion to duty and made the supreme sacrifice while saving the lives of many people.

13. 15318999 SAPPER V SATHISH, CORPS OF ENGINEERS / 51 SPECIAL ACTION GROUP

[Effective date of the award: 28 November, 2008]

On 28 November 2008 Sapper V Sathish formed part of the team that was carrying out intervention operation outside Nariman House, Mumbai where terrorists had killed many people including some foreign Nationals.

While his team was searching for terrorists on the fourth floor, the team drew intense fire from the terrorists hiding in one of the rooms. Since the exact location of terrorists inside the room was not known, he volunteered to provoke the terrorists by exposing himself with utter disregard to personal safety and in doing so he drew fierce fire from the terrorists, thus making their exact location known.

When his Team Commander planned to create an entry through the wall, he again volunteered to move downstairs under hail of bullets to place an improvised charge on the wall. Immediately after the blast, Sapper Sathish jumped inside the room through the opening created by the explosion, exposing himself to the direct fire of the terrorist. Displaying raw courage under fire he kept firing and charged at the terrorist, killing him at a close range.

Sapper V. Sathish displayed exceptional valour, outstanding combat skills and indomitable spirit while leading the operation against the terrorist.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 29-Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Bar to Shaurya Chakra” to the undermentioned person for the acts of gallantry :-

1. **GS-108767W OPERATOR EXCAVATING MACHINERY-II ZALIM SINGH, SC, BORDER ROADS ORGANISATION (POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 16 April, 2008]

On 16 April 2008, a heavy land slide occurred on Theing Road in North Sikkim. At the same time there was operational requirement of Army to keep the road open, for smooth movement of a troops of Tanks. Road near village Theing, terrain is treacherous with vertical rocks and shooting stones at irregulars' intervals, rendering the road site extremely dangerous to open.

A mature, courageous and thorough professional soldier, OEM II Zalim Singh, quickly understood the importance of opening the road to army and civil traffic before the night fall. By 1400 hours on 16 Apr 08, when the shooting stones appeared to have stopped falling, unmindful of his personal safety, he voluntarily stood up to the call of his duty and started clearing the land slide with his dozer. At 1600 hours, a shooting stone grievously injured him because of which he later succumbed at 1730 hours on the same day.

Operator Excavating Machinery-II Zalim Singh displayed courage and bravery under very adverse climate condition and made supreme sacrifice while performing his duties.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 30-Pres/2009 – The President is pleased to approve the award of the “Shaurya Chakra” to the undermentioned persons for the acts of gallantry :-

1. **G/5008845 RIFLEMAN THOUDAM SUNIL SINGH, 32 ASSAM RIFLES**

[Effective date of the award: 30 November, 2007]

On 30 November 2007, Major Rajinder Kumar Sharma received specific intelligence about move of armed terrorists in general area in Manipur. He immediately launched joint operations with Imphal East Police Commandos to neutralize the armed terrorists. The team approached the suspected site and started carrying out search of the houses. The hidden terrorists, on seeing the troops approaching, took cover behind a house and seeing that they would be unable to escape the well planned dragnet, panicked and opened automatic weapon fire on the search party. In swift retaliation, Rifleman Thoudam Sunil Singh without giving due consideration to his own safety and security, moved to a firing position to effectively engage the terrorists. When the terrorists continued to engage him, the young soldier showing initiative and courage beyond call of duty, got up and charged onto the well entrenched terrorists and from close quarters shot both of them.

Rifleman Thoudam Sunil Singh displayed dauntless courage, valour in face of hostile fire and extreme devotion to duty leading to elimination of two hardcore terrorists.

2. **SHRI PRITAM LAL, CONDUCTOR,**
DELHI TRANSPORT CORPORATION (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 04 February, 2008]

On 4th February 2008, Shri Pritam Lal, Conductor, DTC Bus was on duty on a Delhi-Meerut bus along with driver Shri Somvir Singh. When the bus was passing near Gang-Nahar, Murad Nagar, an armed man got up from his seat, walked to the driver and asked him to stop the bus. When the driver resisted, he took out a pistol and pointed it on his head.

Shri Pritam Lal, who was sitting on the front seat immediately got up and grappled with the gun-totting person. Due to this commotion, the bullet fired by the

miscreant went through the right side of the front window without hitting the driver. However, another bullet fired by the miscreant hit Shri Pritam Lal on his forehead and he collapsed on the floor. A police constable travelling in the bus tried to overpower the miscreant but he too was fired at by an accomplice of the robber. The robbers snatched a money bag from a passenger and ran away in a car following the bus. Shri Pritam Lal was taken to the hospital where he was declared brought dead.

Shri Pritam Lal showed exemplary courage in confronting the miscreants, unmindful of his personal safety and laid down his life in the process.

3. **4579259 SEPOY RAVINDER SHARMA, 12 MAHAR REGIMENT**

[Effective date of the award: 22 February, 2008]

On 22 February 2008, based on intelligence inputs ambushes were laid ahead of snow submerged Line of Control Fence under extreme cold and snow blizzard conditions to eliminate terrorists. At 0305 hours, ambush party opened fire, when instinctively Sepoy Ravinder Sharma pushed aside his buddy and engaged the terrorist, killing him. He then charge after the fleeing second terrorist down steep avalanche prone Nala, using excellent field craft while dodging a lobbed grenade and AK-47 fire by the terrorist. He displayed extreme courage, presence of mind and killed the second terrorist at close range.

Sepoy Ravinder Sharma displayed exemplary courage and devotion to duty in fighting with the terrorists

4. **IC-60439 MAJOR CHIRAG SINGH BARAK**
MECHANISED INFANTRY / 24 ASSAM RIFLES

[Effective date of the award: 23 February, 2008]

In a short span of just over seven months, Major Chirag Singh Barak with his undaunted determination, quick planning and resolute execution, while leading his men from the front has been instrumental in elimination of nine hardcore terrorists, apprehension of twenty terrorists, capturing of fourteen weapons and a large quantity of war like stores.

Major Barak was tasked to lay an ambush on the Indo-Myanmar border for the infiltrating terrorists. After a prolonged wait, at 0430 hours on 23 February 2008 in the General Area Boundary Pillar, Major CS Barak detected movement of terrorists crossing over the International Border from Myanmar to India through the

Hand Held Thermal Imaging Sight. Displaying exceptional decisiveness and initiative he rushed with his men to block the infiltrating terrorists. As the column was closing in, the terrorists opened fire and started running back towards Myanmar in a bid to escape.

Undaunted by the sustained and accurate hostile fire, he engaged the terrorists in a close quarter battle. In an act of extreme boldness and exemplary courage he single handedly shot dead three terrorists at point blank range. A total of six terrorists were killed and a large quantity of arms and ammunition was recovered in this operation.

Major Chirag Singh Barak displayed undaunting courage and professional acumen in fighting the terrorists.

5. **IC-60843 MAJOR SRINIVASAN VIKRAM CHERIAN**
GARHWAL RIFLES / 14 RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 02 April, 2008]

On 02 April 2008, Maj Srinivasan Vikram Cherian acquired intelligence report about movement of two foreign terrorists in Erin Bowl of Bandipur. He immediately activated Long Range Recce and Observation System to monitor their movement and launched four small teams from different directions to trap the terrorists. After four hours of continuous tracking and tactful pursuit he observed terrorists entering a house in Dardpura Village, Jammu & Kashmir. Maintaining surprise and stealth, the officer cordoned the target house. The terrorist opened indiscriminate fire and lobbed hand grenades. The officer deployed his party and closed on to the terrorists with utter disregard to his personal safety. Major Cherian led search party from front to clear the house. In a rare display of quick reflexes and raw courage the officer brought down effective fire and shot dead two terrorists at close range. During the ensuing firefight his buddy was badly injured. The officer crawled close to the injured soldier and rescued him to safety thus saving his life.

Major Srinivasan Vikram Cherian displayed conspicuous bravery and courage, professional acumen in fighting the terrorists.

6. **IC-55535 MAJOR RAJESH SINGH, SENA MEDAL**
RAJPUTANA RIFLES / 18 RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 19 April, 2008]

Major Rajesh Singh, Company Commander trained the company into an effective counter terrorist team and established intelligence cum surveillance grid

covering 20 square kilometers area of responsibility. On intelligence provided by his informants, Major Rajesh planned search and destroy operation in general area Amri Baihk at an altitude of 8,000 feet. He ensured security of movement to target area employing strict battle drills.

On scout's observation of terrorist footmarks, Major Rajesh stealthily manoeuvred platoons cutting off escape. On detecting first terrorist he chased the terrorist with buddy and killed the terrorist. On resuming search, Maj Rajesh came face to face with another terrorist engaging Rifleman Waqeel. He pushed Rfn Waqeel to ground and killed the terrorist. Maj Rajesh's buddy Rfn Rizwan observed another terrorist aiming weapon at Maj Rajesh. Rfn Rizwan warned Major Rajesh for taking evasive actions, manoeuvred under covering fire by Major Rajesh and killed the terrorist. In the encounter the Company killed four terrorists without suffering casualties.

Major Rajesh Singh displayed bravery, an exceptional leadership and organizational skills in fighting terrorists.

7. **13753884 LANCE HAVILDAR AZIZ MOHD**
20 JAMMU AND KASHMIR RIFLES (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 11 May, 2008]

At 0700 hour on 11 May 2008, on information of terrorists having taken civilian hostages at Kali Mandi, Samba (J&K), 20 JAK RIF sprung into action to neutralise them. Lance Havildar Aziz Mohd was part of the columns detailed.

The Battalion established close cordon. In efforts to rescue the hostages Lance Havildar Aziz Mohd played lead role under heavy terrorists fire and rescued five ladies, three children and one male safely. When terrorists tried to escape, one terrorist came face to face. Lance Havildar Aziz Mohd killed him on the spot when he too got badly injured. In the meantime the second terrorist charged on him. With utter disregard to his personal safety and injury suffered, he fired and killed the second terrorist too. However, he succumbed to injuries and made the supreme sacrifice fighting gallantly.

Lance Havildar Aziz Mohd displayed steadfastness and raw courage under extreme odds and made supreme sacrifice in fighting the terrorists.

8.

IC-61732 MAJOR RAMAN YADAV
MECHANISED INFANTRY / 42 RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 17 May, 2008]

On 17 May 2008, at 0650 hours at a village in general area Lurao Jagir in the Northern Sector after breaking contact with the CRPF, six hardcore terrorists escaped and took cover in walnut orchard. At 0800 hours fierce encounter ensued with the terrorists. Major Raman Yadav in an audacious offensive action entered the orchard. Displaying skilful battle and field craft, the officer crawled fifty metres, closed in and eliminated a hardcore foreign terrorist in the face of heavy grenade lobbing. On seeing another terrorist firing fiercely on own troops, the officer, advanced ahead braving heavy automatic fire and killed another terrorist, at point blank range with absolute disregard to personal security. The officer further assisted in elimination of one more terrorist by Capt Vinay Kumar Sharma by giving unremitting covering fire and outflanking the terrorist.

Major Raman Yadav displayed unflinching selfless devotion to duty, gutsy offensive action and exceptional mental mobility for success of the operation.

9. GS-174436P DRIVER MECHANICAL TRANSPORT GRADE-II
SURINDER PAL, BORDER ROADS ORGANISATION (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 26 May, 2008]

On 26 May 2008, Driver Mechanical Transport Surinder Pal collected rations from 529 Stores Supply and Transport Company (GREF) and moved for 64 RCC. Some BRO personnel were also travelling in the same vehicle. These units are located in Meghalaya which is infested with the various out fits of terrorists and insurgents.

At 1440 hrs near Kilometer 31.00 on National Highway -62, a Red Tata Sumo which was driven by militants was waiting. They managed to stop and over powered the driver of BRO vehicle. In the process of over powering militants opened fire and a bullet hit DVR MT Surinder Pal in the chest. This caused seriously injuries. Despite being injured, DVR MT Surinder Pal showed his presence of mind and changed the gear to Neutral, applied brakes and stopped the vehicle. Immediately after this he collapsed on the steering wheel of vehicle and succumbed to injuries.

DVR MT Surinder Pal exhibited conspicuous bravery and presence of mind which not only saved the lives of fellow colleagues but also prevented the loss of Govt stores and vehicle, which other wise would have fallen in the valley.

Driver Mechanical Transport Grade-II Surinder Pal, thus, made supreme sacrifice in the course of discharging of his duties.

10. **GROUP CAPTAIN SURYAKANT CHINTAMAN CHAFEKAR (17013)**
FLYING (PILOT)

[Effective date of the award: 31 May, 2008]

On 31 May 08, Group Captain Suryakant Chintaman Chafekar was detailed to undertake the first ever trial landing to Daulat Beg Oldie (DBO) Advance Landing Ground (ALG) by an An-32 aircraft.

DBO ALG is located at an altitude of 16,200 feet above mean sea level in a bowl in the Himalayas and is the highest airstrip in the world. Since induction of An-32 aircraft, different specialist groups of Indian Air Force and Indian Army were tasked to study the feasibility of landing at DBO by An-32 aircraft. Without exception, all these groups opined that landing at DBO by An-32 is not feasible for various reasons. Group Captain SC Chafekar, after a ground recce of the strip, took initiative to propose a landing by An-32 aircraft to showcase the Indian Air Force, generate confidence among the aircrew and most of all as a morale booster for the ground forces in Aksai Chin area. He readily volunteered to undertake the arduous task of operating the aircraft beyond the flight envelope envisaged by the manufacturer despite several adversities like inclement weather, inhospitable terrain and proximity to line of actual control. The mission with negligible margin for errors was executed in the most professional and commendable manner which speaks volumes of his unflinching courage. He displayed indefatigable spirit and single minded purpose in motivating the squadron aircrew to undertake this seemingly impossible task.

Group Captain Suryakant Chintaman Chafekar displayed conspicuous courage in one of the most challenging missions ever undertaken by An-32 aircraft, which will further enhance the operational capability of Indian Air Force in years to come.

11. **IC-65357 MAJOR VIJAYANAT CHAUHAN, SENA MEDAL**
ARMY SERVICE CORPS / 57 RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 02 June, 2008]

On 02 June 2008, based on hard intelligence about presence of two hardcore foreign terrorists in a village in Jammu and Kashmir, Major Vijayanat Chauhan laid a cordon with lightning speed around the suspected house. During the search of the house a hideout was located in wall. When the second buddy pair removed the planks at entry to hideout he saw one terrorist ready to lob a grenade on search party.

The officer shot the terrorist before he could lob the grenade thereby preventing casualty to own troops. The second terrorist started firing on the search party. The officer without caring for his personal safety closed in to the terrorist and killed him too.

In an act beyond the call of duty, exhibiting rare courage, the officer set a personal example of daring act by killing two hardcore foreign terrorists in a daring act of bravery. In this operation officer has displayed tact for generating sound intelligence and professional execution of mission.

Major Vijyanat Chauhan displayed indomitable courage and outstanding leadership in fighting the terrorists.

12. **SHRI DEV KUMAR, CONSTABLE, GENERAL DUTY**
CT/GD, INDO-TIBET BORDER POLICE (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 05 June, 2008]

On 5th June 2008, Shri Dev Kumar was deployed as escort for providing security to the convoy of BRO personnel working in the Project Zaranj at Gurguri, Afghanistan engaged in road construction work in war torn Afghanistan.

Shri Dev Kumar came out of his escort vehicle when the convoy of BRO was about to reach the main road with a view to control the traffic for the safe movement of the convoy. Suddenly, he observed a Corolla car approaching speedily towards the convoy. He signalled the vehicle to stop but it did not stop. He fired 3 rounds on the vehicle. The driver of the vehicle (a suicide bomber) got confused by this unexpected act of Shri Dev Kumar and detonated the explosive filled vehicle prematurely before reaching the main convoy. Shri Dev Kumar thus managed to save the convoy which comprised 23 personnel. However, he himself got severely injured by the explosion and succumbed to his injuries on the spot.

Shri Dev Kumar displayed exemplary dedication and extraordinary bravery in saving the lives of several BRO/ITBP personnel and made the supreme sacrifice.

13. **SC-00137 MAJOR RAJINDER KUMAR SHARMA**
GRENADIERS / 32 ASSAM RIFLES

[Effective date of the award: 07 June, 2008]

Major Rajinder Kumar Sharma with his dare devil actions has become a legend amongst his troops and in Manipur. He fearlessly leads from the front and epitomizes courage under hostile fire upholding the true traditions of Indian Army.

He has created a vivacious intelligence network. On 07 June 2008 he received explicit intelligence that armed terrorists would be coming in a vehicle for extortion. The officer moved with his team and with ingenuity laid an ambush.

On 07 June 2008 at 1930 hours, Maj RK Sharma saw a silver coloured van and he immediately came onto the road and signalled the vehicle to stop. However, terrorists in vehicle tried to overrun him. He came in front of the vehicle, fired and prevented them from escaping.

The terrorists dismounted while firing with automatic weapons and he miraculously missed certain death, but charged onto them and personally gunned down one terrorist who was firing with a carbine. The remaining terrorist escaped while firing with their AK and pistols into the thick undergrowth.

Maj RK Sharma immediately ordered his sub teams to redeploy and cordoned off the area. The terrorists in an attempt to escape fired overwhelmingly on the team and threw grenades to deter the brave warriors.

Maj RK Sharma alongwith Havildar Vinay and SI Achouba formed a sub team and entered the thick undergrowth to search the area but were immediately pinned down by accurate firing by the terrorists.

Showing courage beyond call of duty, Major RK Sharma directed his sub team to give him covering fire. He unhesitatingly got up and though facing certain death, single handedly charged onto the well entrenched terrorist and from close quarters shot dead two more terrorists in a hail of bullet.

Major Rajinder Kumar Sharma displayed inspirational leadership, establishment of vibrant intelligence network, raw courage in eliminating three hardcore terrorists.

14.

IC-59235 MAJOR AMIT SLATHIA
11 BRIGADE OF THE GUARDS

[Effective date of the award: 10 June, 2008]

Major Amit Slathia systematically and relentlessly developed intelligence network around hardcore terrorists who were involved in brutal killings of Hindi speaking people and Police personnel, sabotage and extortion in Upper Assam.

On 10 June 2008 reliable information was received regarding presence of a hardcore terrorist alongwith 3-4 armed cadres in a village in District Dibrugarh (Assam). The source refused to accompany for fear of being detected. The officer

with intimate knowledge of terrain planned a meticulous operation and approached target area concealed in tea garden vehicle. As strike team reached suspected house terrorists opened indiscriminate fire on him at close range. Undeterred, displaying nerves of steel and indomitable courage the officer retaliated with effective fire, closed on the terrorists amidst volley of bullets and single handedly shot dead the dreaded terrorist in a fierce encounter.

At 1750 hours Subedar Sawar's party engaged terrorists from North, on being trapped terrorists tried to break contact. Major Amit and buddy Havildar Surender Nath Pandey with utter disregard to their personal safety moved to support other party under effective fire. Taking advantage of darkness a terrorist started to flee, the officer with his buddy displaying rare courage and determination chased him for 300 meters, adapting to darkness and engaging terrorist by aiming at the flash of barrel of terrorist's gun. He closed and shot dead a Self Styled Corporal. The operation resulted in elimination of three top leaders and recovery of three AK 47/56 Rifles and huge haul of arms and ammunition.

Major Amit Slathia displayed raw courage, undaunted bravery beyond the call of duty and decimating terrorist leadership in Upper Assam.

15. GO-3423Y ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL), SANTOSH KUMAR SINGH, BORDER ROADS ORGANISATION (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 13 June, 2008]

Assistant Executive Engineer (Civil) Santosh Kumar Singh who was an IIT graduate, was the Officer -In-Charge of 170 Formation Cutting Platoon under 118 Road Construction Company. He was member of the team responsible for the road Construction from Kishtwar-Sinthan Pass to National Highway 1A. This is also alternate axis to connect the Kashmir Valley from the rest of the country as at present only one axis NH1A connects the Kashmir Valley. Time bound completion of the road would also facilitate the Defence preparedness and economic development of the state.

Despite all the dangers of the high intensity insurgency, the brave and bold personnel of Border Road Organization operate in these difficult areas and are constructing the road infrastructures unarmed and without any protection. On 13 Jun 2008 AEE (Civ) Santosh Kumar Singh accompanied Lt Col Ajay Varma the Officer Commanding 118 RCC to the Sinthan Top on road Kishtwar-Sinthan-Anantnag, for the inspection of works and deployment of resources.

On completion of road inspection duty, while returning back he was ambushed at Km 59.00 by the militants who opened indiscriminate firing on him and injuring him grievously. The officer succumbed to his injuries later on.

Assistant Executive Engineer (Civil) Satnosh Kumar Singh displayed very high degree of courage, devotion dedication and technical skill while carrying out his duties in the insurgency area and made a supreme sacrifice for the nation.

**16 GS-168545L DRIVER MECHANICAL TRANSPORT GRADE-II
JAIKRIT SINGH RAWAT, BORDER ROADS ORGANISATION
(POSTHUMOUS)**

[Effective date of the award: 13 June, 2008]

Driver Mechanical Transport Gde II Jaikrit Singh Rawat was deployed as Driver Mechanical Transport in 118 Road Construction Company sector. This Road Construction Company is responsible for the prestigious project of construction of Road Kishtwar-Sinthan Pass to National Highway double lane specification. Being an alternate axis to connect the Kashmir Valley, the road assumes greater significance as presently only one axis NH1A connects the Kashmir Valley with the rest of the country. The time bound completion of the road will facilitate the Defence preparedness and economic development of the state.

On 13 Jun 2008, Dvr MT Gde II Jaikrit Singh Rawat accompanied the Lt Col Ajay Verma, Officer Commanding 118 RCC to Sinthan Top on road Kishtwa Sinthan-Anantnag (KSA), for the road inspection of work and deployment of resources. After completion of road inspection, while returning back, their vehicle was ambushed at Km 59 by the militants who opened indiscriminate firing on him and injured him grievously. MT DVR Gde II Jaikrit Singh Rawat succumbed to injuries later. Dvr MT Gde II Jaikrit Singh Rawat was a willing and skilled driver who drove vehicles at odds hours in difficult mountainous terrain in the intensive insurgency prone area without any fear.

Driver Mechanical Transport Grade-II Jaikrit Singh Rawat displayed courage, determination and remarkable devotion to duty in difficult mountainous terrain highly infested with the terrorists and made the supreme sacrifice.

**17. IC-67186 CAPTAIN ANIL DHIMAN
REGIMENT OF ARTILLERY / 268 FIELD REGIMENT**

[Effective date of the award: 15 June, 2008]

On 15 June 2008, Captain Anil Dhiman, received information of terrorists presence in a village in Sibsagar District (Assam). Leading from the front, he homed

on to the target location using guile in tactical operations, wading through nala in spate and crawling through thick undergrowth, surprised the terrorists and prevented their get away.

While establishing close cordon, his troops came under heavy fire. Undeterred, the officer closed on to the target house and readjusted the stops to block escape routes. Displaying indomitable courage, the officer crawled to the house entrance even as two terrorists rushed out firing indiscriminately. Seeing them fleeing, the officer fired and killed one terrorist on the spot, while the second terrorist ran towards grove firing from AK-56 rifle. With utter disregard to personal safety, the officer chased the terrorist amidst volley of fire and shot him dead.

Operation resulted in elimination of four hardcore terrorists and huge recovery of arms and ammunition. Captain Anil Dhiman displayed inspiring leadership, dogged determination and sound intelligence collection acumen in fighting the terrorists.

18. **JC-520181 SUBEDAR DHIAN SINGH**
DOGRA REGIMENT / 20 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 29 June, 2008]

On 29 June 2008 at 1715 hours, on detecting an infiltrating terrorist group, Subedar Dhian Singh alongwith three jawans rushed to occupy a crucial position to block their escape. At 0100 hours on 30 June, in extremely hostile weather and dense fog he maneuvered forward to challenge a group of six escaping terrorists. The terrorists responded with a heavy volume of automatic fire. Despite grave threat to personal life, he broke cover to close in and kill one terrorist during an intense exchange of fire during which he received a bullet injury and fell down a steep slope. In spite of profuse bleeding and grievous wounds, he continued to engage the terrorists at very close range for over an hour in total darkness and crawled forward to kill a second terrorist before succumbing to his injuries. His courageous and selfless action caused the terrorists to panic and prevented their escape. This resulted in subsequent elimination of the entire group of 12 terrorists.

Subedar Dhian Singh displayed conspicuous bravery and unparalleled valour and made the supreme sacrifice while fighting the terrorists.

19. GS-172264M SUPERINTENDENT BUILDING & ROAD GRADE-I M SUNDARAM, BORDER ROADS ORGANISATION (POSTHUMOUS)

[Effective date of the award: 02 July, 2008]

On 2nd July 2008 a very heavy land slide had occurred on Tawaghat – Ghatiabagarh Road resulting in 20 meter of a near vertical & unstable wall with mud and large boulder sliding down.

Supdt BR-I M Sundaram was detailed to clear and open the road. Supervisor started the road opening operation which was a daunting task along with his team and machinery. After some time a fresh slide started again and stone also started falling from hill side. However undeterred by land slide and boulders supervisor and party continued road clearance operation. However after some time intensity of shooting stones increased. Supervisor M Sundaram with his presence of mind and without caring for his personal safety, alerted and warned his men and got them out of the danger zone. As he was to leave last in the process, one shooting stone hit the Supdt BR-1 Sundaram on the head, by which he lost his balance and fall in a valley side 60 meters deep, where he died instantaneously.

Supdt BR-I M Sundaram displayed extraordinary courage and valour in adverse circumstances and made the supreme sacrifice while trying to save the lives of fellow workers.

**20. 2998941 LANCE NAIK BANAI SINGH GURJAR
22 RAJPUT REGIMENT**

[Effective date of the award: 28 July, 2008]

On 28 July 2008, Lance Naik Banai Singh Gurjar was deployed at the observation post of Atma Company of 22 RAJPUT, when he observed enemy personnel walking across the Line of Control (LoC) into own territory with a white flag and later deceitfully attempting to shoot at and overpower our patrol located close to the LoC. Lance Naik Banai Singh moved swiftly from the observation post to occupy a firing position and came under intense fire as the enemy targeted our patrol and killed one jawan. Crawling forward, he changed position and brought accurate automatic fire from his light machine gun on to the enemy killing two enemy soldiers including an officer, which broke the spirit of the enemy party. Holding his position, he caused further casualties as the enemy dispersed.

Under intense fire, he then proceeded to assist in extrication of the body of the deceased colleague and helping the Company Commander to move his men to safety.

Lance Naik Banai Singh Gurjar displayed valour exceptional tactical sense and commitment to comrades in fighting the terrorists.

21.

3189649 NAIK SUKHVIR
JAT REGIMENT / 45 RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 22 August, 2008]

On 22 August 2008 at 0330 hours Naik Sukhvir accompanied his Company Commander, on being informed about the presence of terrorists in the Nao Nar in Kupwara District of Jammu and Kashmir. In a swift move on a harsh and rocky terrain, the team reached the site and divided itself in two groups including the one under Naik Sukhvir to cut off the escape routes.

Naik Sukhvir spotted four terrorists taking cover inside a cave. Displaying extraordinary tactical acumen and skilful use of ground he moved closer to the hideout and prevented the escape of terrorist by covering the hideout by fire.

Next morning, two of the four holed up terrorists tried to escape while firing at the team of Naik Sukhvir. Displaying maturity, leadership and tactical acumen Naik Sukhvir killed both the terrorists at an extremely close range. Other two terrorists were neutralised by the troops of 56 RR later.

Naik Sukhvir displayed exceptional courage, determination and leadership in eliminating the terrorists.

22.

3199037 SEPOY SANNY TOMAR
JAT REGIMENT / 45 RASHTRIYA RIFLES

[Effective date of the award: 22 August, 2008]

On 22 August 2008 at 0330 hours, Sepoy Sanny Tomar moved with the Quick Reaction Team, on being informed of an encounter with the terrorists in Kupwara district of Jammu and Kashmir. Sepoy Sanny Tomar was the leading man when the team came in contact at 0630 hours. In the ensuing close combat the Commanding Officer lost his life while killing three terrorists.

Throughout the day, one terrorist who had taken up an impregnable cover in a cave, prevented any further move or evacuation of the fatal casualties despite all efforts. On 23 August, 2008 at 0500 hours, Sepoy Sanny Tomar having moved himself through the jagged rocks to a spot just above the holed up terrorist, eliminated him.

The physical manoeuvre of Sepoy Sanny Tomar brought him in sight of another terrorist at a distance of about 75 meters above him. Though alone, undeterred, he moved up and eliminated the second terrorist single handedly in a close quarter combat.

Sepoy Sanny Tomar displayed exceptional courage professional acumen and extraordinary commitment in eliminating two foreign terrorists.

23. IC-67664 CAPTAIN RAVINDER SINGH, 11 JAT REGIMENT

[Effective date of the award: 03 September, 2008]

On 03 September 2008, Captain Ravinder Singh on hearing about the contact with terrorists by Tony Hut, rushed with the team through a known mine field and established a stop in deep nala to prevent terrorists escape towards line of control. On 04 Sep 2008 he was fired upon indiscriminately by a terrorist from an entrenched and advantageous position. Completely disregarding his personal safety he crawled to a flank in treacherous nala in water under heavy fire and charged at the terrorist. In close quarter battle Captain Ravinder Singh shot dead the terrorist. On 05 September 2008, he now out in operation for 72 hrs. In rain and extreme cold weather, he spotted one more terrorist trying to escape. He crawled under covering fire from his party and showing a dare devil's heart and putting his own life at risk eliminated another terrorist at a close range.

Captain Ravinder Singh displayed conspicuous bravery and valour in the face of heavy odds in fighting against the terrorists.

24. IC-67443 CAPTAIN R BALAKARTHIK, 10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

[Effective date of the award: 25 September, 2008]

On 25 September 2008, Captain R Balakarthisk was tasked to intercept a group of terrorist at an altitude of 14000 feet in rugged mountainous terrain in General Area LAWANZ.

At approximate 1815 hours, Captain Balakarthisk observed a group of terrorist moving. Exploiting the opportunity, he with mere three soldiers rushed towards the terrorists and firefight ensued, in which three terrorists were killed. However, some terrorists using twilight conditions hid behind the boulders. In spite of being heavily outnumbered on a moonless night in hostile terrain with sub zero temperature, he located one terrorist and killed him.

On 26 September 2008 at approximate 1130 hours, while approaching towards suspected terrorist location, he and his buddy came under fire from behind a boulder. In a lightening reaction, unmindful of his personnel safety displaying bold audacity he pushed his buddy behind a boulder and rushed towards the terrorist killing him at dangerously close range.

Captain R Balakarthik displayed conspicuous bravery, inspiring leadership in difficult rugged high altitude terrain and tactical acumen in fighting the terrorists.

25. **IC-65706 CAPTAIN KULDEEP RAJ, 21 JAT REGIMENT**

[Effective date of the award: 26 September, 2008]

On 25 September 2008, Captain Kuldeep Raj received information regarding infiltration of terrorists from Bangladesh, suspected to be moving during night. After quick appreciation and analysis of the received input, he carried out detailed and meticulous planning for laying multiple ambushes on the likely infiltration route.

At around 0315 hours, scouts noticed the movement of a group of people and alerted the ambush parties. On being challenged, the terrorists lobbed a grenade on ambush party and started firing indiscriminately in an attempt to escape towards nearby down slope. Captain Kuldeep Raj, immediately ordered for retaliatory fire to pin down the fleeing terrorists. During the ensuing firefight, Captain Kuldeep Raj received a bullet shot at his chest but remained unscathed due to his bulletproof jacket. With utter disregard to own personal safety, he dashed ahead and killed two terrorists single handedly in a close fire fight. He then saw a terrorist fleeing through the paddy fields. He immediately rushed down slope and chased the fleeing terrorist in the waterlogged paddy fields, the terrorist lobbed a grenade but Captain Kuldeep Raj with his tactical skills fired and injured the fleeing terrorist. He took control of the situation and carried out quick appreciation to coordinate detailed search of the area. During the search seven dead bodies of terrorists were recovered alongwith huge quantity of arms, ammunition, explosives, warlike stores and other documents.

Captain Kuldeep Raj displayed conspicuous gallantry, meticulous planning, methodical execution and inspirational leadership of the highest order in eliminating terrorists.

26. **SS-42418 LIEUTENANT PRASHANT SIWACH**
10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

[Effective date of the award: 26 September, 2008]

Lieutenant Prashant Siwach was the Troop Commander on 26 September 2008 when he was tasked to reinforce another troop which was deployed to contain the terrorist in a boulder ridden mountainous cave, at an altitude of 14000 feet.

Displaying mental strength Lieutenant Siwach directly climbed this altitude without any acclimatization to support his comrades. Quickly judging the situation he alongwith his buddy rushed towards the location of hiding terrorist from where the terrorists were firing intermittently. Unmindful of his own safety, he located and approached the terrorist with stealth and shot dead one terrorist at close range. However, on hearing his comrade being shot, the other terrorist hiding nearby threw a grenade towards Lieutenant Siwach and his buddy and started firing.

Notwithstanding the danger to his own life, in a display of bravery and dynamic leadership shouted towards his buddy to take cover, simultaneously firing at second terrorist killing him.

Lieutenant Prashant Siwach displayed conspicuous bravery, camaraderie, outstanding leadership under fire and harsh climatic and terrain condition while fighting against the terrorists.

27. **4184821 HAVILDAR TRIBHAWAN SINGH**
10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

[Effective date of the award: 29 September, 2008]

Havildar Tribhawan Singh played pivotal role in locating telltale marks and led as scout, right through the move and reached high altitude terrain to establish contact with a terrorist group.

On 29 September 2008, one of the terrorist's was firing hidden somewhere in boulders, hampering the advance of own troops towards cave. Havildar Tribhawan volunteered for this dangerous mission to clear the route. Displaying excellent field craft and firing skills he closed on with the terrorist. Displaying camaraderie of exception order, attracted attention of terrorist towards himself simultaneously firing and killing him.

However after this, Havildar Tribhawan came under heavy fire from the cave area. Undeterred, acting with steel nerve, he retaliated, firing at them killing one more terrorist near the cave.

Havildar Tribhawan Singh displayed conspicuous gallantry, unmindful of personal safety, robust determination under dangerously hazardous conditions in fighting the terrorists.

28. **IC-63425 CAPTAIN AMITENDRA KUMAR SINGH**
REGIMENT OF ARTILLERY / 51 SPECIAL ACTION GROUP

[Effective date of the award: 27 November, 2008]

On 27 November 2008, Captain Amitendra Kumar Singh, was tasked to locate and eliminate terrorists from Hotel Oberoi, Mumbai, where terrorists had already killed approximately 34 civilians.

The officer led his team, which rescued 39 foreign and Indian nationals, in the hour of total darkness. While carrying out Intervention in the suspected rooms, his team drew fierce fire from the terrorists. With utter disregard to personal safety, he kept moving towards the entrance of the target room.

He immediately deployed his team to plug all the escape routes and started closing in with the terrorists. Seeing him advance towards them, the terrorists lobbed grenades and kept firing at his team. Undeterred the officer kept moving forward using fire and move tactics till he was hit by a splinter of the grenade, injuring his left eye. Despite the grievous injury, the officer continued to bring down effective fire on the terrorists and led his team till he became unconscious.

Captain Amitendra Kumar Singh displayed exceptional leadership, indomitable spirit, conspicuous bravery and dedication towards duty in fighting the terrorists.

29. **2601184 NAIK MANESH PV**
MADRAS REGIMENT / 51 SPECIAL ACTION GROUP

[Effective date of the award: 27 November, 2008]

On 27 November 2008, Naik PV Manesh, was part of the team, tasked to locate and eliminate terrorists from Hotel Oberoi, Mumbai where terrorists had already killed approximately 34 civilians.

Naik Manesh voluntarily led his team which rescued 39 foreign and Indian nationals. He conducted the entire rescue operation in total darkness. While carrying out Intervention Operation in the suspected room, his team drew fierce fire from the terrorists, undeterred and with utter disregard to personal safety he kept firing towards the entrance of the target room.

Immediately, he led and guided his Squad to plug the escape routes and started closing in with the door under cover fire. The terrorists opened fire and lobbed grenades at the Squad in which Nk Manesh got splinter injury in his skull and started bleeding profusely. He refused to be evacuated, kept engaging the terrorists and stormed inside the target room. During the fierce fire fight Naik Manesh killed one of the terrorists a close range, before losing consciousness due to loss of blood.

Naik PV Manesh displayed exemplary bravery, undaunted valour, resolute determination and dedication towards the mission beyond the call of duty in fighting the terrorists.

30. **PRAVEEN KUMAR, SEA I CD II, (132949-H)**

[Effective date of the award: 27 November, 2008]

Praveen Kumar, a MARCOS sailor was part of the team which carried out counter terrorist operation at Hotel Taj on 27 November 2008.

At around 0230 hours on 27 November 2008, the MARCOS quick reaction team was involved in counter terrorist operation at Hotel Taj at Colaba. Praveen Kumar being the point man of the team tactically led the group towards the holed up terrorist who were engaged in a killing spree.

On the basis of an input from hotel staff, the MARCOS team quickly reached the chamber hall wherein approximately 150 hostages had taken refuge. Praveen Kumar quickly appreciated the gravity of the situation wherein any delay towards neutralizing the terrorist would have endangered the lives of the hostages. Praveen Kumar made an entry into the adjoining room which was unlit. The terrorist hiding inside the room resorted to firing of automatic weapons. In the ensuing firefight Praveen Kumar displayed extreme alertness and nerves of steel and despite being injured with gun shot wounds continued firing at the terrorists. Praveen's smart reflexes and effective fire unnerved the terrorists who ran way from an exit to a room on the upper floor leaving behind their rucksack containing varied ordnance items. The exit of the terrorists essentially prevented them from entering the adjoining hall where around 150 hotel guests were held up who were then conducted to safety by the MARCOS team.

Praveen Kumar displayed exceptional courage and initiative in the face of great danger in fighting the terrorists.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 169, dated 3rd March 2009.—The President is pleased to appoint Smt. Nirupma Kumar, IRAS (91) on transfer from the Ministry of Railways, as Director in the Department of Defence, Ministry of Defence w.e.f. 12.2.2009 (AN) for a period of five years i.e. up to 12.2.2014 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint the following PPS (ad-hoc) in the Ministry of Defence as Principal Private Secretaries on regular basis in this Ministry in the revised Pay Band (PB-3) of Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- w.e.f. the forenoon of 12.2.2009 on inclusion of their names in the Select List 2004 and their approved service will be reckoned w.e.f. 1.7.2004:—

Name, Select list year in which included, Date of commencement of approved service

Shri GV Singh, PPS, MoD, 2004, 1.7.2004

Shri BC Mehta, PPS, MoD, 2004, 1.7.2004

The President is pleased to appoint Shri M. Sasidharan, PPS (ad-hoc) in the Ministry of Defence, as Principal Private Secretary on regular basis in this Ministry in the revised Pay Band (PB-3) of Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 6600/- w.e.f. the forenoon of 12.2.2009 on inclusion of his name in the Select List 2003 and his approved service will be reckoned w.e.f. 1.7.2003.

K MURALI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 170, dated 3rd March 2009.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under 15/79 as amended and GoI MoD letter Nos. 10(3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 & 29 Oct 07.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Probation)

Yogesh (DS-12311A), 21.07.2008

The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Captain (On Probation)

Senthil Kumar C (DS-12249Y), AD Corps, 29.09.2007

(with seniority for pay and promotion from 29.03.2004 (includes 42 months ante date for undergone post-graduation course of Master of Dental Surgery (MDS) in Oral & Maxillofacial Surgery for a duration of three years from Govt

Dental College, Thiruvanthapuram, Kerala, and 06 months ante date for paid job of Asstt Dental Surgeon & Lecturer in Sri Ramakrishna Dental College & Hospital, Coimbatore, during 16.02.2003 to 26.05.2004 which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 12.04.2008 in so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

Srigirivas R (DS-12241M), AD Corps, 26.03.2007

(with seniority for pay and promotion from 26.03.2004 (includes 36 months ante date for undergone post-graduation course of Master of Dental Surgery (MDS) in Oral & Maxillofacial Surgery for a duration of three years from Govt Dental College, Thiruvanthapuram, Kerala, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 05.04.2008 in so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

Ranjeet Panwar (DS-12302Y), 31.03.2008

(with seniority for pay and promotion from 30.09.2007 (includes 06 months ante date for paid job of Lecturer in Sudha Rustagi College of Dental Sciences and Research, Faridabad, during the period from 12.01.2007 to 17.12.2007, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 13.09.2008 in so far as it pertain to the officer is hereby cancelled.

D K TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 171, dated 3rd March 2009.—The President is pleased to make the following appointments:—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist (s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8000-275-13500/- (Pre-revised):—

Name, Estt./Lab, Date of Joining

Ms C Ruba, ADE, Bangalore, 22.09.2005

Shri Shikhandt Gupta, ARDE, Pune, 14.11.2007

Shri Y Manohar, ASL, Hyderabad, 23.05.2007

Ms G Asha, ASL, Hyderabad, 23.05.2007

Shri Pushkar Lal Vijayvergiya, CABS, Bangalore, 23.08.2007

Shri Bilal Ahmad Shah, CAIR, Bangalore, 22.09.2005

Shri Akash Gupta, CAIR, Bangalore, 23.05.2007

Shri Chandan Kumar, DARE, Bangalore, 23.05.2007
 Ms Kalpana Kalsi, DEAL, Dehradun, 22.09.2005
 Shri Saurabh Sharma, DEAL, Dehradun, 06.08.2007
 Shri Om Dev, DLJ, Jodhpur, 23.05.2007
 Shri Ajitabh Bora, DRL, Tejpur, 13.02.2008
 Ms Anuradha Toppo, DRDE, Gwalior, 31.03.2008
 Shri Mukesh Kumar Meena, SASE, Chandigarh, 27.02.2008
 Shri Shashank Mishra, SASE, Chandigarh, 28.02.2008
 Shri Syed Alfaz Daniyal, SASE, Chandigarh, 22.09.2005
 Ms Preeti Garg, SSPL, Delhi, 23.05.2007
 Shri Vikash Kumar Singh, SSPL, Delhi, 23.05.2007
 Shri Kannan A, VRDE, Ahmednagar, 30.01.2008

T ABDURRASSAK
 Jt Dir (Pers)

ARMY BRANCH

No. 172, dated 3rd March 2009.—The President is pleased to make the following commission:—

TERRITORIAL ARMY
 TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Jitender Kumar (TA-42698), Railway (TA), 23 Aug 07 (FN)
 Sarvagya Bairva (TA-42704), Railway (TA), 16 Jan 08 (FN)

JAI RAJ
 Under Secy

No. 173, dated 4th March 2009.—The President is pleased to extend the tenure of deputation of IC-47634 Lt Col D P K Pillai, Guards of ADG TAC Army Hqrs, as Planning Officer (Defence), Ministry of Defence, for a period of 3 months beyond 1.1.2009 and upto 31.3.2009 or till further orders, whichever is earlier.

K MURALI
 Under Secy

ARMY BRANCH

No. 174, dated 4th March 2009.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Permanent Commission on successful completion of probationary period of two years in terms of AI 37/78 as amended.

REGULAR ARMY
 (ARMY DENTAL CORPS)
 PERMANENT COMMISSION
 CONFIRMATION

Maj Bhupinder Singh (DR-10595W), 24.01.2003
 Maj Parvinder Sharma (DR-10600W), 19.02.2004
 Capt Rahul Pratap Singh (DR-10621M) (DS-12146A), 15.04.2005

SHORT SERVICE COMMISSION
 CONFIRMATION

Capt Gaurav Dua (DS-12222F), 12.05.2006
 Capt Shyam Sakhuja (DS-12251W), 16.10.2007
 Capt Dushyant Chopra (DS-12255M), 27.12.2007
 Capt Jaipreet Singh Joneja (DS-12257X), 28.12.2007

D K TAJEJA
 Maj Gen
 Addl DGDS

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 175, dated 4th March 2009.—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following Officers:—

REGULAR ARMY
 PERMANENT COMMISSION
 To be Substantive Lt General

Rank & Name (IC No.), Arm, Date of Subs rank
 Maj Gen Bikram Singh, AVSM, SM, VSM (IC-25816), Sikh LI, 25.11.08 with seniority from 01.11.08 without effect on pay and pension
 Maj Gen Chetinder Singh, SM, VSM (IC-25825), 7 Cav, 25.11.08 with seniority from 01.11.08 without effect on pay and pension
 Maj Gen HPS Klair, SM (IC-25836), Guards, 25.11.08 with seniority from 01.11.08 without effect on pay and pension
 Maj Gen Jasbir Singh, AVSM, VSM (IC-27034), Dogra, 11.12.08 with seniority from 01.12.08 without effect on pay and pension
 Maj Gen BK Chengappa, AVSM (IC-32782), Garh Rif, 11.12.08 with seniority from 01.12.08 without effect on pay and pension
 Maj Gen Ram Pratap, VSM (IC-32844), AAD, 01.12.08

N K PHUKAN
 Dir/MS (X)

ARMY BRANCH

No. 176, dated 4th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
 PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)
 Lt Col Manjit Singh (IC-33732W), AOC, 16 Dec 2004
 Lt Col CS Bhogal (IC-37494M), Inf, 17 Nov 2005
 Lt Col Abhay Mehta (IC-37578A), AOC, 30 Apr 2006
 Lt Col RS Dhillon (IC-37744H), AOC, 29 Apr 2007

Lt Col Bharat Bhushan (IC-38393L), AOC, 22 Dec 2005
 Lt Col VK Sharma (IC-38415Y), Inf, 22 Dec 2005
 Lt Col VK Mehandru (IC-38474L), Arty, 22 Dec 2005
 Lt Col Deepak Malhotra (IC-38565P), ASC, 22 Dec 2005
 Lt Col Yoginder Singh (IC-38613K), AEC, 22 Dec 2005
 Lt Col KC Naik (IC-38628M), AEC, 22 Dec 2005
 Lt Col RK Kalia (IC-38840K), Arty, 07 Jun 2006
 Lt Col AS Pote (IC-38841M), Arty, 07 Jun 2006
 Lt Col AA Hussain (IC-38953M), Arty, 07 Jun 2006
 Lt Col Anil Avasthi (IC-39015F), AOC, 07 Jun 2006
 Lt Col SB Konnur (IC-40062H), Mech Inf, 19 Dec 2007
 Lt Col KM Mohapatra (IC-40271A), AEC, 19 Dec 2007
 Lt AR Panwar (SL-02933N), SL (RO), 22 Jul 2008
 Lt Col BS Dhalta (IC-37377F), Inf, 01 May 2005
 Lt Col AK Soni (IC-31850L), Inf, 16 Dec 2004
 Lt Col NS Mahara (IC-34644M), ASC, 16 Dec 2004
 Lt Col CP Ramchandani (IC-35614F), Engrs, 16 Dec 2004
 Lt Col VK Prasad (IC-37322X), AOC, 01 May 2005
 Lt Col Kende Hemant P (IC-37484H), Arty, 15 Nov 2005
 Lt Col RK Singh (IC-37535Y), Engrs, 16 Dec 2004
 Lt Col Anil Tyagi (IC-37613X), Inf, 30 Apr 2006
 Lt Col Rajesh Mishra (IC-37852M), Inf, 12 Nov 2007
 Lt Col KS Omar (IC-37918X), EME, 27 Apr 2008
 Lt Col Mario Magima (IC-37919A), AOC, 27 Apr 2008
 Lt Col Ravinder Singh (IC-38166L), AOC, 09 Jun 2005
 Lt Col NS Randhawa (IC-38426L), AOC, 22 Dec 2005
 Lt Col Ashwani Sharma (IC-38978Y), Inf, 07 Jun 2006
 Lt Col ML Sawant (IC-39096K), AOC, 13 Dec 2006
 Lt Col RB Paleti (IC-39397N), ASC, 13 Dec 2006
 Lt Col HK Arora (IC-39842F), Engrs, 13 Jun 2005
 Lt Col VK Pillai (IC-39928A), Arty, 19 Dec 2007
 Lt Col Anil Malhotra (IC-40114N), Inf, 19 Dec 2007
 Lt Col SP Rajan (IC-40276Y), Engrs, 23 Dec 2005
 Lt Col Rakesh Pande (IC-40537F), Arty, 12 Jun 2008
 Lt Col RR Verma (IC-40602W), Arty, 12 Jun 2008
 Lt Col VK Choubey (IC-40667K), Engrs, 12 Jun 2006
 Lt Col KK Bardhan (IC-41047A), Engrs, 24 Dec 2006
 Lt Col MS Sunderam (IC-41062P), EME, 24 Dec 2006
 Lt Col SP Sharma (IC-37119F), Arty, 16 Dec 2004
 Lt Col MP Singh (IC-37523W), AC, 15 Nov 2005
 Lt Col VG Jagdale (IC-38327H), Arty, 22 Dec 2005

Lt Col Sajjad Ali (IC-39901H), Inf, 19 Dec 2007
 Lt Col Inderjit Singh (IC-40071K), Inf, 19 Dec 2007
 Lt Col KR Dhaka (IC-40310N), Sigs, 12 Jun 2008
 Lt Col AK Singh (IC-40502L), Int, 12 Jun 2008
 Lt Col NK Harinarayanan (IC-40558X), Inf, 12 Jun 2008
 Lt Col RK Sinha (IC-35763P), Arty, 16 Dec 2004
 Lt Col Aketi Sudheer (IC-35991X), Inf, 09 Jun 2005
 Lt Col S Praharaj (IC-37904X), Sigs, 27 Apr 2008
 Lt Col JP Sharma (IC-38920F), Engrs, 07 Jun 2006
 Lt Col JS Dhanoa (IC-40024M), AC, 19 Dec 2007
 Lt Col RS Gulia (IC-40464A), Inf, 12 Jun 2008

Major to be Substantive Lt Col (Time Scale)

Maj MMP Jayadev (IC-38894L), Arty, 07 Jun 2000

RAHUL SHARMA

Lt Col
AMS 8

ARMY BRANCH

No. 177, dated 5th March 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt Col

Maj SK Bose (TA-42054), Engr, 16 Dec 2004
 Maj Jagat Pal (TA-41945), Engr, 16 Dec 2004
 Maj SS Joshi (TA-41959), Engr, 14 Mar 2005
 Maj Jaswant Singh (TA-42118), Engr, 03 Jun 2006
 Maj B Mundia (TA-42196), Engr, 15 Mar 2007
 Maj Ram Prakash (TA-42109), Engr, 28 May 2006
 Maj Madan Singh (TA-42201), Engr, 06 Oct 2008
 Maj DY Naik (TA-42204), Engr, 28 Mar 2008
 Maj VK Singh (TA-42047), Engr, 16 Dec 2004
 Maj Shashi Bhushan (TA-42143), Engr, 23 Jul 2007
 Maj Awadesh Pandey (TA-41942), Engr TA, 16 Dec 2004
 Maj Harsh Varman (TA-42089), ASC TA, 20 May 2006
 Maj Sanjay Kumar (TA-42153), ASC TA, 07 Dec 2007
 Maj J J Jayakumar (TA-42168), Engr TA, 01 Dec 2007
 Maj AP Singh (TA-42169), Engr TA, 01 Dec 2007
 Maj AK Jain (TA-42031), Infantry, 16 Dec 2004
 Maj MS Rathore (TA-42081), Infantry, 16 Jun 2005
 Maj AN Pandeya (TA-42138), Infantry, 28 Aug 2007
 Maj Krishna Kumar (TA-42286), Infantry, 07 Jul 2005

Maj KS Jaggi (TA-42521), Infantry, 13 Jul 2006
 Maj KK Donge (TA-42129), Infantry, 11 Aug 2006
 Maj US Rathore (TA-42181), Infantry, 15 Jun 2008
 Maj Mandeep Sandhu (TA-42194), Infantry, 04 Oct 2008
 Maj Ajay Nehra (TA-42458), Infantry, 14 Jan 2008
 Maj Kapil Khanna (TA-42154), Engr, 28 Oct 2007
 Maj PK Mishra (TA-41746), Engr, 16 Dec 2004

To be Maj

Capt G Shrinivas Rao (TA-42218), Infantry, 07 Jul 2008
 Capt SS Brar (TA-42386), Infantry, 16 Dec 2004
 Capt JR Prabhu (TA-42413), Infantry, 16 Dec 2004
 Capt Amit Sharma (TA-42422), Infantry, 16 Jun 2007
 Capt Mohit Singh (TA-42429), Infantry, 15 Sep 2007
 Capt BP Pathak (TA-42430), Infantry, 27 Sep 2007
 Capt PS John (TA-42446), Infantry, 29 Mar 2008
 Capt Rahul Sharma (TA-42450), Infantry, 07 Apr 2008
 Capt DT Jamir (TA-42454), Infantry, 26 Apr 2008
 Capt SS Gill (TA-42457), Infantry, 16 Dec 2004
 Capt Gurpaljit Singh (TA-42519), Infantry, 16 Dec 2004
 Capt TS Bajwa (TA-42605), Infantry, 20 Jun 2007
 Capt Amitabha Shee (TA-42432), Engr, 02 Sep 2007
 Capt Narender Kumar (TA-42245), Engr, 16 Dec 2004
 Capt MF Zuberi (TA-42340), Engr, 01 Apr 2005
 Capt Pradeep Kumar (TA-42237), Engr, 16 Dec 2004
 Capt BB Singh (TA-42041), Engr, 16 Dec 2004
 Capt RK Sanger (TA-42071), Engr, 16 Dec 2004
 Capt SK Kashyap (TA-42087), Engr, 16 Dec 2004
 Capt SK Bose (TA-42054), Engr, 31 May 2001
 Capt Shashi Bhushan (TA-42143), Engr, 23 Jul 2004
 Capt Ram Prakash (TA-42109), Engr, 15 Jan 2007
 Capt VK Singh (TA-42047), Engr, 01 Jul 2003
 Capt CP Sharma (TA-42363), Engr, 01 Dec 2005
 Capt SK Mishra (TA-42402), Engr, 15 Jan 2007
 Capt DY Naik (TA-42204), Engr, 16 Dec 2004
 Capt Madan Singh (TA-42201), Engr, 16 Dec 2004
 Capt Ajay Rudra (TA-42497), Engr, 27 Nov 2008
 Capt Narendra Singh Negi (TA-42409), Engr, 01 Mar 2007
 Capt N Kashinath (TA-42045), Engr, 16 Dec 2004
 Capt S Ram Subbu (TA-42052), Engr, 15 Mar 2005
 Capt Mohan Dudeja (TA-42090), Engr, 09 May 2003
 Capt Kapil Khanna (TA-42154), Engr, 28 Oct 2004

To be Capt

Lt P Mandal (TA-42025), Engr, 16 Dec 2004
 Lt SK Jha (TA-42250), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Lokesh Vishnoi (TA-42355), Engr, 16 Dec 2004
 Lt P Ananth (TA-42241), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Ravindra Gupta (TA-41923), Engr, 16 Dec 2004
 Lt GS Bhawaria (TA-42247), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Anil Yadav (TA-42381), Engr, 16 Dec 2004
 Lt M Selvaraj (TA-42093), Engr, 16 Dec 2004
 Lt MF Zuberi (TA-42340), Engr, 01 Apr 2003
 Lt Boota Singh (TA-41973), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Irfan Beg (TA-42055), Engr, 16 Dec 2004
 Lt S Mehra (TA-42117), Engr, 16 Dec 2004
 Lt AK Gupta (TA-42063), Engr, 16 Dec 2004
 Lt MK Deouskar (TA-42287), Engr, 16 Dec 2004
 Lt RK Gupta (TA-42048), Engr, 16 Dec 2004
 Lt S Srinivas (TA-42086), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Kamal Nayan (TA-42112), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Sudhir Ranjan (TA-42120), Engr, 16 Dec 2004
 Lt RS Sinha (TA-42130), Engr, 16 Dec 2004
 Lt SK Bansal (TA-42137), Engr, 16 Dec 2004
 Lt S Gagarin (TA-42145), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Selvadurai S. (TA-42246), Engr, 16 Dec 2004
 Lt R Raguraman (TA-42261), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Arun Kumar (TA-42074), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Raj Singh (TA-42073), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Sunil Kumar (TA-42121), Engr, 16 Dec 2004
 Lt AK Sinha (TA-42127), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Ram Prakash (TA-42109), Engr, 16 Dec 2004
 Lt SK Mishra (TA-42402), Engr, 16 Dec 2004
 Lt UK Singh (TA-42408), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Alok Katiyar (TA-42304), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Ajay Rudra (TA-42497), Engr, 16 Dec 2004
 Lt RP Verma (TA-42075), Engr, 16 Dec 2004
 Lt SN Sah (TA-42099), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Jyotindra Digi (TA-42113), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Vivek Kumar (TA-42229), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Vivek Khare (TA-42276), Engr, 16 Dec 2004
 Lt AT Dharmik (TA-42295), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Ravindra B Bhargav (TA-42338), Engr, 16 Dec 2004
 Lt CP Sharma (TA-42363), Engr, 01 Dec 2003

Lt Shivendra Mohan (TA-42251), Engr, 16 Dec 2004
 Lt MK Sinha (TA-42373), Engr, 16 Dec 2004
 Lt Amitabh Shee (TA-42432), Engr, 16 Dec 2004

JAI RAJ
 Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 178, dated 5th March 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (SC)

Lt to be Capt

SC No., Names & Arm

00510 Rajesh Chand, AAD
 00511 Roshan Singh, Arty
 00512 Arvind Chatteria, Arty
 00513 D Rajendraprasad, Arty
 00514 U Ajith Kumar, AAD
 00515 Kailash Chandra Arya, Arty
 00516 Manindra Kumar Goswami, Arty
 00517 Onkar Singh, Arty
 00518 Kaushal Kishor Tripathi, Arty
 00519 Ravi S, Arty
 00520 G Alaguraju, Arty
 00521 Chandra Shekar R, AAD

—09 Dec 2008—

IC No., Names & Arm

65908 Harmik Singh, AOC
 65909 Tekawade Atul Maruti, AAD
 65910 Pophale Dinesh Anant, Int
 65912 Dharmendra Kumar Tiwari, Inf
 65914 Aditya Sai G N D, Arty
 65916 Dharmendra Jairam Singh, Engrs
 65917 R Vigin Ravi, Inf
 65918 Tharwani Haresh Bhagwandas, AAD
 65920 Amandeep Singh Aulakh, Inf
 65921 Karan Singh, Inf
 65922 Prashant Kumar Deshmukh, Inf
 65923 Amit Yadav, AOC
 65924 Yash Srivastava, Engrs

65925 Sisir Chettri, Inf
 65926 N Madhu, Inf
 65930 Vinay Sahajpal, ASC
 65932 Amit Issar, AC
 65933 Sunder Raj, EME
 65935 Amrinder Singh Bains, ASC
 65937 Kamaldeep Singh, EME
 65938 Enos Massey, Inf
 65939 Romel, AOC
 65940 Sudipta Poti, ASC
 65943 T Satish Babu, Inf
 65944 Ravneesh Bhatt, Sigs
 65946 Vipul Sharma, Inf
 65949 Vikram Deshpande, ASC
 65950 Jayant Joshi, EME
 65951 Bhupender Singh, ASC
 65952 Kumar Saurav, AC
 65956 Vijay Chand, Inf
 65958 Amit Mohapatra, Arty
 65959 Mohan V, Inf
 65960 Karan Mehta, AC
 65961 Harish Chander, Inf
 65963 Vikash Kumar, Inf
 65964 Tarnbir Singh Minhas, AC
 65965 Anoop Rana, AOC
 65967 Athul Sreedharan, Inf
 65968 Harish Dhariwal, ASC
 65969 Alok Singh, Engrs
 65970 Ajay Kumar, Int
 65976 Kamal Bhatt, Inf
 65978 Naveen N, Inf
 65979 Prshant Rai, Inf
 65980 Varun Pathak, Engrs
 65983 Manoj Kumar Bose, Inf
 65985 Ishwant Singh, Inf
 65987 Mayank Pundeer, Inf
 65988 Deepak Bayala, AC
 65991 Chankya Singh Khangarot, AC
 65992 Abhishek Datta, Arty
 65993 Saurabh Dutt, Engrs
 65994 Lakshmi Naryan Das, AOC

65996 Aashish Malhotra, AOC
 65997 Dubey Shashi Narendra, Sigs
 66000 Praveen Sharma, Arty
 66001 Arvind Kapoor, Inf
 66003 Y Suresh Kumar, AC
 66010 Kulveer Singh Gahlawat, EME
 66011 Ashok Kumar, Inf
 66013 Chakradhar Sanyal, Sigs
 66014 Tandeep Dhindsa, Arty
 66016 Diwakar Parmar, AC
 66018 Mohiteshwar Thakur, Inf

—06 May 2006—

SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Lt to be Capt

Name (WS No.), Arm, Seniority, Course, Revised date of seniority for promotion/Date of promotion for substantive Capt

Shubhra Sambyal (WS-00934), AOC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Preeti Kanwar (WS-00941), AOC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Neha Singh (WS-00947), AAD, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Namrata Dhasmana (WS-00949), ASC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Tanushree Banerjee (WS-00950), EME, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Megha Mathur (WS-00956), ASC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Kulkarni Kanchan Subhash (WS-00958), Engrs, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Sapna Rani (WS-00961), ASC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Sujata Mandotra (WS-00964), AAD, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Neha Bhatia (WS-00965), Engrs, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

S Eswari (WS-00967), Engrs, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Pushwinder Kaur (WS-00968), AOC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Ruchika (WS-00970), JAG, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Neeta Banik (WS-00971), ASC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Aparna Gulati (WS-00972), ASC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Navneet Kaur (WS-00974), AOC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Dolly (WS-00975), ASC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Rajshri (WS-00976), JAG, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Jyoti (WS-00977), AOC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Iman (WS-00980), AAD, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Kajal Kiran Singh (WS-00983), ASC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Shweta Prabhati (WS-00984), AAD, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Lata Sharma (WS-00985), AOC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Pooja Ghildiyal (WS-00986), AOC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Sangeeta Kumari (WS-00987), ASC, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Parul Chaudhary (WS-00989), Engrs, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Amandeep Kaur Sembi (WS-00990), Engrs, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Annu Dogra (WS-00992), JAG, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Shambhavi Singh (WS-00994), Engrs, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

Manisha Jakhmola (WS-00995), EME, 17 Sep 2004, WSESO-24 (NT), 17 Sep 2005/17 Sep 2007

JASWANT SINGH
 Jt. Dir.
 MS-8C

No. 179, dated 5th March 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY CORPS OF ENGINEERS MES
 MILITARIZED CADRE

To be Nb Sub

Rank & Name (Army No. & JC No.), Date of Promotion

Hav Dhormale Pandharinath Rangnath (No. 1574669A now JC-330927P), 09 Jun 2006*

Hav Om Prakash (No. 1579612P now JC-330928X), 28 Apr 2006*

Hav Gurpritam Singh (No. 1576393N now JC-330929A), 30 Jun 2006*

- Hav Kamal Tikadar (No. 15308394K now JC-330930P),
03 Mar 2006@
- Hav Chandran TK (No. 15308603W now JC-330931X),
13 Jul 2006%
- Hav Arbind Prasad Mandal (No. 1475283X now JC-330932A),
26 Aug 2006*
- Hav Anthony Susai (No. 15309923X now JC-330933H),
08 Sep 2006#
- Hav Harjinder Singh (No. 6932813L now JC-330934L),
07 Sep 2006#
- Hav Satya Pal Singh (No. 6933270W now JC-330935N),
05 Sep 2006#
- Hav Khedkar Suresh Amrut (No. 1555812M now JC-
330936W), 06 Sep 2006#
- Hav Mritunjoy Guchhait (No. 1475637P now JC-330937X),
05 Sep 2006#
- Hav Tambde Bhagwan Dnyanoba (No. 1576709P now JC-
330938F), 05 Sep 2006#
- Hav Karan Singh (No. 15304555K now JC-330939K),
06 Sep 2006#
- Hav Heera Lal Pandey (No. 1579249K now JC-330940Y),
05 Sep 2006#
- Hav Dilbag Singh (No. 1579533A now JC-330941F),
05 Sep 2006#
- Hav Thulasidas KN (No. 1379053M now JC-330942K),
06 Sep 2006#
- Hav Mahinder Singh (No. 1479656X now JC-330943M),
07 Sep 2006#
- Hav Suresh Kumar VK (No. 15307381A now JC-330944P),
06 Sep 2006#
- Hav Randhir Singh (No. 4270556K now JC-330945X),
04 Sep 2006#
- Hav Thota Venkateswarlu (No. 15303950L now JC-330946A),
02 Sep 2006#
- Hav Varghese KV (No. 15308209L now JC-330947H),
06 Sep 2006#
- Hav Raveendran AK (No. 1378875X now JC-330948L),
02 Sep 2006#
- Hav T Sreenath Reddy (No. 1383802P now JC-330949N),
04 Sep 2006#
- Hav Arvind Singh Parihar (No. 1480035N now JC-330950H),
22 Aug 2006*
- Hav Wazir Singh (No. 1575510F now JC-330951L), 09 Sep
2006#
- Hav A Anburajan (No. 15303229P now JC-330952N),
04 Sep 2006#
- Hav Mahmood Khan (No. 1579689X now JC-330953W),
04 Sep 2006#
- Hav Himesh Kumar Sharma (No. 1571942Y now JC-330954Y),
04 Sep 2006#
- Hav Salavudeen M (No. 1384190P now JC-330955F),
04 Sep 2006#
- Hav Zahid Ali (No. 1578349H now JC-330956K), 01 Sep
2006#
- Hav A Annamala Reddy (No. 1378990X now JC-330957M),
06 Sep 2006#
- Hav Asloop (No. 1572611K now JC-330958P), 01 Sep
2006#
- Hav Udaya Kumar T (No. 1384221K now JC-330959X),
04 Sep 2006#
- Hav Tapkir Nitin Lakshman (No. 1577033K now JC-330960M),
02 Sep 2006#
- Hav Abdul Salam (No. 15302503P now JC-330961P),
02 Sep 2006#
- Hav Lalit Kumar Nayak (No. 1482211W now JC-330962X),
05 Sep 2006#
- Hav Akshaya Kumar Panda (No. 1482694Y now JC-330963A),
31 Aug 2006#
- Hav Baljinder Singh (No. 1482865A now JC-330964H),
02 Sep 2006#
- Hav Ram Mohan Tripathi (No. 1483170K now JC-330965L),
06 Sep 2006#
- Hav Arun Kumar Awasthi (No. 1483173X now JC-330966N),
11 Sep 2006#
- Hav Achyut Roy (No. 1483593Y now JC-330967W),
06 Sep 2006#
- Hav Nikam Dattatray Tukaram (No. 1575626X now
JC-330968Y), 02 Sep 2006#
- Hav Kharade Shankar Anand Rao (No. 1578248P now
JC-330969F), 04 Sep 2006#
- Hav Jagat Singh (No. 1481512N now JC-330970W),
01 Sep 2006#
- Hav Balwan Singh (No. 1573767N now JC-330971Y),
01 Sep 2006#
- Hav Manjit Singh (No. 1579573F now JC-330972F),
14 Sep 2006#
- Hav Ramesh Bahadur Singh (No. 1482198X now JC-330973K),
04 Sep 2006#
- Hav Prem Ballabh (No. 1482486K now JC-330974M),
02 Sep 2006#
- Hav G Sreenivasulu (No. 15301367X now JC-330975P),
01 Sep 2006#
- Hav Prakashan P (No. 15300178F now JC-330976X),
04 Sep 2006#
- Hav T Jaya Mohan (No. 15308303P now JC-330977A),
17 Jul 2006*

Hav Gopa Kumar P (No. 1570625L now JC-330978H),
17 Jul 2006*

Hav Ram Nirala Prasad Gupta (No. 1484260Y now JC-
330979L), 11 Jul 2006*

Hav Mohite Dipak Babu Rao (No. 1581365L now JC-
330980A), 30 Aug 2006*

Hav Chandra Bhushan Upadhaya (No. 1484365F now JC-
330981H), 14 Sep 2006#

Hav Ajaya Kumar Pati (No. 1489209F now JC-330982L),
23 Sep 2006#

Hav Ram Niwas (No. 1575228W now JC-330983N), 28 Sep
2006#

Hav Tulasidas Naik (No. 1578715F now JC-330984W),
17 Oct 2006#

Hav Subhash Chander (No. 1578726N now JC-330985Y),
18 Sep 2006#

Hav Ramesan TK (No. 15307380X now JC-330986F),
05 Sep 2006#

Hav Jamkut Sattu Ramyya (No. 1479902X now JC-330987K),
04 Sep 2006#

Hav Prabhat Kumar PT (No. 15308170K now JC-330988M),
27 Sep 2006#

Hav Kutre Haribhau Ramu (No. 1581363A now JC-330989P),
16 Oct 2006#

Hav R Balasubramanian (No. 15304024M now JC-330990K),
18 Jul 2006*

Hav Kalu Ram (No. 1478538X now JC-330991M), 21 Jul
2006*

Hav Govind Singh (No. 1476906N now JC-330992P),
06 Sep 2006#

Hav Panna Lal Arun (No. 15110592K now JC-330993X),
04 Sep 2006#

Hav Bhupender Singh Bisht (No. 1480256X now JC-
330994A), 06 Sep 2006#

Hav Ramesh Kumar (No. 1577526L now JC-330995H),
04 Sep 2006#

Hav Phalke Ajit Tukaram (No. 1479998L now JC-330996L),
10 Sep 2006#

Hav P Ravi (No. 1379781M now JC-330997N), 10 Oct
2006#

Hav Narayan Singh (No. 1476859W now JC-330998W),
02 Sep 2006#

Hav Jobby Joseph (No. 1384610K now JC-330999Y),
18 Sep 2006#

Hav Shaik Gouse Mohiddin (No. 15300383H now JC-
331000A), 02 Sep 2006#

Hav Gurneet Singh (No. 1483957Y now JC-331001H),
04 Sep 2006#

Hav K Selvam (No. 1383117K now JC-331002L), 09 Sep
2006#

Hav M Ravi Chandran (No. 1384793L now JC-331003N),
22 Sep 2006#

Hav Chipade Sunil Vithal (No. 1577026N now JC-331004W),
27 Sep 2006#

Hav Vinayaka Murthy P (No. 15303718A now JC-331005Y),
20 Sep 2006#

Hav Ramesh Narain Singh (No. 1480378F now JC-331006F),
04 Sep 2006#

Hav P Jagadeesan (No. 15300152M now JC-331007K),
02 Sep 2006#

Hav Sikander Singh (No. 1578530A now JC-331008M),
06 Oct 2006**

Hav Amar Bahadur Singh (No. 1481982Y now JC-331009P),
04 Oct 2006**

Hav Prasanta Kumar Khanra (No. 1483135F now JC-
331010K), 29 Sep 2006**

Hav Inder Singh (No. 1483150W now JC-331011K),
30 Sep 2006**

Hav Samuthiravel M (No. 1380035W now JC-331012P),
28 Sep 2006**

Hav Vijayan G (No. 1379973K now JC-331013X), 29 Sep
2006**

Hav Thomas Kutty VP (No. 15302969X now JC-331014A),
03 Oct 2006**

Hav Yewale Bharat Shripati (No. 1578883A now JC-331015H),
09 Oct 2006**

Hav Matta Vas Harinadha Rao (No. 15304647W now JC-
331016L), 04 Oct 2006**

Hav N Anbazhagan (No. 15304932P now JC-331017N),
28 Sep 2006**

Hav Saji George (No. 15307190L now JC-331018W),
27 Sep 2006**

Hav Barham Pal (No. 1580509W now JC-331019Y), 28 Sep
2006**

Hav K Rajeevan (No. 7240479N now JC-331020N),
11 May 2006*

Hav Alope Kumar De (No. 15300228F now JC-331021W),
03 May 2006*

Hav J C Biju (No. 15308304X now JC-331022Y), 20 Sep
2006#

Hav Kamlesh Chandra (No. 1582070F now JC-331023F),
14 Sep 2006#

Hav Pushpendra Singh (No. 1480764N now JC-331024K),
04 Dec 2006**

Hav Lakshpat Singh (No. 1481437P now JC-331025M),
11 Dec 2006**

- Hav G Pramod (No. 15308203K now JC-331026P), 30 Dec 2006**
- Hav Sivan Pillai B (No. 1478732M now JC-331027X), 01 Dec 2006**
- Hav K Bijaya Reddy (No. 15306744M now JC-331028A), 07 Dec 2006**
- Hav Biju KM (No. 15308185M now JC-331029H), 07 Dec 2007**
- Hav Dwaityeswar Chakraborty (No. 1481953K now JC-331030X), 07 Dec 2007**
- Hav B S Malik Basha (No. 1582213W now JC-331031A), 07 Dec 2007**
- Hav Ram Milan (No. 1478048K now JC-331032H), 05 Sep 2006#
- Hav Dinesh Kumar Singh (No. 1478721A now JC-331033L), 30 Aug 2006#
- Hav Krishna (No. 1481563F now JC-331034N), 04 Sep 2006#
- Hav Naresh Kumar (No. 1481634X now JC-331035W), 04 Nov 2006#
- Hav Jayarson Jose (No. 15301116N now JC-331036Y), 01 Sep 2006#
- Hav Ram Rattan (No. 1479766M now JC-331037F), 08 Sep 2006#
- Hav Shesh Pal (No. 1481593Y now JC-331038K), 04 Sep 2006#
- Hav Ram Sukh (No. 1483710X now JC-331039M), 06 Sep 2006#
- Hav Izhar Ahmad Ansari (No. 1578717M now JC-331040F), 01 Sep 2006#
- Hav Dipak Kumar Sharma (No. 1481833L now JC-331041K), 04 Sep 2006#
- Hav Virender Singh Rawat (No. 1577039L now JC-331042M), 26 Oct 2006**
- Hav S Mohan Kumar (No. 15304907W now JC-331043P), 29 Sep 2006**
- Hav Kheem Singh (No. 1479999N now JC-331044X), 02 Mar 2006@
- Hav Latoori Singh (No. 1573238F now JC-331045A), 08 Nov 2006@
- Hav Siya Ram (No. 1582076H now JC-331046H), 21 Sep 2006*
- Hav Surender Kumar (No. 1484909L now JC-331047L), 13 Dec 2006@@
- Hav Wankhede Ravindra Ramji (No. 1581130Y now JC-331048N), 29 Mar 2007%%
- Hav Manoj Kumar (No. 6934396H now JC-331049W), 02 Apr 2007%%
- Hav Binay Kumar (No. 1586680L now JC-331050L), 30 Mar 2007%%
- Hav Anil Kumar (No. 15304679Y now JC-331051N), 30 Mar 2007%%
- Hav Srinivasan S (No. 1383114W now JC-331052W), 26 Mar 2007%%
- Hav Ashok Kumar K (No. 15308291L now JC-331053Y), 29 Mar 2007%%
- Hav Laxman Singh (No. 1481088W now JC-331054F), 26 Mar 2007%%
- Hav Sunder Deo Mahto (No. 1476313W now JC-331055K), 30 Mar 2007%%
- Hav Jaspal Singh (No. 1479429X now JC-331056M), 26 Mar 2007%%
- Hav Gulab Yadava (No. 1581426X now JC-331057P), 29 Mar 2007%%
- Hav Om Prakash Soni (No. 1483438W now JC-331058X), 26 Mar 2007%%
- Hav Subodh Kumar Shukla (No. 1482529N now JC-331059A), 15 Dec 2006%%
- Hav Sakhare Mahesh Kumar (No. 1486657H now JC-331060P), 03 Apr 2007%%
- Hav Hari Ram (No. 15313348Y now JC-331061X), 29 Mar 2007%%
- Hav Manoj Kumar (No. 1581299N now JC-331062A), 26 Mar 2007%%
- Hav R Nagendran (No. 15301897M now JC-331063H), 03 Apr 2007%%
- Hav Rabindra Satapathy (No. 1481883W now JC-331064L), 29 Mar 2007%%
- Hav Bhupender Singh (No. 1582488K now JC-331065N), 30 Mar 2007%%
- Hav Gurwinder Singh (No. 1582759W now JC-331066W), 03 Apr 2007%%
- Hav Telekune Ashok Mallappa (No. 1579428K now JC-331067Y), 23 Jan 2007#
- Hav Ram Niwas Arya (No. 1577610L now JC-331068F), 22 Jan 2007#
- Hav Kachle Parminder Singh (No. 1577238Y now JC-331069K), 07 Apr 2007%%
- Hav Madhu Kumar Nair K (No. 15309489W now JC-331070Y), 07 Apr 2007%%
- Hav Lekh Raj Singh (No. 1483964P now JC-331071F), 23 Mar 2007%%
- Hav R Sundaram (No. 1383726N now JC-331072K), 20 Mar 2007%%
- Hav K Honest Nedunchezian (No. 15304139A now JC-331073M), 22 Mar 2007%%

Hav Sanjay Kumar Laxman Patil (No. 1577709F now JC-331074P), 23 Mar 2007%%

Hav E Balakrishna Reddy (No. 15304288N now JC-331075X), 21 Mar 2007%%

Hav Karan Singh (No. 1481981W now JC-331076A), 15 Mar 2007%%

Hav Arun Kumar Sharma (No. 1482750M now JC-331077H), 22 Mar 2007%%

Hav Devender Singh Kadian (No. 1483434A now JC-331078L), 21 Mar 2007%%

Hav Jai Kanwar (No. 1485117X now JC-331079N), 21 Mar 2007%%

Hav Umesh Chandra (No. 1482180P now JC-331080H), 23 Mar 2007%%

Hav Suresh K (No. 15304210H now JC-331081L), 20 Mar 2007%%

Hav Anil P Thomas (No. 15305368X now JC-331082N), 21 Mar 2007%%

Hav Umapathi G (No. 15306904F now JC-331083W), 20 Mar 2007%%

Hav Bontu Venkata Naidu (No. 15307321L now JC-331084Y), 19 Mar 2007%%

Hav R Ganesan (No. 15304834P now JC-331085F), 10 Apr 2007%%

Hav Binoda Bihari Mohanty (No. 1484235Y now JC-331086K), 29 Mar 2007%%

Hav Vishan Singh Tomar (No. 1481240Y now JC-331087M), 03 May 2007%%

Hav Tilak Raj Rahee (No. 1578244Y now JC-331088P), 30 Mar 2007%%

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 1483864K now JC-331089X), 23 Mar 2007%%

Hav Gurucharan Singh (No. 1582178Y now JC-331090M), 02 Apr 2007%%

Hav Burle Adinarayana (No. 1489594W now JC-331091P), 23 Jan 2007%%

Hav Chiteshwar Prasad (No. 1479202K now JC-331092X), 09 Apr 2007%%

Hav Satnam Singh (No. 1481569H now JC-331093A), 14 Apr 2007%%

Hav Narender Kumar (No. 1482116K now JC-331094H), 23 Apr 2007%%

Hav Kuldeep Singh (No. 1579469M now JC-331095L), 23 Apr 2004%%

Hav Rakesh Kumar Singh (No. 1587293H now JC-331096N), 19 Apr 2007%%

Hav Rajender Mehar (No. 1482727Y now JC-331097W), 20 Mar 2007%%

Hav Venugopalan D B (No. 15307303H now JC-331098Y), 19 Mar 2007%%

Hav Dharambir Singh (No. 1474616M now JC-331099F), 20 Apr 2007##

Hav Vimal Kumar Singh (No. 1483867A now JC-331100L), 26 Apr 2007##

Hav Rishi Pal Singh (No. 1482249A now JC-331101N), 09 Jun 2007%%

Hav Rajender (No. 1481619H now JC-331102W), 10 May 2007%%

Hav Surender Sharma Kaushik (No. 1480580P now JC-331103Y), 29 Apr 2007%%

Hav Benny Jose (No. 7240491P now JC-331104F), 16 Jul 2007\$

Hav Prajna Nanda Chauha (No. 1483622L now JC-331105K), 11 Jul 2007%%

Hav Jagat Ram (No. 1582452L now JC-331106M), 18 Jun 2007%%

Hav K Chinnamuthusam (No. 15303044N now JC-331107P), 11 Apr 2007%%

Hav Darshan Singh (No. 1575001H now JC-331108X), 31 May 2007%%

Hav Sivadasan R (No. 15301905A now JC-331109A), 16 Jul 2007\$

Hav Mahabir Singh (No. 1483496A now JC-331110P), 21 May 2007%%

Hav Surinder Pal Singh (No. 1584098A now JC-331111X), 29 Jun 2007\$

Hav Bhosale Rajendra Babu Rao (No. 1584890M now JC-331112A), 04 Jul 2007\$

Hav Ram Singh Rawat (No. 1482814M now JC-331113H), 29 Jun 2007\$

Hav Laxman Singh (No. 1483583N now JC-331114L), 29 Jun 2007\$

Hav Jiban Chandra Baruah (No. 1481875X now JC-331115N), 29 Jun 2007\$

Hav Sunil Kumar (No. 1485133P now JC-331116W), 29 Jun 2007\$

Hav Purusottam Kumar (No. 1486292Y now JC-331117Y), 30 Jun 2007\$

Hav Jagdish (No. 1482519K now JC-331118F), 09 Jul 2007\$

Hav Dileep Kumar PP (No. 15305948M now JC-331119K), 28 Jun 2007\$

Hav Suresh Kumar SR (No. 1384598N now JC-331120Y), 06 Jul 2007\$

Hav Surat Singh (No. 1377446K now JC-331121F), 15 May 2007##

- Hav K Ravi (No. 15309231H now JC-331122K), 27 Jul 2007\$
- Hav Jai Ram Yadav (No. 1482074H now JC-331123M), 14 Jul 2007\$
- Hav Vikram Singh (No. 7240506M now JC-331124P), 16 Jul 2007\$
- Hav Surendra Kumar Yadava (No. 6389762K now JC-331125X), 13 Jul 2007\$
- Hav Banay Singh (No. 1483165Y now JC-331126A), 17 Jul 2007\$
- Hav Vellimalai Raja S (No. 1582740X now JC-331127H), 18 Jul 2007\$
- Hav Narendra Pratap Rajbhar (No. 15308315K now JC-331128L), 18 Jul 2007\$
- Hav Dalbir Singh (No. 1481796H now JC-331129N), 20 Jul 2007\$
- Hav Sankar Kumar Sahu (No. 6931276Y now JC-331130H), 02 Aug 2007\$
- Hav Lekh Ram (No. 1578997L now JC-331131L), 03 Aug 2007\$
- Hav Tej Prakash Thakur (No. 1472361Y now JC-331132N), 09 Aug 2007\$
- Hav Satish Chand (No. 1479681W now JC-331133W), 28 Mar 2007%%
- Hav Ram Phool (No. 1579919A now JC-331134Y), 10 May 2007%%
- Hav Suresh Singh Bisht (No. 1484908H now JC-331135F), 09 Aug 2007\$
- Hav Dhananjay Hazra (No. 1482187L now JC-331136K), 14 Jul 2007\$
- Hav Bhagirath Singh (No. 1578651F now JC-331137N), 19 Jul 2007\$
- Hav Sanjeev Kumar (No. 1578616Y now JC-331138P), 23 Jul 2007\$
- Hav Raji K Eappen (No. 15304412K now JC-331139X), 16 Jul 2007\$
- Hav Saju MF (No. 15306162M now JC-331140N), 11 Jul 2007\$
- Hav A Srinivasa Rao (No. 15302057Y now JC-331141P), 16 Jul 2007\$
- Hav Ram Singh Rai (No. 1482153X now JC-331142X), 18 Jul 2007\$
- Hav Sohan Singh (No. 1577682P now JC-331143A), 14 Jul 2007\$
- Hav Jadhav Shivadas Dashrath (No. 1574349L now JC-331144I), 20 Jul 2007\$
- Hav Ramu V (No. 15301069F now JC-331145L), 18 Jul 2007\$
- Hav Madan Singh (No. 1575491F now JC-331146N), 14 Jul 2007\$
- Hav Biswajit Saha (No. 1473146A now JC-331147W), 16 Jul 2007\$
- Hav Gyanendra Singh (No. 1481555H now JC-331148Y), 17 Jul 2007\$
- Hav Dinesh Singh Rawat (No. 1482518F now JC-331149F), 21 Jul 2007\$
- Hav Bolla Ram K Ranganathan (No. 1382171L now JC-331150W), 13 Jul 2007\$
- Hav Keshar Singh (No. 1482179M now JC-331151Y), 30 Jul 2007\$
- Hav Suresh Kumar (No. 1482547W now JC-331152F), 09 Apr 2007%%
- Hav Suresh Kumar P (No. 15305022N now JC-331153K), 22 Mar 2007%%
- Hav Harendra Singh Bist (No. 1483473Y now JC-331154M), 10 Jul 2007\$
- Hav Nripendra Barman (No. 1483919H now JC-331155P), 29 Jun 2007\$
- Hav Sandeep Singh Jasrotia (No. 1483091P now JC-331156X), 14 Jul 2007\$
- Hav Settu M (No. 15302623N now JC-331157A), 18 Jul 2007\$
- Hav Devender (No. 1482718X now JC-331158H), 09 Jul 2007\$
- Hav Abhaya Kumar Bal (No. 1483782F now JC-331159L), 30 Jun 2007\$
- (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Feb 2006, 12 Dec 2005, 01 Apr 2006, 10 Jun 2006, 12 Aug 2006, 20 Nov 2006, 16 Dec 2006, 03 Feb 2007 & 17 Mar 2007 without effect on Pay and Allces.)
- *Seniority wef 04 Feb 2006
- @Seniority wef 12 Dec 2005
- %Seniority wef 01 Apr 2006
- #Seniority wef 10 Jun 2006
- \$Seniority wef 17 Mar 2007
- **Seniority wef 12 Aug 2006
- @@Seniority wef 20 Nov 2006
- %%Seniority wef 16 Dec 2006
- ##Seniority wef 03 Feb 2007
- CORPS OF ENGINEERS
- BENGAL ENGINEER GROUP
- To be Nb Sub (GD)
- Hav Surendra Kumar Singh (No. 1472783K now JC-338499W), 23 Aug 2008*

Hav Satender Singh (No. 1475432A now JC-338500A),
01 Sep 2008#

Hav Harpal Singh (No. 1475511P now JC-338501H),
01 Sep 2008#

Hav Shambhu Kumar Singh (No. 1475560X now JC-338502L),
01 Sep 2008#

Hav Md Izazul Seikh (No. 1475757N now JC-338503N),
01 Sep 2008#

Hav Balbir Singh (No. 1475950A now JC-338504W),
01 Sep 2008#

Hav Sarbjit Singh (No. 1474768N now JC-338505Y),
01 Sep 2008#

Hav Prahlad Roy Sarkar (No. 1473156K now JC-338506F),
01 Sep 2008#

Hav Vikram Singh Negi (No. 1487272X now JC-338507K),
01 Sep 2008#

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Pratap Singh (No. 1475818A now JC-338508M),
02 Aug 2008@

Hav Man Mohan Nayak (No. 1475767X now JC-338509P),
02 Sep 2008@

Hav Mahendra Singh (No. 1476280W now JC-338510K),
01 Sep 2008#

Hav Om Prakash (No. 1476225A now JC-338511M),
01 Sep 2008#

Hav Ashok Kumar Tripathi (No. 1476305X now JC-338512P),
01 Sep 2008#

Hav Khalilur Rahman Laskar (No. 1476316K now JC-
338513X), 17 Sep 2008#

Hav Aklim Hussain Laskar (No. 1476317M now JC-
338514A), 01 Sep 2008#

Hav Virpal Singh (No. 1476323A now JC-338515H),
01 Sep 2008#

To be Nb Sub Svy Cat

Hav Jangir Singh (No. 1479079W now JC-338516L),
08 Sep 2008@

Hav Sukhwinder Singh (No. 1478312M now JC-338517N),
01 Sep 2008@

Hav Nirjhar Kumar Mondal (No. 1478332A now JC-
338518W), 01 Sep 2008@

Hav Baljit Singh (No. 1479086M now JC-338519Y), 01 Sep
2008#

Hav Rajesh Babu (No. 1479159N now JC-338520N),
01 Sep 2008#

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allces)

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008
without effect on pay & allces)

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay & allces)

To be Nb Sub (GD)

Hav Anil (No. 15345549L now JC-338521W), 29 Nov
2008**

Hav Kuldeep Singh (No. 1473123Y now JC-338522Y),
13 Sep 2008%

Hav Bahadur Singh (No. 1475372W now JC-338523F),
30 Sep 2008&

Hav Arvind Kumar (No. 1475385N now JC-338524K),
01 Sep 2008&

Hav Anand Singh (No. 1488318F now JC-338525M),
02 Dec 2008\$

Hav Kedar Sah (No. 1490066Y now JC-338526P), 21 Oct
2008\$

Hav Tarak Nath Ghorai (No. 1492803N now JC-338527X),
17 Oct 2008\$

Hav Sona Ram (No. 1492825M now JC-338528A), 25 Oct
2008\$

Hav Sudarshan Biswas (No. 1493213F now JC-338529H),
31 Oct 2008\$

Hav Ravindra Kumar (No. 1489805N now JC-338530X),
29 Nov 2008\$

Hav Sukhendra Kumar (No. 1473321K now JC-338531A),
17 Oct 2008\$

Hav Prem Singh (No. 1475954W now JC-338532H), 17 Oct
2008\$

Hav Muni Bara Barik (No. 1476065L now JC-338533L),
01 Dec 2008\$

Hav Log Raj Joshi (No. 1476075P now JC-338534N),
20 Oct 2008\$

Hav Pal Singh (No. 1476115L now JC-338535W), 27 Oct
2008\$

Hav Sukhdev Prasad Dabral (No. 1476215W now JC-
338536Y), 25 Nov 2008\$

Hav Ratul Tamuly (No. 1476382M now JC-338537F),
08 Dec 2008#

Hav Gurbachan Singh (No. 1476392W now JC-338538K),
18 Nov 2008#

Hav Arvind Kumar Dubey (No. 1476445K now JC-338539M),
15 Nov 2008#

Hav Orm Prakash (No. 1476447P now JC-338540F), 17 Nov
2008#

Hav Suresh Yadav (No. 1476450P now JC-338541K),
01 Dec 2008#

Hav Dhan Singh Bhakuni (No. 1476503H now JC-338542M),
24 Nov 2008#

Hav Orm Prakash (No. 1476522N now JC-338543P),
19 Nov 2008#

Hav Rabish Babu (No. 1476530M now JC-338544X),
06 Dec 2008*

Hav Bikram Lal (No. 1476537W now JC-338545A), 02 Dec
2008*

Hav Harnam Singh (No. 1476559P now JC-338546H),
01 Dec 2008*

Hav Ram Charan (No. 1476585W now JC-338547L),
01 Dec 2008*

Hav Bhajesh Chandra Sarkar (No. 1476641K now JC-
338548N), 01 Dec 2008*

Hav Paritosh Kumar Biswas (No. 1476652W now JC-
338549W), 01 Dec 2008*

Hav Ashim Kumar Paul (No. 1476656M now JC-338550L),
01 Dec 2008*

Hav Balwinder Singh (No. 1476706M now JC-338551N),
01 Dec 2008*

Hav Balbir Singh (No. 1476711X now JC-338552W),
01 Dec 2008*

Hav Karan Bahadur Sunar (No. 1476741P now JC-338553Y),
01 Dec 2008*

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Pramod Kumar Thakur (No. 1475282P now JC-338554F),
07 Oct 2008@

Hav Ram Vinay Prasad (No. 1475780F now JC-338555K),
22 Oct 2008%

Hav Chhinder Pal Singh (No. 1474564F now JC-338556M),
11 Dec 2008#

Hav Yogendra Prasad Mishra (No. 1472737P now JC-
338557P), 27 Nov 2008#

Hav Suresh Bahadur Pal (No. 1475241L now JC-338558X),
02 Dec 2008*

Hav Mahendra Kumar (No. 1475456K now JC-338559A),
04 Dec 2008*

Hav Pawar Janardhan (No. 1475778K now JC-338560P),
06 Dec 2008*

Hav Rakesh Kumar Sharma (No. 1474867W now JC-
338561X), 04 Dec 2008*

Hav Sudhindu Shekhar Shukla (No. 1475278M now JC-
338562A), 04 Dec 2008*

Hav Chandran K (No. 1476023Y now JC-338563H),
02 Dec 2008*

To be Nb Sub Clk (Store)

Hav Ram Chandra Shukla (No. 1476243H now JC-338564L),
29 Nov 2008#

To be Nb Sub Svy Cat

Hav Ravi Kumar Sharma (No. 1493656H now JC-338565N),
10 Dec 2008##

Hav N Sneha Kumar Singha (No. 15336151P now JC-
338566W), 08 Dec 2008##

Hav Kripal Singh (No. 1478545N now JC-338567Y),
03 Dec 2008#

Hav Sachin Kumar (No. 15335943H now JC-338568F),
02 Dec 2008\$

Hav Vinod Chhikara (No. 1493359P now JC-338569K),
03 Dec 2008\$

Hav Nimal Chandra Kole (No. 15344323N now JC-338570Y),
03 Dec 2008\$

Hav Kuldeep Singh (No. 15344294K now JC-338571F),
04 Dec 2008\$

Hav Narendra Singh (No. 15344297X now JC-338572K),
10 Dec 2008\$

Hav Pramod Kumar Singh (No. 15344298A now JC-338573M),
08 Dec 2008\$

Hav Kushalvir Singh (No. 15344299H now JC-338574P),
03 Dec 2008\$

Hav Gyanendra Kumar (No. 15344301P now JC-338575X),
02 Dec 2008\$

Hav Nandan Singh (No. 15344303A now JC-338576A),
02 Dec 2008\$

Hav Manoj Kumar Yadav (No. 15344304H now JC-338577H),
15 Dec 2008\$

Hav Ajay Singh Pundir (No. 15344305L now JC-338578L),
02 Dec 2008\$

Hav Ashok Kumar (No. 15344306N now JC-338579N),
08 Dec 2008\$

Hav Deepak Sharma (No. 15344307 now JC-338580H),
10 Dec 2008\$

Hav Nand Kishore (No. 15344308Y now JC-338581L),
08 Dec 2008\$

Hav Surendra Dani (No. 15344309F now JC-338582N),
02 Dec 2008\$

Hav Pushpendra Kumar (No. 15344310W now JC-338583W),
02 Dec 2008\$

Hav Dharambeer Singh Gautam (No. 15344312F now JC-
338584Y), 10 Dec 2008\$

Hav Shrinivas Upadhyay (No. 15344315P now JC-338585F),
02 Dec 2008\$

Hav Vinod Prasad (No. 15344316X now JC-338586K),
02 Dec 2008\$

Hav Rajeev Kumar (No. 15344318H now JC-338587M),
02 Dec 2008\$

Hav Kamlesh Chandra Tiwari (No. 15344319L now JC-
338588P), 02 Dec 2008\$

Hav Har Singh (No. 15344328N now JC-338589X), 02 Dec
2008\$

Hav Ravi Shankar (No. 15344329P now JC-338590M),
02 Dec 2008\$

Hav Neeraj Kumar Sharma (No. 15344332P now JC-338591P),
02 Dec 2008\$

Hav Tirath Singh Negi (No. 15344334A now JC-338592X),
08 Dec 2008\$

Hav Manoj Kumar (No. 15344336L now JC-338593A),
02 Dec 2008\$

Hav Madhavendra Mishra (No. 15344339Y now JC-338594H),
15 Dec 2008\$

Hav Ajit Kumar Singh (No. 15344347X now JC-338595L),
03 Dec 2008\$

Hav Anil Kumar (No. 15344348A now JC-338596N),
15 Dec 2008\$

Hav Rajendera Prasad Kasana (No. 15344350X now JC-
338597W), 03 Dec 2008\$

Hav Sunil Kumar Chauhan (No. 15344359M now JC-
338598Y), 01 Dec 2008\$

##(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2007
without effect on pay & allces)

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Oct 2007
without effect on pay & allces)

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay & allces)

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008
without effect on pay & allces)

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008
without effect on pay & allces)

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008
without effect on pay & allces)

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008
without effect on pay & allces)

* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008
without effect on pay & allces)

MADRAS ENGINEER GROUP

To be Substantive Sub Maj Clks (GD)

Rank/Trade & Name (JC No.), Date of Substantive
Promotion

Sub/Clk Giri AM (JC-306367P), 05 Nov 2007

Sub/Clk M Krishnaraj (JC-306365K), 05 Nov 2007

Sub/Clk Raghunatha Pillai (JC-306420P), 05 Dec 2007

Sub/Clk V Venkatasamy (JC-306492Y), 17 Dec 2007

Sub/Clk Rajasekharan CK (JC-306494K), 01 Dec 2007

Sub/Clk Gireesan Nair L (JC-306536L), 07 Dec 2007

Sub/Clk Sreeleja Kumar S (JC-306496P), 12 Jan 2008

Sub/Clk Syed Thajudeen S (JC-305315M), 01 Jan 2008

Sub/Clk Sunny KM (JC-305320X), 04 Jan 2008

Sub/Clk Suresh Munneppagol (JC-305797M), 01 Jan 2008

Sub/Clk Tulaseedharan Pillai G (JC-306125M), 02 Feb
2008

Sub/Clk Krishnappa BP (JC-306127X), 02 Jan 2008

Sub/Clk Parthasarathy (JC-306172K), 08 Jan 2008

Sub/Clk Hawa Singh (JC-306498A), 22 Jan 2008

Sub/Clk KVG Prasad Rao (JC-306505L), 02 Jan 2008

Sub/Clk Hari Narayanan C (JC-306508Y), 09 Jan 2008

Sub/Clk Kariappa CS (JC-306513K), 03 Mar 2008

Sub/Clk Reghu K (JC-306542Y), 14 Feb 2008

Sub/Clk P Selvaraj (JC-306545M), 02 Jan 2008

Sub/Clk A Eswanta Rao (JC-306548A), 26 Feb 2008

Sub/Clk L Sundararaj (JC-306549H), 21 Feb 2008

Sub/Clk Franklin Jose PS (JC-306552H), 05 May 2008

Sub/Clk Chandramohan TN (JC-306553L), 01 Mar 2008

Sub/Clk C Gnanasekhar (JC-306554N), 10 Mar 2008

Sub/Clk A Arokiasamy (JC-306559M), 12 Mar 2008

Sub/Clk Vikraman TV (JC-306576M), 03 Mar 2008

Sub/Clk Mohandas PK (JC-306626M), 02 Jun 2008

Sub/Clk Rajan A (JC-306653W), 12 Jul 2008

Sub/Clk Joji Joseph (JC-306658P), 02 May 2008

Sub/Clk Sunil Kumar K (JC-306659X), 21 Jul 2008

Sub/Clk I Mathias (JC-306660M), 18 Sep 2008

Sub/Clk Sabu B (JC-306661P), 02 Jun 2008

Sub/Clk Unnikrishnan Unnithan (JC-306662X), 17 Sep 2008

Sub/Clk Laxman Ram (JC-306666N), 02 Jun 2008

Sub/Clk Ramji Shukla (JC-306692P), 07 Jul 2008

Sub/Clk Balwan Singh (JC-306725P), 03 Oct 2008

Sub/Clk Rakesh Kumar (JC-306726X), 08 Sep 2008

Sub/Clk Ram Chandra Prasad Singh (JC-306736F), 06 Sep
2008

Sub/Clk Ajab Singh Yadav (JC-306824X), 02 Aug 2008

Sub/Clk Jagadev Kumar (JC-306897K), 03 Oct 2008

To be Substantive Sub Maj SKsT

Rank/Trade & Name (JC No.), Date of Substantive
Promotion

Sub/SKT P Balan (JC-305784P), 18 Oct 2007

Sub/SKT Babu Lal (JC-305991F), 12 Nov 2007

Sub/SKT Mam Chand (JC-306001X), 01 Feb 2008

To be Substantive Sub Clks (GD)

Rank/Trade & Name (JC No.), Date of Substantive Promotion

Nb Sub Clk Rajasekaran (JC-307334W), 20 Sep 2007
 Nb Sub Clk C Ramadoss Tukaram (JC-307335Y), 01 Aug 2007
 Nb Sub Clk Tej Narayan Ram (JC-307360X), 01 Oct 2007
 Nb Sub Clk Dhan Raj Mahto (JC-307362H), 01 Oct 2007
 Nb Sub Clk Satish Kumar Tripathy (JC-307363L), 01 Oct 2007
 Nb Sub Clk Virendra Singh (JC-307364N), 01 Oct 2007
 Nb Sub Clk Rajesh Kumar (JC-307383Y), 03 Dec 2007
 Nb Sub Clk Padmakar Dubey (JC-307384F), 03 Dec 2007
 Nb Sub Clk Nandlal Bhartiya (JC-307400N), 23 Nov 2007
 Nb Sub Clk Gupteshwar Singh Y (JC-307402Y), 03 Dec 2007
 Nb Sub Clk Chander Pal (JC-307403F), 01 Dec 2007
 Nb Sub Clk Nandan CK (JC-307404K), 01 Dec 2007
 Nb Sub Clk Shri Ram Yadav (JC-307405M), 01 Dec 2007
 Nb Sub Clk Arun Kumar (JC-307406P), 01 Dec 2007
 Nb Sub Clk Madhusoodhanan K (JC-307407X), 01 Dec 2007
 Nb Sub Clk N Radhakrishnan (JC-307426H), 01 Dec 2007
 Nb Sub Clk CK Subramaniya Acharya (JC-307427L), 03 Dec 2007
 Nb Sub Clk Joseph Scaria (JC-307429W), 01 Dec 2007
 Nb Sub Clk Suresh Babu KK (JC-307431N), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Harinath Singh Yadav (JC-307432W), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Jiban Krishna Mandal (JC-307433Y), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Prem Kumar Singh (JC-307434F), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Laxmana (JC-307449K), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk A Ramakrishnan (JC-307450Y), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Vijaya Kumar G (JC-307451F), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Chandraprakash Rai (JC-307452K), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Bhairu Singh (JC-307463W), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk PK Selvam (JC-307464Y), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Madhusoodhanan P (JC-307465F), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Kabiraja Pradhan (JC-307485P), 02 Jan 2008
 Nb Sub Clk Josey Thankachan (JC-307489L), 01 Jan 2008

Nb Sub Clk Megh Singh (JC-307491H), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Manohar Singh (JC-307495Y), 30 Jan 2008
 Nb Sub Clk T Chandran (JC-307497K), 07 Jan 2008
 Nb Sub Clk Manoj Kumar B (JC-307498M), 07 Jan 2008
 Nb Sub Clk Ram Bahadur Singh (JC-307499P), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Sanyasi Sahoo (JC-307519X), 05 Jan 2008
 Nb Sub Clk Bir Singh (JC-307521P), 03 Jan 2008
 Nb Sub Clk Raj Deo Thakur (JC-307535P), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Mahavir Singh (JC-307537A), 04 Jan 2008
 Nb Sub Clk B Linga Durai (JC-307540A), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Krishnadasan A (JC-307541H), 08 Jan 2008
 Nb Sub Clk Om Singh (JC-307543N), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Ananda Biswas (JC-307560N), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Jogeshwar Rai (JC-307561W), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Ram Mehar (JC-307562Y), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Ramnath Prajapathi (JC-307564K), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Debasis Praharaj (JC-307565M), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Sudersana Panicker P (JC-307568A), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Raju P (JC-307569H), 01 Jan 2008
 Nb Sub Clk Ram Kishor Singh (JC-307572H), 01 Feb 2008
 Nb Sub Clk A Nagarajan (JC-307585A), 01 Feb 2008
 Nb Sub Clk Shyamvir Singh (JC-307592W), 01 Feb 2008
 Nb Sub Clk Brajesh Kumar Roy (JC-307593Y), 01 Feb 2008
 Nb Sub Clk R Ramdass (JC-307594F), 01 Feb 2008
 Nb Sub Clk Rama Naidu G (JC-307596M), 01 Feb 2008
 Nb Sub Clk Kanchan Kumar (JC-307361A), 18 Jan 2008
 Nb Sub Clk Om Prakash Shukla (JC-307496F), 01 Mar 2008
 Nb Sub Clk G Balasubramaniam (JC-307567X), 27 Mar 2008
 Nb Sub Clk Anil Kumar VK (JC-307612Y), 01 Mar 2008
 Nb Sub Clk Shankar T (JC-307614K), 01 Mar 2008
 Nb Sub Clk Suresh Babu AV (JC-307615M), 11 Apr 2008
 Nb Sub Clk Pampanna Rambabu (JC-307617X), 01 Apr 2008
 Nb Sub Clk Sampath Sisodhia (JC-307619H), 01 Apr 2008
 Nb Sub Clk Balram Singh Chauhan (JC-307621A), 18 Aug 2008

Nb Sub Clk Parimal Kumar Sarkar (JC-307622H), 03 May 2008

Nb Sub Clk Basheer Ahmad Khan (JC-307623L), 26 Jul 2008

Nb Sub Clk Joginder Paul Kaundal (JC-307624N), 02 Jun 2008

Nb Sub Clk Kottambe GT (JC-307625W), 01 Jun 2008

Nb Sub Clk Moti Chand Ram (JC-307645W), 01 Jun 2008

Nb Sub Clk Munilal Yadav (JC-307646M), 01 Jun 2008

Nb Sub Clk Gyan Singh (JC-307647P), 03 Jun 2008

Nb Sub Clk Satbir Singh Atri (JC-307648X), 01 Jul 2008

Nb Sub Clk Senthil Kumar B (JC-307649A), 01 Jul 2008

Nb Sub Clk Bhoop Singh (JC-307650P), 01 Jul 2008

Nb Sub Clk GG Bhaskaran (JC-307662K), 01 Jul 2008

Nb Sub Clk K Christhuvraj (JC-307663M), 01 Aug 2008

Nb Sub Clk R Robert (JC-307664P), 01 Aug 2008

Nb Sub Clk Ranjeet Singh (JC-307665X), 01 Aug 2008

Nb Sub Clk Nirmal Kumar (JC-307666A), 01 Aug 2008

Nb Sub Clk Shashikanth Nayak (JC-307692F), 01 Aug 2008

Nb Sub Clk Ajab Singh (JC-307693K), 01 Aug 2008

Nb Sub Clk Ravi TR (JC-307694M), 01 Aug 2008

Nb Sub Clk Hoshiyar Singh (JC-307716A), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Anil Kaling (JC-307717H), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Provash Mandal (JC-307719N), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Kuldeep Singh (JC-307720H), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Sarvesh Kumar (JC-307721L), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Kirpal Singh Rawat (JC-307722N), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Madan Mohan (JC-307723W), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Velumurugan S (JC-307724Y), 01 Sep 2008

Nb Sub Clk Anil Kumar (JC-307795A), 01 Oct 2008

To be Substantive Sub SKsT

Rank/Trade & Name (JC No.), Date of Substantive Promotion

Nb Sub SKT Sathyaseelan Pillai (JC-307316N), 26 Nov 2007

Nb Sub SKT Dharambir Singh (JC-307332L), 17 Jan 2008

Nb Sub SKT Chabbil Kumar (JC-307382W), 14 Jan 2008

Nb Sub SKT Jagadeep Singh Mehta (JC-307425A), 14 Jan 2008

Nb Sub SKT Chander Bhan (JC-307773F), 11 Feb 2008

Nb Sub SKT Hari Singh Yadav (JC-307559Y), 29 Jan 2008

Nb Sub SKT Rajbir Singh (JC-307715X), 28 Jan 2008

Nb Sub SKT Kirorimal Yadav (JC-307751H), 07 Feb 2008

Nb Sub SKT Sambhu Prasad (JC-307460H), 02 Jul 2008

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Subedar Major (Clk GD)

Sub (Clk GD) Kultar Singh Rana (JC-347578M), 10 Apr 2008

Sub (Clk GD) Mange Lal (JC-347955X), 16 Apr 2008

Sub (Clk GD) Fateh Chand (JC-347602X), 02 Apr 2008

Sub (Clk GD) Jagdish Chand (JC-347954P), 03 Apr 2008

Sub (Clk GD) Dev Kumar Pandey (JC-347931N), 09 Apr 2008

Sub (Clk GD) Harpal Singh (JC-347469A), 19 Apr 2008

Sub (Clk GD) Bhim Singh Bisht (JC-347616X), 05 May 2008

Sub (Clk GD) Ram Paul Sharma (JC-347956A), 13 May 2008

Sub (Clk GD) Vinod Kumar (JC-347589Y), 02 Apr 2008

Sub (Clk GD) Vijay Kumar Duggal (JC-347587N), 05 May 2008

Sub (Clk GD) Kumar Paul Sharma (JC-347965F), 24 May 2008

Sub (Clk GD) Nalawade Pandurang Jagannath (JC-347773K), 31 May 2008

Sub (Clk GD) Ravindra Singh (JC-347958L), 12 Jun 2008

Sub (Clk GD) Veer Dattatrya Dagdu (JC-347850N), 15 Jul 2008

Sub (Clk GD) Rajaram (JC-348049M), 14 Jul 2008

Sub (Clk GD) Rohtash Kumar Sharma (JC-348038A), 01 Jul 2008

Sub (Clk GD) Ramesh (JC-347966K), 21 Jul 2008

Sub (Clk GD) Prakash Chand Yogi (JC-348077Y), 04 Aug 2008

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Manjit Pal Singh (JC-347808P), 25 Feb 2008

Sub (GD) Balwinder Singh (JC-348467F), 15 Apr 2008

Sub (GD) Chandrapal Singh (JC-348429L), 12 May 2008

Sub (GD) Yogeshwar Tripathi (JC-348440K), 17 Jun 2008

Sub (GD) Padam Narayan (JC-348694F), 19 Jun 2008

Sub (GD) Ratan Lal Kumahar (JC-348439P), 11 Jul 2008

Sub (GD) Pawar Babu Laxman (JC-348474X), 02 Aug 2008

To be Subedar Major (SKT)

Sub (SKT) Narhari Narayan Dubey (JC-348034K), 01 May 2008

Sub (SKT) Ram Chander (JC-348062W), 12 May 2008

To be Subedar (Cik GD)

Nb Sub (Cik GD) Ram Kishan (JC-348971F), 01 Dec 2007

Nb Sub (Cik GD) Ganesh Mishra (JC-349326Y), 09 Apr 2008

Nb Sub (Cik GD) Ingale Madan Kundlik (JC-349347P), 07 Apr 2008

Nb Sub (Cik GD) Gulab Singh (JC-349086M), 05 Mar 2008

Nb Sub (Cik GD) Trilok Singh (JC-349015L), 26 Feb 2008

Nb Sub (Cik GD) Trilok Chandra Bhatt (JC-349297P), 02 Apr 2008

Nb Sub (Cik GD) Harish Chandra (JC-349299A), 04 Apr 2008

Nb Sub (Cik GD) Pandare Yashwant Vithoba (JC-349087P), 03 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Surwase Suresh Hariba (JC-349344F), 01 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Sagare Arun Rangrao (JC-349357Y), 01 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Bhadane Nanabhau Zamaru (JC-349395P), 01 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Pardeep Kumar Saini (JC-349352A), 01 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Pawar Ashok Bhagwan (JC-349369N), 01 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Vakil Mohammad (JC-349396X), 10 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Rajendra Kumar Awasthi (JC-349343Y), 01 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Unnikrishna Pillai K G (JC-349419N), 09 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Mankar Shivaji Mango (JC-349370H), 27 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Partap Singh (JC-349358F), 01 May 2008

Nb Sub (Cik GD) Wadudul Hai Khan (JC-349426K), 12 Jun 2008

Nb Sub (Cik GD) Chavan Hanumant Bhimrao (JC-349405N), 12 Jun 2008

Nb Sub (Cik GD) Jai Pal (JC-349037K), 08 Feb 2008

Nb Sub (Cik GD) Pawar Shankar Laxman (JC-349448H), 09 Jul 2008

Nb Sub (Cik GD) Hari Ram (JC-349361F), 24 Jun 2008

Nb Sub (Cik GD) Solankar Bhagawant Laxman (JC-349385L), 14 Jun 2008

Nb Sub (Cik GD) Pawar Parmeshwar Bhagwat (JC-349398H), 23 Jun 2008

Nb Sub (Cik GD) Shinde Sadashiv Pandurang (JC-349417H), 01 Jul 2008

Nb Sub (Cik GD) Rup Lal (JC-349469Y), 01 Jul 2008

Nb Sub (Cik GD) Chinta Ram (JC-349359K), 25 Jun 2008

Nb Sub (Cik GD) Harendra Singh (JC-349485W), 01 Aug 2008

Nb Sub (Cik GD) Sube Singh (JC-349513X), 01 Aug 2008

Nb Sub (Cik GD) Rajaram Singh (JC-349464A), 05 Aug 2008

Nb Sub (Cik GD) Jagbir Singh (JC-349496H), 04 Aug 2008

Nb Sub (Cik GD) R Naga Rajan (JC-349493P), 01 Aug 2008

Nb Sub (Cik GD) Janardan Singh (JC-349273L), 13 Aug 2008

Nb Sub (Cik GD) Pawar Mahadeo Balaso (JC-349032L), 12 Aug 2008

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Dinkar Jayaram Dhonuxe (JC-349779K), 08 Apr 2008

Nb Sub (GD) Chandrakant Sambhaji Mhaskar (JC-349777Y), 31 Mar 2008

Nb Sub (GD) Gurmel Singh (JC-349767P), 22 Mar 2008

Nb Sub (GD) Dudhaniya Ashok Kumar Muljibhai (JC-349674A), 15 Mar 2008

Nb Sub (GD) Jarnail Singh (JC-349734K), 28 Mar 2008

Nb Sub (GD) Nikam Vilas Shankar (JC-349756H), 07 Apr 2008

Nb Sub (GD) Mohammad Arbi (JC-349757L), 09 Apr 2008

Nb Sub (GD) Jadhav Sayajirao Madhavrao (JC-349752M), 15 Apr 2008

Nb Sub (GD) Virender Singh (JC-349782K), 16 Apr 2008

Nb Sub (GD) Baldev Singh (JC-349746Y), 01 May 2008

Nb Sub (GD) Rajbir Singh (JC-349818X), 01 May 2008

Nb Sub (GD) Bunde Ali Khan (JC-349769A), 01 May 2008

Nb Sub (GD) Mohinder Singh (JC-349768X), 01 May 2008

Nb Sub (GD) Sher Mohammad (JC-349770P), 05 May 2008

Nb Sub (GD) Jadhav Hanmant Narayan (JC-349743L), 01 May 2008

Nb Sub (GD) Pawar Bapusaheb Vishnu (JC-349750F), 04 Apr 2008

Nb Sub (GD) Mohamad Taviyab (JC-349819A), 01 May 2008

- Nb Sub (GD) Kaifayet Ali (JC-349772A), 01 May 2008
- Nb Sub (GD) Ghadge Ravindra Kumar Dinkar (JC-349795F), 01 May 2008
- Nb Sub (GD) Navirasool Khan (JC-349758N), 01 May 2008
- Nb Sub (GD) Amrik Singh (JC-349755A), 01 Apr 2008
- Nb Sub (GD) Dilver Singh (JC-349754X), 01 Apr 2008
- Nb Sub (GD) Prakash C (JC-349759W), 01 May 2008
- Nb Sub (GD) Gorle Rajendra Kumar Shesh Rao (JC-349783M), 01 Apr 2008
- Nb Sub (GD) Kale Uttam Damodar (JC-349687X), 21 Feb 2008
- Nb Sub (GD) Bagal Shivaji Sarje Rao (JC-349771X), 13 May 2008
- Nb Sub (GD) Chandrapal Prajapati (JC-349753P), 19 May 2008
- Nb Sub (GD) Udaibir (JC-349784P), 11 Apr 2008
- Nb Sub (GD) Aiwale Annasaheb Kallappa (JC-349765K), 12 May 2008
- Nb Sub (GD) Mahavir Singh (JC-349773H), 01 May 2008
- Nb Sub (GD) Khot Shripati Dhondiram (JC-349748K), 01 Apr 2008
- Nb Sub (GD) Subhash Chander (JC-349747F), 01 May 2008
- Nb Sub (GD) Mahesh Singh (JC-349744N), 07 May 2008
- Nb Sub (GD) Sankatha Tiwari (JC-349823H), 23 Jun 2008
- Nb Sub (GD) Satpal (JC-349808N), 01 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Kesarkar Ganpati Kondiba (JC-349834P), 01 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Masit Khan (JC-349829K), 07 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Mehmood Khan (JC-349830Y), 11 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Satwinder Singh (JC-349831F), 07 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Kakde Subhash Baburao (JC-349838L), 04 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Avtar Singh (JC-349800F), 03 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Joginder Singh (JC-349843W), 01 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Dadaso Tukaram Mane (JC-349842N), 01 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Sukhwinder Singh (JC-349835X), 28 Jun 2008
- Nb Sub (GD) Ranpal Singh (JC-349809W), 18 Jun 2008
- Nb Sub (GD) Bhanwar Lal (JC-349811N), 07 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Sher Din (JC-349810L), 01 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Gurjant Singh (JC-349840H), 03 Jul 2008
- Nb Sub (GD) Kulwinder Singh (JC-349899H), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Khurshid Ahmed (JC-349824L), 30 Jun 2008
- Nb Sub (GD) Abdul Kalam (JC-349861Y), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Yadav Hanamant Tukaram (JC-349816M), 16 Jun 2008
- Nb Sub (GD) Nivrutti Janardan Patil (JC-349859F), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Pawar Dilip Krishanaji (JC-349792N), 01 May 2008
- Nb Sub (GD) Jasbir Singh (JC-349886L), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Kadam Arun Shankar (JC-349883X), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Mopare Sanjeev Hariba (JC-349880K), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Nikam Shashikant Dnyanadeo (JC-349860W), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Karamjit Singh (JC-349858Y), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Balbir Singh (JC-349853A), 09 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Surjit Singh (JC-349688A), 29 Apr 2008
- Nb Sub (GD) Patil Sukhdev Laxman (JC-349882P), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Harvel Singh (JC-349885H), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Ghodake Dnyaneshwar Yashwant (JC-349865P), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Joginder Singh (JC-349864M), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Akabar Husain (JC-349855L), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Mithu Singh (JC-349862F), 01 Aug 2008
- Nb Sub (GD) Raj Kumar (JC-349881M), 01 Aug 2008
- To be Subedar (SKT)
- Nb Sub (SKT) Shyam Karan Pandey (JC-349208L), 03 May 2008
- Nb Sub (SKT) Achhe Lal (JC-349169X), 01 May 2008
- To be Subedar (RT)
- Nb Sub (RT) Onkar Singh (JC-348282A), 03 Apr 2008
- Nb Sub (RT) Md Eshteyaque Ahmed (JC-348284L), 07 Jul 2008
- To be Subedar (MUSN)
- Nb Sub (MUSN) Lakhwinder Singh (JC-349659L), 15 Apr 2008
- Nb Sub (MUSN) Prakash Malhari Yadav (JC-349627H), 10 May 2008
- To be Nb Sub (MUSN)
- Hav (MUSN) Bel Bahadur Thapa (No. 1572013M now JC-350728H), 24 Jan 2008
- (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Jan 2008 with pay and allowances)

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) SK Mahabub Subhani (No. 1586866P now JC-351022A), 01 Nov 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 with pay and allowances)

Hav (SKT) M Raveendra Babu (No. 1586858W now JC-350985A), 14 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Sukhwinder Pal Singh (No. 1573111Y now JC-350988N), 01 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 with pay and allowances)

Hav (GD) Chavan Babu Pandurang (No. 1575910N now JC-350991N), 29 Oct 2008

Hav (GD) Shangara Singh (No. 1572745H now JC-350992W), 23 Oct 2008

Hav (GD) Harjeevan Singh (No. 1574488P now JC-350993Y), 10 Oct 2008

Hav (GD) Nanne Khan (No. 1574490M now JC-350994F), 03 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Indore Babaji Baburao (No. 1568058P now JC-350997P), 10 Oct 2008

Hav (GD) Namewar Prakash Baburao (No. 1568089P now JC-350998X), 11 Oct 2008

Hav (GD) Vinod Kumar (No. 1572925L now JC-350999A), 21 Oct 2008

Hav (GD) Girdhar Singh (No. 1575459M now JC-351000F), 15 Oct 2008

Hav (GD) Shakil Khan (No. 1575460F now JC-351001K), 15 Oct 2008

Hav (GD) Harjinder Singh (No. 1575691X now JC-351002M), 08 Nov 2008

Hav (GD) Viru Singh (No. 1575841H now JC-351003P), 14 Oct 2008

Hav (GD) Kalwaghe Ambadas Nagorao (No. 1575848M now JC-351004X), 16 Oct 2008

Hav (GD) Raj Kumar (No. 1576215L now JC-351005A), 10 Oct 2008

Hav (GD) Jadhav Arun Mahadev (No. 1576413W now JC-351006H), 06 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Vijay Bahadur (No. 1576536H now JC-351007L), 10 Oct 2008

Hav (GD) Shub Rati (No. 1576791P now JC-351008N), 13 Oct 2008

Hav (GD) Surender Kumar (No. 1576999X now JC-351009W), 10 Oct 2008

Hav (GD) Kadam Shripat Ganpat (No. 1577279H now JC-351010L), 13 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Mool Chand (No. 1568590F now JC-351011N), 10 Nov 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Karam Singh (No. 1568982P now JC-351015K), 05 Nov 2008

Hav (GD) Aman Ulla (No. 1569964Y now JC-351016M), 20 Nov 2008

Hav (GD) Tarvinder Singh (No. 1570198A now JC-351017P), 04 Nov 2008

Hav (GD) Gurdial Singh (No. 1570144Y now JC-351018X), 10 Nov 2008

Hav (GD) Balwinder Singh (No. 1571237A now JC-351019A), 13 Nov 2008

Hav (GD) Chamkour Singh (No. 1571451H now JC-351020P), 20 Nov 2008

Hav (GD) Ashok Kumar Saxena (No. 1573810K now JC-351021X), 17 Nov 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Suresh Singh (No. 1570100F now JC-350951M), 15 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Harmesh Singh (No. 1572600X now JC-350953X), 01 Aug 2008

Hav (GD) Paramjit Singh (No. 1573227P now JC-350954A), 01 Aug 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 with pay and allowances)

Hav (GD) Akhil Shaikh Hanza (No. 1588890K now JC-350960N), 26 Sep 2008

Hav (GD) Kanwaljit Singh (No. 1570395H now JC-350961W), 08 Oct 2008

Hav (GD) Netaji Durgale (No. 1571719P now JC-350962Y), 13 Oct 2008

Hav (GD) Jasvir Singh (No. 1570067P now JC-350963F), 01 Oct 2008

Hav (GD) Pratap Singh (No. 1574054P now JC-350964K), 01 Oct 2008

Hav (GD) Gavhane Digamber Maruti (No. 1574144W now JC-350965M), 01 Oct 2008

Hav (GD) Jeewan Kewalram Rane (No. 1574234X now JC-350966P), 01 Oct 2008

Hav (GD) Prem Chand Ghosh (No. 1574276K now JC-350967X), 01 Oct 2008

Hav (GD) Malkit Singh (No. 1574499F now JC-350968A), 01 Oct 2008

Hav (GD) Avararn Singh (No. 1574511X now JC-350969H), 11 Oct 2008

Hav (GD) Mustaque Ahmed Siddiqui (No. 1574569P now JC-350970X), 26 Sep 2008

Hav (GD) Gurmit Singh (No. 1574620K now JC-350971A), 03 Oct 2008

Hav (GD) Chavan Bajirao Dhondiba (No. 1574730Y now JC-350972H), 08 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Jarnail Singh (No. 1574803A now JC-350973L), 30 Sep 2008

Hav (GD) Baldev Singh (No. 1574892K now JC-350974N), 01 Oct 2008

Hav (GD) Khursheed Ali (No. 1574949N now JC-350975W), 15 Oct 2008

Hav (GD) Godhan Lal (No. 1575062A now JC-350976Y), 01 Oct 2008

Hav (GD) Lakhwinder Singh (No. 1575078L now JC-350977F), 01 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Harak Singh (No. 1575603W now JC-350978K), 01 Oct 2008

Hav (GD) Diwan Singh (No. 1575146N now JC-350979M), 06 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Ram Kumar Singh (No. 1575603W now JC-350983P), 13 Oct 2008

Hav (GD) Kadhane Baliram Dnyanba (No. 1576525W now JC-350984X), 15 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Laloo Yadava (No. 1578417L now JC-350950K), 04 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Jan 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Gokal Singh (No. 1572382K now JC-350952P), 06 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Rakesh Thakur (No. 1579445K now JC-350955H), 26 Sep 2008

Hav (Clk GD) Santosh Kumar (No. 1579448X now JC-350956L), 19 Sep 2008

Hav (Clk GD) Nagane Sharad (No. 1582529H now JC-350957N), 05 Sep 2008

Hav (Clk GD) Jasud Bapurao Tukaram (No. 1576244A now JC-350958W), 26 Sep 2008

Hav (Clk GD) Shaik Husain Sahib (No. 1577439X now JC-350959Y), 18 Sep 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) S Lal Bahadur Larance (No. 1579234F now JC-350980F), 11 Oct 2008

Hav (Clk GD) Rafique Ahmed (No. 1579266K now JC-350981K), 04 Oct 2008

Hav (Clk GD) Rajendra Kumar Sharma (No. 1579550A now JC-350982M), 15 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Bijander Singh (No. 1579290A now JC-350987L), 10 Nov 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Chandra Prakash Verma (No. 1577841F now JC-350989W), 22 Oct 2008

Hav (Clk GD) R Joithi Madhavan (No. 1579219M now JC-350990L), 15 Nov 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Vir Singh (No. 1579694H now JC-350995K), 24 Oct 2008

Hav (Clk GD) Awadh Kumar Singh (No. 1579784K now JC-350996M), 11 Oct 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Santosh Nagar (No. 1580121L now JC-351012W), 11 Nov 2008

Hav (Clk GD) Hoshiyar Singh (No. 1579245N now JC-351013Y), 06 Nov 2008

Hav (Clk GD) Vimal Kumar Bhadouriya (No. 1580472A now JC-351014F), 03 Nov 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Anil Kumar Singh (No. 1580977W now JC-351023H), 01 Dec 2008

Hav (Clk GD) Vempati Bhanu Prasad (No. 1581110L now JC-351024L), 01 Dec 2008

Hav (Clk GD) Pratap Singh Mahara (No. 6930929H now JC-351025N), 01 Dec 2008

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 with effect on pay and allowances)

ALKA JOSHI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 180, dated 5th March 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Rajendra Singh (JC-200084N), 01 Jan 2009

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Shri Krishan Singh (JC-448396A), 01 Dec 2008

Nb Sub Krishnan Raman (JC-841200M), 01 Dec 2008

Nb Sub Ravendra Singh (JC-143357N), 01 Jan 2009

Nb Sub Saman Singh (JC-146787H), 01 Jan 2009

Nb Sub Rama Pati (JC-194491M), 01 Jan 2009

Nb Sub V Sasidharan Nair (JC-199116L), 01 Jan 2009

Nb Sub Basti Ram Yadav (JC-210884P), 01 Jan 2009

Nb Sub Dulo Ram (JC-222671N), 01 Jan 2009

Nb Sub Krishna Mohan Roy (JC-841208Y), 01 Jan 2009

PRADEEP KUMAR
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 181, dated 6th March 2009—The President is pleased to make the following appointment/promotions :—

Hav to be Nb Sub Armr

Birsa Toppo (No. 14556843Y now JC-762898M), 25 Aug 2008/01 Aug 2008*

Chandan Singh Bhandari (No. 14557769P now JC-762903M), 01 Sep 2008/01 Sep 2008*

Jadhav Kumar Bhima Rao (No. 14556844F now JC-762899P), 19 Aug 2008/01 Aug 2008*

Joginder Singh (No. 14556731Y now JC-762897K), 03 Sep 2008/01 Aug 2008*

Madan Thieng (No. 14556567F now JC-762896F), 12 Aug 2008/01 Aug 2008*

Mahendra Singh Bhandari (No. 14557159H now JC-762902K), 06 Sep 2008/01 Aug 2008*

Ram Chandra Yadav (No. 14556978A now JC-762901F), 01 Sep 2008/01 Aug 2008*

Titalesh Prasad Singh (No. 14556977X now JC-762900Y), 21 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Priyanath Parida (No. 14568576P now JC-762878Y), 01 Sep 2008/29 Jun 2008*

Hav to be Nb Sub Elect (AFV)

Indal Singh Rawat (No. 14618352N now JC-762709X), 08 Jul 2008/04 May 2008*

Hav to be Nb Sub Elect (MV)

Jashodhir Das (No. 14549396X now JC-762904P), 19 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav to be Nb Sub Ftr (FD)

Dost Mohammed Khan (No. 14548149X now JC-762823P), 10 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav to be Nb Sub Tech (AVF)

Kaushal Kumar Singh (No. 14618290Y now JC-762870M), 01 Sep 2008/01 Oct 2007*

Hav to be Nb Sub Tech (ELF)

Prince P George (No. 14609228L now JC-762866K), 01 Sep 2008/01 Oct 2007*

Hav to be Nb Sub Tech A-Veh

Birajdar Dhanppa Ningappa (No. 14616931F now JC-762852K), 20 Aug 2008/06 Jul 2008*

Jai Dev Singh (No. 14618949W now JC-762863W), 26 Aug 2008/01 Aug 2008*

Kali Pada Pain (No. 14618512H now JC-762853M), 18 Aug 2008/22 Jun 2008*

Niraj Kumar (No. 14618094Y now JC-762860H), 18 Aug 2008/01 Aug 2008*

Pradeep Kumar Das (No. 14619034W now JC-762864Y), 26 Aug 2008/01 Aug 2008*

Vikram Singh (No. 14618468K now JC-762862N), 18 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav to be Nb Sub Tech B-Veh

Om Prakash (No. 14589294K now JC-762858L), 09 Aug 2008/01 Jun 2008*

Hav to be Nb Sub Tech Cmptr

Narsale Maruti Balvant (No. 14616922A now JC-762749Y), 01 Aug 2008/01 Aug 2008*

Sanjib Kumar Dutta (No. 14576808X now JC-762746L), 13 Jul 2008/01 Jul 2008*

Hav to be Nb Sub Tech Elect

Anish Kumar (No. 14619238H now JC-762724M), 18 Aug 2008/01 Jun 2008*

Arun Kumar Mohapatra (No. 14590298M now JC-762717W), 03 Jul 2008/01 Jun 2008*

Brij Pal (No. 14600493A now JC-762833Y), 21 Aug 2008/01 Aug 2008*

Gulam Mohinoddin (No. 14611176Y now JC-762722F), 15 Jul 2008/01 Jun 2008*

Hare Ram Mehta (No. 14604404N now JC-762837P), 18 Aug 2008/01 Aug 2008*

Mukesh Shukla (No. 14603533F now JC-762836M), 28 Aug 2008/01 Aug 2008*

Murugan R (No. 14600587Y now JC-762834F), 11 Aug 2008/01 Aug 2008*

Santhosh Kumar B (No. 14618293M now JC-762831N), 11 Sep 2008/13 Jul 2008*

Satish Kumar C U (No. 14604406Y now JC-762839A), 18 Aug 2008/01 Aug 2008*

Shish Ram (No. 14602243X now JC-762830L), 25 Aug 2008/13 Jul 2008*

Sukumar Mandal (No. 14596981H now JC-762832W), 18 Aug 2008/05 Jun 2008*

Sunil Kumar Singh (No. 14604403L now JC-762838X), 13 Aug 2008/01 Aug 2008*

V Venkatachalam (No. 14604803X now JC-762840P), 16 Aug 2008/01 Aug 2008*

Hav to be Nb Sub Tech Radio

J Harinadha Reddy (No. 14618954F now JC-762849K), 01 Sep 2008/01 Sep 2008*

Kadamiaresh Bhai Jagdish (No. 14618176F now JC-762669F), 01 Aug 2008/01 Aug 2008*

Omprakash Singh (No. 14618287Y now JC-762844L), 11 Aug 2008/01 Aug 2008*

Partap Singh (No. 14622008A now JC-762850Y), 01 Sep 2008/01 Sep 2008*

Prasanta Kumar Sahoo (No. 14617351Y now JC-762668Y), 01 Aug 2008/01 Aug 2008*

Sanjay Samaddar (No. 14616135Y now JC-762841X), 18 Aug 2008/13 Jul 2008*

Satvinder Singh (No. 14618937F now JC-762848F), 01 Sep 2008/01 Sep 2008*

Ved Pal Singh (No. 14618935W now JC-762847Y), 01 Sep 2008/01 Sep 2008*

Zinjurde Ramesh Viththal (No. 14616578A now JC-762842A), 19 Aug 2008/22 Jun 2008*

Hav to be Nb Sub AVF (AEN)

Ompal (No. 14560769A now JC-762825A), 15 Aug 2008/01 Aug 2008*

*Gtd ante dated seniority.

NAND KISHORE KASHMIRA
Under Secy.

AIR FORCE

No. 182, dated 6th March 2009—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

Wg Cdr to be Substantive GP Capt (TS)

FLYING (PILOT) BRANCH

15012 P Malaker, wef 16 Dec 2004

15562 DK Yadav, wef 30 Dec 2004

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

15328 K Kumar, wef 16 Dec 2004

ADM BRANCH

14376 AK Sehgal, wef 16 Dec 2004

14387 AK Johri, wef 16 Dec 2004

14396 CP Ganapathy, wef 16 Dec 2004

14738 VK Karpal, wef 16 Dec 2004

14740 R Anal, wef 16 Dec 2004

LOGISTICS BRANCH

14970 SP Singh, wef 16 Dec 2004

AE BRANCH

15967 SK Agarwal, wef 05 Jan 2005

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

FLYING (PILOT) BRANCH

20788 V Chaturvedi, wef 16 Dec 2004

EDUCATION BRANCH

18345 I Singh, wef 16 Dec 2004

19267 AK Srivastava, wef 16 Dec 2004

AE BRANCH

21058 BP Singh, wef 16 Dec 2004

22382 R Sahu, wef 04 Apr 2005

20386 PK Babbar, wef 01 Jul 2006

ADMIN BRANCH

Sqn Ldr to be Substantive Wg Cdr

21272 P Sreedhar, wef 01 Jul 2005

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

FLYING (PILOT) BRANCH

23186 S Chandra, wef 16 Dec 2004

23210 AJ Mathews, wef 16 Dec 2004

23506 KS Lamba, wef 16 Dec 2004

23508 V Singh, wef 16 Dec 2004

23509 BN Athreya, wef 16 Dec 2004

23512 MA John Singh, wef 16 Dec 2004

23514 M Kumar, wef 16 Dec 2004

23517 KS Deswal, wef 16 Dec 2004

23518 V Malhotra, wef 16 Dec 2004

23519	VJ Singh, wef 16 Dec 2004	23780	N Asthana, wef 16 Dec 2004
23520	SK Kanwar, wef 16 Dec 2004	23781	SM Yunus, wef 16 Dec 2004
23521	P Bhardwaj, wef 16 Dec 2004	23789	RK Dubey, wef 16 Dec 2004
23523	RV Prakash, wef 16 Dec 2004	24008	S Sharma, wef 16 Dec 2004
23524	VG Gore, wef 16 Dec 2004	25840	P Sivaram, wef 18 Dec 2005
23526	K Mukherjee, wef 16 Dec 2004		FLYING (NAVIGATOR) BRANCH
23529	A Kumar, wef 16 Dec 2004	23578	R Kanan, wef 16 Dec 2004
23530	N Mahajan, wef 16 Dec 2004	23582	V Avasthy, wef 16 Dec 2004
23532	R Shivraj, wef 16 Dec 2004	23583	B Gopi Krishnan, wef 16 Dec 2004
23533	R Beri, wef 16 Dec 2004	23584	D Singh, wef 16 Dec 2004
23534	A Singhal, wef 16 Dec 2004	23585	V Panthri, wef 16 Dec 2004
23535	RS Dhaliwal, wef 16 Dec 2004	23587	LK Muktevi, wef 16 Dec 2004
23536	A Pujari, wef 16 Dec 2004	23798	RS Krishnan, wef 16 Dec 2004
23537	M Khare, wef 16 Dec 2004	24056	T Agrawal, wef 16 Dec 2004
23538	AP Singh, wef 16 Dec 2004		ADM BRANCH
23540	VK Dubay, wef 16 Dec 2004	23048	D Shankar, wef 16 Dec 2004
23541	P Awasthi, wef 16 Dec 2004	23049	T Lukose, wef 16 Dec 2004
23544	BA Beasley, wef 16 Dec 2004	23051	KK Bhaduri, wef 16 Dec 2004
23545	H Kulshreshtha, wef 16 Dec 2004	23052	RS Bisht, wef 16 Dec 2004
23549	A Malhotra, wef 16 Dec 2004	23053	AK Thawait, wef 16 Dec 2004
23551	GS Butalia, wef 16 Dec 2004	23055	A Bhattacharya, wef 16 Dec 2004
23552	A Nandi, wef 16 Dec 2004	23590	R Srinivasan, wef 16 Dec 2004
23553	A Kumar, wef 16 Dec 2004	23592	HK Pande, wef 16 Dec 2004
23556	P Dutta, wef 16 Dec 2004	23593	M Bhardwaj, wef 16 Dec 2004
23558	A Gopinath, wef 16 Dec 2004	23594	PJPS Waraich, wef 16 Dec 2004
23560	S Ray, wef 16 Dec 2004	23599	AC Pandey, wef 16 Dec 2004
23562	CP Dwivedi, wef 16 Dec 2004	23600	A Sidharth, wef 16 Dec 2004
23563	S Malik, wef 16 Dec 2004	23602	J Singh, wef 16 Dec 2004
23565	YK Daksh, wef 16 Dec 2004	23606	G Hotchandani, wef 16 Dec 2004
23566	TH Jagannath, wef 16 Dec 2004	23617	A Roy, wef 16 Dec 2004
23567	AS Parandekar, wef 16 Dec 2004	23621	JP Patro, wef 16 Dec 2004
23568	AB Lulay, wef 16 Dec 2004	23623	SG Pisey, wef 16 Dec 2004
23569	FP Pinto, wef 16 Dec 2004	23625	LN Raghvan, wef 16 Dec 2004
23570	R Rajesh, wef 16 Dec 2004	23631	RR Deshpande, wef 16 Dec 2004
23571	GK Pillai, wef 16 Dec 2004	23637	JK Pathak, wef 16 Dec 2004
23572	A Goswami, wef 16 Dec 2004	23730	S Joshi, wef 16 Dec 2004
23574	S Raj, wef 16 Dec 2004	23759	R Singh, wef 16 Dec 2004
23575	D Gracias, wef 16 Dec 2004		MET BRANCH
23728	T Sharma, wef 16 Dec 2004	23135	MT Nanjappa, wef 16 Dec 2004
23733	P Vig, wef 16 Dec 2004		EDUCATION BRANCH
23734	VS Shokeen, wef 16 Dec 2004	23633	MA Deshpande, wef 16 Dec 2004
23746	RC Pathak, wef 16 Dec 2004	23635	ST Namgyal, wef 16 Dec 2004
23750	VS Rao, wef 16 Dec 2004		AE BRANCH
23768	AA Saswadkar, wef 16 Dec 2004	24130	MPS Virk, wef 16 Dec 2004
		24134	CS Krishnadas, wef 16 Dec 2004

24156 C Dinakar, wef 16 Dec 2004
 24122 J George, wef 16 Dec 2004
 24123 NJS Sohi, wef 16 Dec 2004
 24125 RK Shukla, wef 16 Dec 2004
 24126 P Angadi, wef 16 Dec 2004
 24129 MS Harish, wef 16 Dec 2004
 24145 BK Purshothaman, wef 16 Dec 2004
 25428 GA Kumar, wef 16 Dec 2004
 25436 S Sharma, wef 16 Dec 2004

ADMIN BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

21272 P Sreedhar, wef 10 Apr 2002
 24354 M A Rahim, wef 16 Dec 2004

SHORT SERVICE COMMISSION

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

EDUCATION BRANCH

23647 M Rajput, wef 16 Dec 2004

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

ACCTS BRANCH

27045 S Hans, wef 16 Dec 2004

LGS BRANCH

27269 V Kumar, wef 21 Dec 2004

AE BRANCH

26857 S Sinha, wef 16 Dec 2004

27388 HP Kothari, wef 16 Dec 2004

27938 P Chandra Shekar, wef 16 Dec 2004

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

ADM BRANCH

27099 TV Gopala Krishna, wef 16 Dec 2004

27283 (Mrs) PK Ghuman, wef 21 Dec 2004

ACCTS BRANCH

26623 Shaloo Gautam, wef 16 Dec 2004

LGS BRANCH

27294 (Mrs) R Khare, wef 21 Dec 2004

N VIJAY KUMAR
 Wg Cdr
 JDPO-3(D)

No. 183, dated 6th March 2009—The President is pleased to retire Shri SM Pathak, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 28.2.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI
 Under Secy

ARMY BRANCH

No. 184, dated 6th March 2009—The President is pleased to permit the following officers to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :—

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Maj Awadhesh Pandey (TA-41942), Engr (TA), 31 Jul 2008 (AN)

Lt Col SB Singh (TA-41980), Engr (TA), 30 Nov 2008 (AN)

JAI RAJ
 Under Secy

ARMY BRANCH

No. 185, dated 9th March 2009—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

CORRIGENDUM

In the Govt. of India, Ministry of Defence Gazette Notification published on 25 Oct 2008, Ser No 44 under the heading "Regular Army" (Short Service Commission) is hereby amended as under :—

For — SS-40387 (IC-65977A) Lt Rajesh Madhwani

Read — —BLANK—

VS RANADE
 Col.
 Col MS77